



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6—मार्च 12, 2004 (फाल्गुन 16, 1925)  
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6—MARCH 12, 2004 (PHALGUNA 16, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक  
केंद्रीय कार्यालय सचिव विभाग  
मुंबई-400001, दिनांक 2004  
भारतीय रिज़र्व बैंक, सामान्य विनियमावली, 1949  
के विनियम 24 में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति से एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 संशोधित करने के लिए निम्नानुसार विनियम करता है, अर्थात् :

- (1) इन विनियमों को भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य (संशोधित) विनियमावली, 2004 कहा जाएगा।  
(2) ये विनियम दिनांक 12 फरवरी 2004 से प्रभावी होंगे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 में विनियम 24 के मौजूदा उप-विनियम (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रयोग में लाये जायेंगे।

24(i) अधिनियम की धारा 8(1)(ख), 8(1)(ग) और 12(4) के अंतर्गत नामित निदेशकों को केन्द्रीय बोर्ड की प्रत्येक बैठक और केन्द्रीय बोर्ड की समिति की प्रत्येक बैठक, जिसमें वे भाग लेते हैं, के लिए क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये की फीस प्राप्त होगी।

24(ii) स्थानीय बोर्ड के सदस्यों को, स्थानीय बोर्ड की बैठक में उपस्थित रहने पर प्रति बैठक 10,000 रुपये फीस प्राप्त होगी।

वाय. एस. पी. थोरात  
कार्यपालक निदेशक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग  
केन्द्रीय कार्यालय  
मुंबई

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसार दिसम्बर 2003 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित आवेदकों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई 400 008 को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग ख में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दवेदार का नाम	प्रतिनिधि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
बंगलूर सरकल 10% राहत बांड 1995					
बोपल 2505	रु. 2,50,000/-	दिलीप वी.अरुर और डॉ. विनोद डी.अरुर	12.10.98	दिलीप वी.अरुर और डॉ. विनोद डी.अरुर	डायरी सं. 463 फाइल सं. 01.03.08 - महाप्रबंधक के दिनांक 9.12.2003 के आदेश

सूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दवेदार का नाम	प्रतिनिधि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
मुंबई (फोर्ट) सरकल भारत सरकार 6.50 प्रतिशत ऋण 2003					
बी.वाई 031309	रु. 20,500/-	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	11.3.1997	मेसर्स ए.बी.सी. बेअरिंग्स लि. कर्मचारी उपदान निधि	मापला क्र. 20.4.2212 महा प्रबंधक के दि. 27.11.2003 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी संख्या 303 दि. 27.11.2003
बी.वाई 031310	रु. 1,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

आयाम/पुनर्निधि  
(ए.एस. मोहिनाजी)

कृते मुख्य महा प्रबंधक  
06 फरवरी 2004

## विजया बैंक प्रधान कार्यालय

बेंगलूर 560 001 दिनांक: 12.02.2004

सं. पीईआर/आईआरडी/614/2004 - बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980(1980 का 40) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विजया बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी(अनुशासन व अपील) विनियम 1981 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ : (1) इन विनियमों को, विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी(अनुशासन व अपील)(संशोधन) विनियम, 2004 कहा जाए.  
  
(2) ये विनियम, 'राजपत्र' में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे.
2. विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी(अनुशासन व अपील) विनियम 1981 में, विनियम 17 के स्थान पर, नीचे उल्लिखित विनियम जोड़ा जाएगा अर्थात्:-

### “ 17 अपील ”

- (1) अधिकारी कर्मचारी, विनियम 4 में विनिर्दिष्ट दंड में से कोई दंड देते हुए जारी किए गए आदेश अथवा विनियम 12 में निर्दिष्ट निलंबन आदेश की प्राप्ति तारीख से पैंतालीस दिनों के अंदर, अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है:

परंतु यह कि अपील प्राधिकारी, उक्त अवधि समाप्त होने के बाद, अपील स्वीकार कर सकता है बशर्ते कि यह तुष्टि की जाए कि अपीलकर्ता के पास, समय पर अपील न करने का पर्याप्त कारण था.

- (2) अपीलकर्ता को अपनी अपील, अपील प्राधिकारी के सामने और उसकी एक प्रतिलिपि, उस प्राधिकारी के समक्ष, जिसके आदेश के खिलाफ अपील की गई हो, पेश करनी होगी. उसमें ऐसे

सारे तात्त्विक कथन और तर्क शामिल किए जाने चाहिए जिन पर अपीलकर्ता निर्भर हो. परंतु उसमें अनाश्रपूर्ण अथवा अनुचित भाषा का प्रयोग न किया गया हो और वह अपने आपमें स्वयंपूर्ण हो.

- (3) जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई हो उसके प्राधिकारी को, अपीलकर्ता से अपील की प्रतिलिपि मिलने के बाद, उसे अपनी टिप्पणियों और संबंधित अभिलेखों के साथ, अपील प्राधिकारी के पास, अपील प्राप्त हुई तारीख से पैंतालीस दिनों के अंदर भेजना होगा.
- (4) जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई हो उसके प्राधिकारी से टिप्पणियां और मामले के अभिलेख मिलने के बाद, अपील प्राधिकारी, यह विचार करेगा कि क्या निलंबन आदेश/निष्कर्ष न्यायोचित है या दंड, ज्यादा है या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा. अपील प्राधिकारी, दंड/निलंबन की पुष्टि करते हुए, उसे बढ़ाते हुए, घटाते हुए अथवा मामले को अपास्त करते हुए, आदेश पारित कर सकता है अथवा मामला, दंड देनेवाले प्राधिकारी अथवा किसी दूसरे प्राधिकारी के पास, ऐसे निर्देश के साथ, जो मामले की परिस्थितियों में वह उचित समझे, वापस भेज सकता है.

परंतु यह कि:

- (i) अगर अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित बढ़ाया गया दंड, विनियम 4 के खंड (एफ), (जी), (एच), (आई) और (जे) में विनिर्दिष्ट घोर दंड हो और विनियम 6 में बताई गई जांच, मामले में न की गई हो तो, अपील प्राधिकारी ऐसे निर्देश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी जांच की जाए और उसके बाद, जांच के अभिलेखों के आधार पर विचार करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो उचित समझे जाएं.
  - (ii) अगर अपील प्राधिकारी, दंड बढ़ाने का निर्णय ले परंतु, विनियम 6 में बताए गए अनुसार जांच की जा चुकी हो तो, अपील प्राधिकारी, अधिकारी कर्मचारी को यह कारण बताने का नोटिस जारी करेगा कि उसे बढ़ाया गया दंड क्यों न दिया जाए और अगर अधिकारी कर्मचारी ने कोई अभ्यावेदन किया हो तो उस पर गौर करते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा.
- (5) अपील प्राधिकारी, अपीलकर्ता से अपील प्राप्त हुई तारीख से नब्बे दिनों के अंदर अपील निपटाएगा.

परतु यह कि इस विनियम में निर्दिष्ट समय सीमा, सतर्कता संबंधी मामलों में और उन मामलों में लागू नहीं होगी, जहां मामले की जांच करनेवाली पुलिस अथवा केंद्रीय जांच ब्यूरो अथवा केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो भी हो, की सिफारिश पर अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ घोर/मामूली दंडात्मक कार्यवाही शुरू की गई हो.

- (6) अपील प्राधिकारी, नब्बे दिनों से लंबित पड़े मामलों की आवधिक रूप से समीक्षा करेगा और मामलों को न निपटाने के कारण, लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे.

के. जयकर शेट्टी  
(के. जयकर शेट्टी)  
महा प्रबंधक  
(कार्मिक)

नोट: विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी(अनुशासन व अपील) विनियम 1981 के पूर्व संशोधन, राजपत्र में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रकाशित किए गए थे:-


क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1	542	22.03.1997
2	पीईआर/आईआरडी/874	09.04.2001
3	पीईआर/आईआरडी/4410/2001	08.10.2001

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2004

संख्या : यू-16/53/2001-चि.शाखा-2(केरल) कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल 1951 को हुई बैठक में पास किये गये संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टरों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो को उप चिकित्सा आयुक्त(दक्षिण क्षेत्र) बंगलौर द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

क्र.सं.	डॉक्टर का नाम	केन्द्र का नाम	अवधि
1	डॉ. नवीन कुमार	त्रिचूर व पालघाट	18.8.03 से 17.8.04

  
 (डॉ. (श्रीमती) सुभाष सिंह)  
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 12 फरवरी 2004

सं. एन-15/13/14/12/2001-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम, 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“कोयम्बतूर जिला में पोल्लाची तालुक के राजस्व ग्राम सोलावम्पालयम, चोलनूर किणतुकडवु, गोतवडि एवं अचिपट्टी के अधीन आने वाले क्षेत्र”।

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
मुख्यालय- भविष्य निधि भवन

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2004

सं. सम्मलेन-5(2)/2003/असम/21465

सं0..... कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (1) के अनुसरण में जिसका यहां योजना के रूप में उल्लेख किया गया है, तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5(2)97/असम/86 दिनांक 19.6.2000 का अतिक्रमण करते हुए अध्यक्ष केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, असम राज्य के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :-


क्र. सं0	सदस्य का नाम तथा पदनाम	के रूप में नियुक्त
1.	श्री बी.बी.हगज़र, आई ए एस, सचिव, असम सरकार श्रम एवं रोजगार विभाग,	अध्यक्ष (पैरा 4(1) (क) के अंतर्गत)
2.	श्रमायुक्त, असम गोपी नाथ नगर, गुवाहाटी-16	सरकारी सदस्य (पैरा 4(1) (ख) के अंतर्गत)
3.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त(केन्द्रीय) गुवाहाटी	
4.	श्री बी.पी. बॉक्सी, मानद सचिव, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, असम राज्य, तिनसुकिया ।	सदस्य नियोक्ता पक्ष (पैरा 4(1) (ग) के अंतर्गत)
5	श्री ए.के. गोस्वामी, आई.ओ.सी. (ए.ओ.डी.)	
6	श्री प्रणव गोगोई, ओ.एन.जी.सी.एल. पूर्वांचल एम्पलाइज एसोसिएशन, रेडक्रॉस रोड, सिबसागर (इंटक)	सदस्य कर्मचारी पक्ष (पैरा 4(1) (घ) के अंतर्गत)
7	श्री सोमेश बिश्वास, महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, पार्क रोड, सिल्वर ।	
8	श्री मोहन लाल जलान, पी.ओ. गोलाघाट-785621, असम	नियोक्ता के प्रतिनिधि अतिरिक्त सदस्य स्कीम के पैरा 4(1) के परंतुक के अंतर्गत

9.	श्री सोमेश बिश्वास, बी.एम.एस. पार्क रोड, सिल्वर-788001, असम	कर्मचारियों के प्रतिनिधि अतिरिक्त सदस्य स्कीम के पैरा 4(1) के परंतुक के अंतर्गत
10.	श्री एस.एस. कुलकर्णी, केशवदाम, कबि रोड, बल्टन बाजार, गुवाहाटी-781008, असम	
11.	श्री बिष्णु हजारिका, सुबानसिरी गोआलिया बैंक, कमलाबाड़ी रोड, जिला नार्थ लक्खीमपुर, असम	

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, प्रभारी अधिकारी, पूर्वोत्तर क्षेत्र, क्षेत्रीय समिति के सचिव होंगे।

क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष का होगा परन्तु प्रत्येक सदस्य तब तक कार्य करता रहेगा जब तक सरकारी राजपत्र में उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित नहीं की जाती है।

यह तत्काल रूप से प्रभावी होगा।



(अजय सिंह)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त



## दिनांक :

सं. के. भ. नि. आ. 1(4)/2086/03/केआर/टीएन/डब्ल्यूबी

**सूचना** केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं में संबंधित नियोजता तथा 'कर्मचारियों' का बहुमत इस बात में सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 § 1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जायें।

क्र.सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	स्थापित की ति.	सहस्रवर्षिकी ति.
1.	केआर/16671	मै० वाइडल क्लीनिंग कम्पनी	15.04.2002	15.04.2002
2.	केआर/केके/17663	मै० हरबिन्दस एन. आई. डी. 71	19.10.2001	19.10.2001
3.	केआर/केके/17748	मै० अन्ताराल इस्लाम चैरिटेबल ट्रस्ट	30.06.2003	30.06.2003
4.	केआर/17764	मै० वैशाख होस्पिटल	01.05.2003	10.4.2003
5.	केआर/केसी/19339	मै० नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी	01.04.2000	01.04.2000
6.	पीसी/1245	मै० पोन्डी एगो केमिकल्स प्रा. लि.	01.01.2003	01.01.2003
7.	पीसी/1251	मै० एस. जी. पोलिमर	21.02.2003	21.02.2003
8.	टीएन/एसएसएम/47432	मै० क्रिसेन्ट मेट्रीकुलेशन स्कूल	07.04.2003	07.04.2003
9.	टीएन/50008	मै० सी. एम. सोफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस	29.06.2002	29.06.2002
10.	टीएन/50114	मै० मेटीमिक्ससॉल्यूशंस प्रा. लि.	11.10.2002	11.10.2002
11.	टीएन/56082	मै० दि नीलगिरि रिलायंस सिग्रेट्स सर्विस	13.02.2002	13.02.2002
12.	टीएन/50280	मै० धर्मल स्पेयर्स एण्ड सर्विस	15.03.2003	15.03.2003
13.	टीएन/50385	मै० एलएमटी फेटी इंडिया प्रा. लि.	06.06.2003	06.06.2003
14.	डब्ल्यूबी/30773	मै० संजय अग्रवाल	01.04.2002	01.04.2002
15.	डब्ल्यूबी/30908	मै० सन्तोष दास	01.01.2003	01.01.2003
16.	डब्ल्यूबी/30935	मै० टीएस एन्टरप्राइस	01.03.2003	01.03.2003
17.	डब्ल्यूबी/30950	मै० बी. डी. एजेन्सीज	01.03.2003	01.03.2003
18.	डब्ल्यूबी/30968	मै० द्विवेणी एन्टरप्राइस	07.04.2003	07.04.2003
19.	डब्ल्यूबी/30969	मै० राजकुमार शर्मा	04.04.2003	04.04.2003
20.	डब्ल्यूबी/30970	मै० कंचनजंगा कन्सल्टिंग एंड कम्प.	01.04.2003	01.04.2003
21.	डब्ल्यूबी/30985	मै० स्वरगीन एन्टरप्राइस	16.04.2003	16.04.2003
22.	डब्ल्यूबी/31005	मै० चन्द्रा बहादुर तंम	12.05.2003	12.05.2003
23.	डब्ल्यूबी/31012	मै० बिजय कुमार थापा	07.05.2003	07.05.2003
24.	डब्ल्यूबी/31025	मै० पारोशा कन्सल्टिंग	02.06.2003	02.06.2003
25.	डब्ल्यूबी/31028	मै० महाकाल बाबा एन्टरप्राइस	06.06.2003	06.06.2003
26.	डब्ल्यूबी/31034	मै० राबिन्द्रा कन्सल्टिंग	01.06.2003	01.06.2003

27. डब्ल्यूबी/31038	मे० सारा माया तम्रां	01. 06. 2003	01. 06. 2003
28. डब्ल्यूबी/30993	मे० रंजीत कन्सल्टेशन	16. 04. 2003	16. 04. 2003
29. डब्ल्यूबी/30967	मे० फ्रेन्ड्स एन्टरप्राईसिस	07. 04. 2003	07. 04. 2003
30. डब्ल्यूबी/30821	मे० विनय कन्सल्टेशन	02. 05. 2002	02. 05. 2002
31. डब्ल्यूबी/31004	मे० बुद्धा लोमा	12. 05. 2003	12. 05. 2003
32. डब्ल्यूबी/31029	मे० देवालय एन्टरप्राईसिस	02. 06. 2003	02. 06. 2003
33. डब्ल्यूबी/31033	मे० बजरंग लाल अग्रवाल	01. 06. 2003	01. 06. 2003

अतः केन्द्रीय मविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं पर या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

(5)

§ स्त. आर. जोशी §  
क्षेत्रीय मविष्य निधि आयुक्त § मुख्य §

**RESERVE BANK OF INDIA  
CENTRAL OFFICE  
SECRETARY'S DEPARTMENT  
MUMBAI 400 001**

**Amendment to Regulation 24 of the Reserve Bank of India  
General Regulations, 1949**

In exercise of the powers conferred by Section 58(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board of the Reserve Bank of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Reserve Bank of India General Regulations, 1949, namely,

1. (1) These Regulations may be called as the Reserve Bank of India General (Amendment) Regulations, 2004.  
(2) These Regulations shall come into force on 12 February 2004.
2. In the Reserve Bank of India General Regulations, 1949, for the existing Sub-Regulations (i) and (ii) of Regulation 24 the following shall be substituted:

**24 (i)** Directors nominated under Section 8(1)(b), 8(1)(c) and 12(4) of the Act shall receive a fee of Rs.10,000/- for each meeting of the Central Board which they attend and Rs.5,000/- for each meeting of the Committee of the Central Board which they attend

**(ii)** Members of a Local Board shall receive a fee of Rs.10,000/- for each meeting of the Local Board which they attend

  
(Y. S. P. Thorat)  
Executive Director

DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS  
CENTRAL DEBT DIVISION  
MUMBAI

In pursuance of Rule 18 of the Rules made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No.F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No.57 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended December 2003 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai 400 008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams8	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Bangalore Circle</u> <u>10% Relief Bonds 1995</u>					
BL 2505	Rs. 2,50,000/-	Dileep V.Arur and Dr.Vinod D.Arur	12.10.98	Dileep V.Arur and Dr.Vinod D.Arur	Diary No.463 No.01.03.08 Orders dated 9.12.2003

List "B"

No. of Security	Value in Rs./Grams8	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Mumbai (Fort) Circle</u> <u>Government of India 6.50% Loan 2003</u>					
BY 031309	Rs. 20,500/-	Reserve Bank of India	11.03.1997	M/s ABC Bearings Ltd. Employees' Gratuity Fund	Case No.20.4.2212 General Manager's orders dated 27.11.2003. Central Office Diary No.303 dated 27.11.2003
BY 031310	Rs. 1,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

*(Signature)*  
(A.S. Mohinani)  
p.Chief General Manager  
06 February 2004

**VIJAYA BANK  
HEAD OFFICE**

Bangalore-560 001, the 12th February 2004

No.PER/IRD/614/2004 - In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Vijaya Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the Vijaya Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1981, namely:-

1. Short title and commencement: (1) These Regulations may be called the Vijaya Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the "Official Gazette".

2. In the Vijaya Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations 1981, for Regulation 17, the following Regulation shall be substituted, namely:-

**"17 APPEALS :**

(1) An Officer employee may prefer an appeal to the Appellate Authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in Regulation 4 or against the order of suspension referred to in Regulation 12:

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(2) The appeal shall be presented to the Appellate Authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority, which made the order appealed against. It shall contain all material statements and

arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language and shall be complete in itself.


- (3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate Authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal.
- (4) The Appellate Authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of suspension/findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate Authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty/suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that:

- (i) If the enhanced penalty, which the Appellate Authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of Regulation 4 and an inquiry as provided in Regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of Regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper;
  - (ii) If the Appellate Authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in Regulation 6, the Appellate Authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.
- (5) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant:

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

- (6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate Authority and reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing."

  
(K. JAYAKAR SHETTY)  
GENERAL MANAGER  
(Personnel)

**Note:** Earlier amendments to the Vijaya Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations 1981 were published in the Gazette as per details given below:

<u>Sl.No.</u>	<u>Notification No.</u>	<u>Date</u>
1	542	22.03.1997
2	PER/IRD/874	09.04.2001
3	PER/IRD/4410/2001	08.10.2001

**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**

New Delhi, the 29th January 2004

**No.U-16/53/2001/Med.II(Kerala):-** In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for d areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (SZ), Bangalore for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name of the Doctor	Period	Name of Centre
Dr. Naveena Kumar	18.8.2003 to 17.8.2004	Trichur & Palghat

  
(DR.(MRS.)S. SINGH)  
**MEDICAL COMMISSIONER**



The 12th February 2004

No. N-15/13/14/12/2001-F&D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1 February, 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamilnadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamilnadu namely

"Areas comprising the revenue villages of Solavampalayan, Shozhanur, Kinathukadavu, Gothavadi and Achipatti of Pollachi Taluk in Coimbatore District".

  
(R.C. SHARMA)  
JOINT DIRECTOR (F&D)

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION**  
**HEAD OFFICE - BHAVISHYANIDHI BHAWAN**

New Delhi, the 12th February 2004

No. Conf. 5(2) 2003/Assam/21465 In accordance with the provisions of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, hereinafter referred to as "Scheme", and in supersession of the Notification No. Conf. 5(2)97/Assam/86 Dated 19.06.2000 issued by the Central Provident Fund Commissioner, New Delhi, the Chairman, Central Board of Trustees, Employees' Provident fund hereby sets up a Regional Committee for the State of Assam consisting of the following persons namely:-

Sl. No.	Name & Designation of the Member	Recommended for Appointment as
1	Shri B.B. Hagjer, IAS, Secretary to the Government of Assam, Labour & Employment Deptt.	Chairman [Under Para 4(1)(a)]

2	Labour Commissioner, Assam. Gopinath Nagar, Guwahati -16	<b>Official Members</b> [Under Para 4(1)(b)]
3	Regional Labour Commissioner (Central) Guwahati.	
4	Shri B.P. Boxi, Honorary Secy., All India Manufacturers Association, Assam State Tinisukia.	<b>Members</b> <b>(Employer's representative)</b> [under Para 4(1)(c)]
5	Shri A. K. Goswami, IOC (AOD).	
6	Shri Pranab Gogoi, ONGCL Purbanchal Employees' Association, Red Cross Road, Sibsagar (INTUC)	<b>Members</b> <b>(Employees' representative)</b> [under Para 4(1)(d)]
7	Shri Somesh Biswas, Mahamantri, Bharatia Mazdoor Sangh, Park Road, Silchar.	
8	Shri Mohan Lal Jallan PO-Golaghat-785621, Assam	<b>Employer's Representative</b>  <b>(Additional members under Proviso to Para 4(1) of the Scheme).</b>
9	Shri Somesh Biswas B.M.S. Park Road, Silchar-788001, Assam	<b>Employees' Representative</b>  <b>(Additional members under Proviso to Para 4(1) of the Scheme).</b>
10	Shri S.S.Kulkarni, Keshavdam, Kabi Road, Balton Bazaar, Guwahati - 781008, Assam	
11	Shri Bishnu Hazarika, Subansiri Goalia Bank, Kamalabari Road, Distt. North Lakhimpur, Assam	

The Regional Provident Fund Commissioner, In-charge of North East Region shall be the Secretary of the Regional Committee.

The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

This will come into force with immediate effect.

  
**(AJAI SINGH)**  
**CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER**


Dated

C.P.F.C. No. 1(4)2086/KR/TN/WB/03 whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

Sl. No.	Code No.	Name of Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1	KR/16671	M/s. Vital Cleaning Company	15.04.2002	15.04.2002
2	KR/KK/17663	M/s. Herbindus NIDA	19.10.2001	19.10.2001
3	KR/KK/17748	M/s. Ansarul Islam Charitable Trust	30.06.2003	30.06.2003
4	KR/17764	M/s. Vaisakh Hospital	01.05.2003	10.04.2003
5	KR/KC/19339	M/s. National Aluminum Co.	01.04.2000	01.04.2000
6	PC/1245	M/s. Pondy Agro-chemicals Pvt. Ltd.	01.01.2003	01.01.2003
7	PC/1251	M/s. S.G. Polymer	21.02.2003	21.02.2003
8	TN/SLM/47432	M/s. Crescent Matriculation School	07.04.2003	07.04.2003
9	TN/50008	M/s. C.M. Software Technologies	29.06.2002	29.06.2002
10	TN/50114	M/s. Metemix (Sourcing) Pvt. Ltd.	11.10.2002	11.10.2002
11	TN/56082	M/s. The Niligri Reliance Security Services.	13.02.2002	13.02.2002
12	TN/50280	M/s. Thermal Spares and services	15.03.2003	15.03.2003
13	TN/50385	M/s. L.M.T. Fette (India) Pvt. Ltd.	06.06.2003	06.06.2003
14	WB/30773	M/s. Sanjay Agarwal	01.04.2002	01.04.2002
15	WB/30908	M/s. Santosh Das	01.01.2003	01.01.2003
16	WB/30935	M/s. T.S. Enterprise	01.03.2003	01.03.2003
17	WB/30950	M/s. B.D. Agencies	01.03.2003	01.03.2003
18	WB/30968	M/s. Triveni Enterprises	07.04.2003	07.04.2003
19	WB/30969	M/s. Rajkumar Sharma	04.04.2003	04.04.2003
20	WB/30970	M/s. Kanchan Jangha Construction and Co.	01.04.2003	01.04.2003
21	WB/30985	M/s. Evergreen Enterprises	16.04.2003	16.04.2003
22	WB/31005	M/s. Chandra Bahadur Tamang	12.05.2003	12.05.2003
23	WB/31012	M/s. Bijay Kumar Thapa	07.05.2003	07.05.2003
24	WB/31025	M/s. Yarosha Construction	02.06.2003	02.06.2003
25	WB/31028	M/s. Mahakal Baba Enterprises	06.06.2003	06.06.2003
26	WB/31034	M/s. Rabindra Construction	01.06.2003	01.06.2003
27	WB/31038	M/s. Sancha Maya Tamang	01.06.2003	01.06.2003
28	WB/30993	M/s. Ranjit Construction	16.04.2003	16.04.2003
29	WB/30967	M/s. Friends Enterprises	07.04.2003	07.04.2003
30	WB/30821	M/s. Vinay Construction	02.05.2002	02.05.2002
31	WB/31004	M/s. Buddha Lama	12.05.2003	12.05.2003

32	WB/31029	M/s. Debalaya Enterprises	02.06.2003	02.06.2003
33	WB/31033	M/s. Bajarng Lal Agarwal	01.06.2003	01.06.2003

Now, therefore, in exercise of the powers Conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.



(S.R. Joshi)

Regional Provident Fund Commissioner-I(C)

## भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110058, दिनांक 15 नवम्बर 2002

सं. 20-5/2001-के. पं.--जबकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव किया है जिसमें उन व्यक्तियों का नाम सम्मिलित है जो हरियाणा राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली एतद् निदेश देता है कि भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर का प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में होगा।

टिप्पणी:--भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन अप्रैल 1991 से मार्च 1994 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (हरियाणा) का संकलन करने में प्रत्येक सावधानी बरती गई है। और उसमें यदि कोई छूट/सुधार अपेक्षित हो तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61--65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए।

प्रेमराज शर्मा  
रजिस्ट्रार

## भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

हरियाणा

भाग-I-आयुर्वेद

के. पं. सं.	नाम एवं पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन सं. एवं पंजीयन तिथि	पता
1	2	3	4	5
72153	आभा परूठी जगदीश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19555 26.7.93	पी.टी. कालेज दिल्ली गेट, रोहतक।
72154	अजीत सिंह सूरजपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1989	19289 20.5.92	1108/8, सदर बाजार, करनाल।
72155	अजीत प्रकाश जगन नाथ	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19098 2.4.91	ग्राम एवं पो. आ. रामगढ़, पंचकूला।
72156	अजीत सिंह धर्मपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19507 13.5.93	ग्राम लुखी, रेवाड़ी।
72157	आकाश गोयल विजय गोयल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19170 9.8.91	वार्ड नं. 4, सीरी करणपुर, गंगा नगर।
72158	अक्षय कुमार देवकी नन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19613 9.12.93	नजदीक टाउन हाल, जीन्द।
72159	अलका रानी हरिश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19432 10.2.93	31, इन्दर नगर, अम्बाला सिटी।

1	2	3	4	5
72160	अलका शर्मा सुनील कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19145 25.6.91	1421-22, सिगनीगरार, अम्बाला केन्ट।
72161	अमर निधि सन्तोष कुमार	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चण्डीगढ़ 1993	19598 29.10.93	551/8-बी, चण्डीगढ़।
72162	अमरजीत अहूजा करम नारायण	आयुर्वेद रत्न हि.सा.स., प्रयाग 1967	19148 27.6.91	रूप नगर, हांसी, हिसार।
72163	अमिताभ सहगल मनमोहन सहगल	बी.ए.एम.एस. पंजाबी वि.वि., पटियाला 1990	19106 4.4.91	बाई पास रोड, थानेसर, कुरुक्षेत्र।
72164	आनन्द प्रकाश जगदीश प्रसाद	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक। 1991	19377 16.10.92	717/20, लाल चन्द कालोनी, रोहतक।
72165	अनन्त राम दौलत राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19577 24.8.93	हनुमान गली, जीन्द।
72166	अनिल चुटनी युधिष्ठिर लाल	बी.ए.एम.एस. पंजाब रा.आ. एवं यू.चि.प.संकाय, चण्डीगढ़ 1988	19615 19.12.93	गांधी आश्रम, शिमला।
72167	अनिल गुप्ता चन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19417 7.1.93	सिंगल फास्टनर्स, लिंक रोड, ओल्ड फरीदाबाद।
72168	अनिल कुमार श्री चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19926 22.11.91	ग्राम एवं पो.आ. तिगांव, फरीदाबाद।
72169	अनिल कुमार हंस राज	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19526 31.5.96	10, सेक्टर 6, बहादुरगढ़, रोहतक।
72170	अनिल सचदेव मूल चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19284 7.5.92	3/52-ए, शिवाजी नगर, गुडगांव।
72171	अनीता गुप्ता अशोक कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19404 22.12.92	मंगल क्लीनिक, अनाज मंडी पन्डीर कैथल।
72172	अनीता गुप्ता जगदीश राज	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19538 15.6.93	म. नं. 348/11, पंचकूला।
72173	अनीता नरुला दवेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19670 10.2.94	ओल्ड पावर हाउस, नारायणगढ़।

1	2	3	4	5
72174	अनीता विकास विकास भटेजा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19331 10.8.92	12, क्रास रोड, अम्बाला कैन्ट।
72175	अंजना बत्रा एन. एल. बत्रा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19680 8.3.94	सी-175, चावला कालोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद।
72176	अंजनली खुराना जे. सी. खुराना	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19380 10.10.92	3जी/आईबी, राम नगर, अम्बाला सिटी।
72177	अंजू बाला प्रकाश चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19113 9.4.91	म. नं. 362/9, लक्ष्मण कालोनी, थानेसर, कुरुक्षेत्र।
72178	अंजू बाला प्रदीप अरोड़ा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19596 24.10.93	16, न्यू चार चमन करनाल।
72179	अंजू बिन्दा प्रमोद बिन्दा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19264 5.2.92	15.-आर, माडल टाउन, रोहतक।
72180	अंजू गुलेरिया जनम सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19640 6.1.94	44-ए, गोल्डन पार्क, अम्बाला कैन्ट।
72181	अंजू परूठी मनीष परूठी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19650 11.1.94	म्यूनिसिपल कालोनी, सोनीपत।
72182	अंजू शर्मा रघबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19581 26.8.93	229, विकास नगर, भिवानी।
72183	अंशु गांधी चन्द्र मोहन	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19504 10.5.93	196, माडल टाउन, अम्बाला सिटी।
72184	अनु कपूर रत्न लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19188 26.8.91	ग्राम एवं पो.आ. बिलासपुर, वाइ नगर।
72185	अनूप कुमार कैलाश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19310 8.7.92	वेटेनरी अस्पताल के सामने, साम्पला, रोहतक।
72186	अनुपमा महाजन के. एल. महाजन	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19568 13.8.93	मम. नं. 1340-41, यमुना गली, यमुना नगर।
72187	अनुराधा धर्मेन्द्र	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19679 3.3.94	712/16, पंचकूला।

1	2	3	4	5
72188	अपर्णा वीयाद यशपाल वीयाद	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19421 10.2.93	203, विवेक विहार, अम्बाला सिटी।
72189	अर्चना सैनी रूप सिंह सैनी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19458 16.3.93	413/12, अशोका गार्डन कालोनी, कैथल।
72190	अर्चना नय्यर राजीव नय्यर	बी.ए.एम.एस. गु.दे.वि.वि., अमृतसर 1990	19135 30.5.91	3231/27-डी, चण्डीगढ़।
72191	अरुण कुमार अमृत लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19203 17.9.91	नजदीक ओल्ड एक्सचेंज, लदवा, कुरुक्षेत्र।
72192	अरविन्द कुमार देव दत्त	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19552 19.7.93	ग्राम एवं पो.आ. अलाहर, यमुना नगर।
72193	अरविन्द कुमार शर्मा श्याम लाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19143 25.6.91	रेलवे रोड, कल्यात, कैथल।
72194	अरविन्द पाठक कीमती लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19335 12.8.92	230/5, गांधी नगर, जीन्द।
72195	अरविन्दर कौर अमरजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19446 5.3.93	257/2, बस्ती सीकन, जालन्धर सिटी।
72196	अरविन्दर सिंह सुरजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19406 24.12.92	133-डब्ल्यू, माडल टाउन, हिसार।
72197	आशा रानी गुलशन कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1985	19614 9.12.93	ग्राम एवं पो.आ. समालखा, पानीपत।
72198	आशा रानी ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19624 20.12.93	प्रकाश क्लीनिक, जाखल मंडी, फतेहाबाद।
72199	आशा वासन सन्दीप वासन	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19649 11.1.94	176, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, रोहतक।
72200	अशोक गिरधर बहादुर चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19559 4.8.93	ग्राम पबनवा, कैथल।
72201	अशोक कुमार हरी देव	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19131 23.5.91	ग्राम एवं पो.आ. झांसा के.के. आर।



1	2	3	4	5
72202	अशोक यादव राम कुमार यादव	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19413 7.1.93	म. नं. 11, फ्रैण्ड्स कालोनी, हिसार।
72203	अश्वनी कुमार दविन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19329 5.8.92	1/164, राम कृष्ण कालोनी, राम बाग रोड, अम्बाला कैन्ट।
72204	अश्वनी कुमार समय सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19132 23.5.91	म. नं. एच/1670, शिव कालोनी, करनाल।
72205	अश्वनी कुमार तरसेम लाल	बी.ए.एम.एस. गु.दे.वि.वि., अमृतसर 1986	19281 30.3.92	415, सैक्टर-9, फरीदाबाद।
72206	अश्वनी कुमार योगेन्द्र पाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19583 7.9.93	462 न्यू प्रेम नगर, करनाल।
72207	अश्वातामा पृथ्वी दत्त	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19502 7.9.93	ग्राम दहा, पो.आ. मधुबन, केएनएल।
72208	बहादुर सिंह गुरनाम सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1992	19462 29.3.93	ग्राम सैदपुर, यमुना नगर।
72209	बलबीर सिंह मंगतू राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19285 8.5.92	1208/18, सनैयन मौहल्ला, हिसार।
72210	बलदेव प्रकाश जसवन्त सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19152 3.7.91	म. नं. 115/6, इन्दिरा कालोनी, साधू मंडी, कुरुक्षेत्र।
72211	बलदेव राज जसवन्त सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19334 12.8.92	ग्राम एवं पो.आ. गजलाना, कुरुक्षेत्र।
72212	बलजीत सिंह हुकम चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19485 26.4.93	ग्राम एवं पो.आ. भमभेवा, झज्जर।
72213	भागीरथ शर्मा रघबर दयाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19197 9.9.91	मोहल्ला कानूगौव बावल, रेवाड़ी।
72214	भरत भूषण कुमार हुकम चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19634 22.12.93	म. नं. 1236, सैक्टर नं. 7, फरीदाबाद।
72215	भारती बुट्टी राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19447 19.4.93	ग्राम एवं पो.आ. असन्ध, करनाल।

1	2	3	4	5
72216	भारती अहलावत राजिन्दर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19366 17.9.92	ग्राम एवं पो.आ. लिजवाना खुर्द, जीन्द।
72217	भूपेन्द्र पाल अमर नाथ	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19154 3.7.91	ग्राम एवं पो.आ. उमरी, कुरुक्षेत्र।
72218	भूपिन्द्र अलियास मीता वर्मा विजय वर्मा	बी.ए.एम.एस. पंजाबी वि.वि., पटियाला 1991	19243 1.1.92	चचरौली, यमुना नगर।
72219	भूपिन्द्र बुधन रतन चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19620 20.12.93	कोट-182, फैंज बाजार, सोनीपत।
72220	भूपिन्द्र सिंह नजर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19655 20.1.94	जीवन नगर, सिरसा।
72221	भूषण कुमार शाम सुन्दर लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19338 4.8.93	मौहल्ला चौक, मोहिन्द गढ़।
72222	बिजेन्द्र सिंह फतेह सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19155 8.7.91	55, सोनीपत रोड़, रोहतक।
72223	बिमल कुमार राम नाथ	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19341 24.8.92	253/8, राजिन्दर नगर, कुरुक्षेत्र।
72224	बिमला कुमारी धर्मवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19138 4.6.92	हरियाणा मेडिकोस, इन्द्री रोड, लडवा, के.के.आर.।
72225	बि. सु. गोयल एस.के. गोयल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19642 11.1.94	9044/5, नया बांस, अम्बाला सीटी।
72226	ब्रज बाला विनोद गुप्ता	बी.ए.एम.एस. पंजाबी वि.वि., पटियाला 1992	19654 18.1.94	ग्राम एवं पो.आ. चीका, कुरुक्षेत्र।
72227	बुपेश कुमार सत्यवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19150 2.7.91	ग्राम एवं पो.आ. मोखरा, रोहतक। सीटी।
72228	चन्द्र मणि हीरा नन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., रोहतक 1987	19603 1.12.93	21, इन्दिरा कालोनी, करनाल। सीटी।
72229	चन्द्र प्रकाश करण सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19217 10.10.91	ग्राम एवं पो.आ. तियेली, रोहतक।

1	2	3	4	5
72230	चन्देश पाल जगदीश राय	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19315 13.7.92	रंजीत गली, यमुना नगर।
72231	चान्दी प्रसाद राम दत्त	आयुर्वेद विशारद नि.भा.आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1942	19612 9.12.93	9/44, कीर्ती नगर, दिल्ली।
72232	देवन्द्र कुमार गिरधारी लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19473 8.4.93	92/12, राम नगर, करनाल।
72233	देवन्द्र कुमार राम लुभाया	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19657 20.1.94	नजदीक ओल्ड पावर हाऊस, नारायणगढ़ अम्बाला।
72234	देवन्द्र पाल अमर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19479 19.4.93	शोप नं. 76, सैनी समाज भवन, कुरुक्षेत्र।
72235	देवन्द्र पाल हरबंश लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19576 24.8.93	261/15, भाटिया नगर, तोहाना, फतेहाबाद।
72236	देवन्द्र सिंह प्रेमराज सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19546 30.6.93	22, नई अनाज मंडी, भिवानी।
72237	देवन्द्र सिंह करण सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19597 29.10.93	ग्राम एवं पो.आ. गिरिवर, झज्जर।
72238	दया कुमारी गुलजारी लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19277 23.3.92	305, बरनाला रोड, सिरसा।
72239	दीपका मुकेश कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19096 2.4.91	560, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, सिरसा रोड, हिमसार।
72240	धन सिंह प्रताप सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19236 4.12.91	278/27, तिलक नगर, रोहतक।
72241	धर्मपाल बलदेव दत्त	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19586 14.9.93	ग्राम एवं पो.आ. बरौता, के.एन.एल.।
72242	धर्मपाल सिंह मंगत सिंह	आयुर्वेदाचार्य नि.भा.आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1981	19496 6.5.93	324/5-ए, पीपली, को.यू.के.।
72243	धर्मबीर राम मेहर	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19308 8.7.92	ग्राम खेरी, दौलतपुर, भिवानी।

1	2	3	4	5
72244	धर्मवीर सिंह भीम सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1988	19282 3.4.92	ग्राम एवं पो.आ. कासन्दा, सोनीपत।
72245	धर्मेन्द्र पी.सी. राजपूत	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19231 25.11.91	म.नं. 712/16, पंचकूला।
72246	धर्मेन्द्र दिलबाग सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19390 5.11.92	160/14, चुनीपुरा, रोहतक।
72247	दिनेश कुमार दुली चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19097 2.4.91	मोहल्ला बड़ा तालाब, रेवाड़ी।
72248	दिनेश कुमार रामजी दास	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19169 30.7.91	ग्राम एवं पो.आ. लखन माजरा, रोहतक।
72249	दिनेश पंवार जिले सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19194 29.8.91	870/301, श्री नगर कालोनी, रोहतक।
72250	दिनेश प्रकाश धर्मराज	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19575 24.8.93	लाल सड़क, हंसी, हिसार।
72251	दिव्य अग्रवाल अमृत लाल अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19682 17.3.94	कोठी नं. 8, सामने आई.टी.आई. कैनाल कालोनी, रोहतक।
72252	गमन जीन जोगिन्दर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19214 9.10.91	688, गली नं. 7, प्रेम नगर, यमुना नगर।
72253	गंगा राम निवास	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19491 4.5.93	79-80, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, हिसार।
72254	गीता गोयल कृष्ण चन्द्र	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चण्डीगढ़ 1993	19601 23.11.93	1229/7, पंचकूला।
72255	गीता रानी तेज भान	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19532 4.6.93	11बी/48, शान्ति नगर, हिसार।
72256	गीता सूद बलराज सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19356 4.9.92	म.नं. 2411/38-सी, चण्डीगढ़।
72257	गीतु वर्मा कश्मीरी लाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19347 25.8.92	255/7, नई कालोनी, कुरुक्षेत्र।

1	2	3	4	5
72258	गुलशन कुमार नन्द लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19435 10.2.93	म.नं. 20/3, रत्तिया रोड, फतेहाबाद।
72259	गुलशन नारंग लक्ष्मी दास	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19314 8.7.92	हमिदा गढ़ी रोड, यमुना नगर।
72260	गुरबचन सिंह मारू सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19237 23.12.91	ग्राम एवं पो.आ. रत्तनेरी, अम्बाला।
72261	गुरपाल सिंह गुरदयाल सिंह	आयुर्वेदाचार्य नि.भा.आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1982	19497 6.5.93	503, रंजीत गली, यमुना नगर।
72262	हरदीप सिंह अमरीक सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19673 22.2.94	म.नं. 816, गली नं. 5, प्रेम नगर, यमुना नगर।
72263	हरी कृष्ण श्री दत्त	बी.ए.एम.एस. कानपुर वि.वि., कानपुर 1989	19371 22.9.92	गौतम अस्पताल, नजदीक बस स्टैण्ड, पानीपत।
72264	हरी ओम जिले सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19333 12.8.92	ग्राम एवं पो.आ. मुंडलाना, सोनीपत।
72265	हरी ओम राम मूर्ति गुप्ता	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19379 14.10.92	3945, मिस्सर पुरा स्ट्रीट, जगरोन, लुधियाना।
72266	हरजीत कौर गुरतेज सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19149 28.6.91	2/23, रिफाईनरी यजनशीप, जवाहर नगर, बरौदा, महाराष्ट्र।
72267	हरमिन्दर सिंह जयमाल सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19115 11.4.91	नजदीक पो.आ. बिल्लासपुर, यमुना नगर।
72268	हरपाल सिंह हरी किशन	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19387 29.10.92	232/5, सन्त नगर, जीन्द।
72269	हर्ष लता गंगाधर पाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19360 4.8.93	1978/10, रामपुरा मोहल्ला, हिसार।
72270	हेमराज शिव प्रसाद	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19430 10.2.93	ग्राम एवं पो.आ. जठलाना, यमुना नगर।
72271	इन्दिरा शर्मा जय भगवान	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19442 3.3.93	42, कुंजपुरा रोड, करनाल।

1	2	3	4	5
72272	इन्दु बाला माखन लाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19295 1.6.92	नैन बाजार, थानेसर के.के.आर.।
72273	इन्दु बाला जोगी राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19565 5.8.93	सामने पुलिस स्टेशन, खरखोधा, सोनीपत।
72274	जगदीश महेन्द्र राम प्यारा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19427 10.2.93	967, विश्व करम कालोनी, यमुना नगर।
72275	जगेश्वर कुमार चन्द्रभान	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19531 10.2.93	111/ई, पोलट्टी एरिया, निलोखेरी के.एन.एल.।
72276	जगमोहन देवदत्त शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19168 30.7.91	966, म.नं. 4, फरीदाबाद।
72277	जयपाल सिंह काका राम	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19382 19.10.92	ग्राम एवं पो.आ. राजौन्द, कैथल।
72278	जयबीर सिंह देवी राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19339 18.8.92	ग्राम एवं पो.आ. सिसर खास, रोहतक।
72279	जसजीत कौर प्रद्युन सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19645 11.1.94	552/12, थानेसर सीटी, के.के.आर.।
72280	जसविन्द्र सैनी जयपाल सैनी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19429 10.2.93	1231/5, ज्योति नगर, कुरुक्षेत्र।
72281	जतिन्द्र जैन एन. पी. जैन	बी.ए.एम.एस. गु.दे.वि.वि., अमृतसर 1990	19157 8.7.91	म.नं. 9/14, पंचकूला।
72282	जतिन्द्र प्रीत कौर पी. एस. अहुजा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19675 1.3.94	178/2, सेक्टर 48/ए, चण्डीगढ़।
72283	जियानन्द कुमार तेलू राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19525 31.5.93	जैन अस्पताल, नजदीक ओल्ड बस स्टैण्ड, जीन्द।
72284	जितेन्द्र वत्स गंगा सरूप	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19213 3.10.91	ग्राम एवं पो.आ. दोभ, रोहतक।
72285	जीवन कुमार फूल चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19626 20.12.93	ग्राम सुखदास पुर, यमुना नगर।

1	2	3	4	5
72286	जोगेश लाल जय लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19392 6.11.92	लाजपत नगर, फतेहाबाद।
72287	कमल अहुजा ज्ञान प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19451 11.3.93	105-डब्ल्यू. माडल टाउन, हिसार।
72288	कमल कुमार रोशन लाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19260 27.1.92	ग्राम एवं पो.आ. नानेओला, अम्बाला।
72289	कमल पपनेजा सम्पूर्णा सिंह पपनेजा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19518 20.5.93	65, विजय पार्क, प्रताप नगर, गुडगाँव।
72290	कमल प्रसाद बलदेव कृष्ण	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19511 18.5.93	20-बी, कैमल कालोनी, तोहाना, फतेहाबाद।
72291	कमलेश कुमारी पृथी सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19361 10.9.92	म.नं. 187/2, रामबीर सिंह कालोनी, जीन्द।
72292	कमल कुमारी लाला राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19490 4.5.93	देव मैमोरियल नर्सिंग होम, इन्द्री, करनाल।
72293	कमलेश रानी सुरजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19163 24.7.91	134/2, रणबीर कालोनी, जीन्द।
72294	कंचन गोयल राजेन्द्र प्रसाद	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19265 19.2.92	बिरला मन्दिर रोड, थानेसर, के.के.आर.।
72295	कविन्द्र कुमार शर्मा शाम लाल	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चण्डीगढ़ 1992	19676 1.3.94	180/18, पंचकूला।
72296	कविता वर्मा राजवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19322 14.7.92	14, प्रोफेसर कालोनी, सोनीपत।
72297	केवल कृष्ण नसीब चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19216 10.10.91	राजस्थान मेडिकल स्टोर, रत्तिया, फतेहाबाद।
72298	किरण बाला सूरज भान	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19570 16.8.93	212, लाजपत नगर, हिसार।
72299	किरण गुलाटी देवेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19670 9.2.94	नजदीक ओल्ड पावर हाउस, नारायणगढ़, अम्बाला।

1	2	3	4	5
72300	किरण सिन्धु सुरेन्द्र सिन्धु	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19487 26.4.93	बी-VI-1508, आई.टी.आई., मार्डन कालोनी, यमुना नगर।
72301	कृष्ण कुमार शाम सुन्दर	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19137 4.6.91	ग्राम एवं पो.आ. नागथला, हिसार।
72302	कृष्ण कुमार भाग चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19215 10.10.91	369, गली नं. 9, जवाहर नगर, हिसार।
72303	कृष्ण कुमार नन्द लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19553 19.7.93	ग्राम एवं पो.आ. नेहला, हिसार।
72304	कृष्णा देवी राज कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19257 22.1.92	पिल्लूखेरा मंडी, जिन्द।
72305	कृष्णा कुमारी अश्वनी कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1987	19280 30.3.92	म.न. 415/9, फरीदाबाद।
72306	कुल भूषण ऋषि पाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19376 15.10.92	ग्राम एवं पो.आ. तंडवाल, अम्बाला।
72307	कुलदीप चमन लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19602 23.11.93	दुर्गा गार्डन, छोटे लाईन पुली नं. 2, जगाधरी।
72308	कुलदीप सिंह तेजा सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19466 29.3.93	ग्राम एवं पो.आ. धाबी टेक सिंह, तहसील नरवाना, जीन्द।
72309	कुसुम लता विरेंद्र कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19156 8.7.91	देवता अस्पताल मंडी, कलावाली, सिरसा।
72310	कुसुम लता वासु देव	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19208 19.9.91	विकास नर्सिंग होम, लोहारू, भिवानी।
72311	कुसुम लता सुरेश कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19506 13.5.93	1025, सनियान मौहल्ला, बाबा मणिराम चौक, हिसार।
72312	लाज गुप्ता मोहन लाल सिंगला	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19459 18.3.93	491-एल, माडल टाउन, पानीपत।
72313	लखी राम	बी.ए.एम.एस. पुरन चन्द 1992	19616 कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र	ग्राम एवं पो.आ. बालापुर, 13.12.93 अम्बाला।



1	2	3	4	5
72314	लक्ष्मी नारायण राम चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19633 22.12.93	348/5, शास्त्री नगर, तोहाना, एफ. बाद।
72315	ललिता गिरधर राकेश गिरधर	बी.ए.एम.एस. पंजाब रा.आ.एवं यू.चि.प.संकाय, चण्डीगढ़ 1989	19134 27.5.91	बीघर रोड, फतेहाबाद।
72316	लक्ष्मी अरोड़ा ताकुर दास	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19161 22.7.91	62/10, माता गेट, रोहतक।
72317	लक्ष्मी कान्त शर्मा रवि दत्त शर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19411 7.1.93	के-10, विष्णु कालोनी, कुरुक्षेत्र।
72318	लोकेश्वर दत्त नरेन्द्र देव	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19368 17.9.92	वधवा नर्सिंग होम, मंडी डबवाली, सिरसा।
72319	मदन लाल मंथा राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19128 9.5.91	876/13, यू.ई. करनाल।
72320	मधू चोपड़ा देवेन्द्र चोपड़ा	बी.ए.एम.एस. गु.दे.वि.वि., अमृतसर 1990	19299 15.6.92	म.न. 485/10, पंचकूला।
72321	मधूकर खेरा एच. एल. खेरा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1988	19111 8.4.91	499/3, पानीपत।
72322	मधू सतिषा दीनदयाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19101 4.4.91	गाँधी नगर, जीन्द।
72323	महावीर गुप्ता दौलत राम	बी.ए.एम.एस. गु.दे.वि.वि., अमृतसर 1985	19118 25.4.91	संजय कालोनी, सुगर मिल, सोनीपत।
72324	महावीर कौशिक राजकुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19428 10.3.93	1231/5, ज्योति नगर, कुरुक्षेत्र।
72325	महेन्द्र सिंह इन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1989	19152 3.7.91	1032/5, दयालपुर बस्ती, कुरुक्षेत्र।
72326	महेश कुमार एम. एल. अदलखा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19249 7.1.92	संजय मैमोरियल नगर, फरीदाबाद।
72327	महेश शर्मा सत्य प्रकाश	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19353 3.9.92	मोहल्ला पाडियान सधौरा, वाई. नगर।

1	2	3	4	5
72328	मंजू बाला सुभाष चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19551 15.7.93	403, जय शंकर अर्पाटमेंट, अर्पाटमेंट विहार, उलहास नगर, बम्बई।
72329	मंजू देवी जोगिन्दर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19261 29.1.92	गाँधी नगर, गन्नौर, एस.पी.टी.।
72330	मंजू गर्ग संजीव गर्ग	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19253 15.1.92	ग्राम एवं पो.आ. बिलासपुर, वाई. नगर।
72331	मंजू शर्मा पी. के. शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19191 26.8.91	कैनल कालोनी, तोहाना, एफ. बाद।
72332	मंजू शर्मा सुभाष धारीवाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19664 9.2.94	म. नं. 417, पटियाला चौक, नरवाना जीन्द।
72333	मंजू शर्मा गोपाल कृष्ण	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19436 10.2.93	1793, बुघा बदन स्ट्रीट, पटियाला।
72334	मंजू सोधी प्रीतम सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19557 27.7.93	9442/6, कलाल माजरी, अम्बाला सिटी।
72335	मंजू वर्मा सुभाष चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19444 5.3.93	ग्राम बैजलपुर, एफ.बाद।
72336	मनोज कुमार जगत सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19410 7.1.93	कमरा नं. 13, गुज्जर धर्मशाला, कुरुक्षेत्र।
72337	मनोज कुमार ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19632 22.12.93	1414/13, करनाल।
72338	मीना दलाल चरण सिंह दलाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19408 29.12.92	बेरी गेट, झज्जर।
72339	मीना कुमारी पवन कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19644 11.1.94	144/12, नजदीक शेखचिली मकबरा, अम्बाला सिटी।
72340	मीना रानी टेक चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19116 22.4.91	135, नजदीक सन्त पुरा गुरुद्वारा, संगरूर।
72341	मीना रानी हरनाम दास	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19467 7.4.93	154, राम नगर, पानीपत।

1	2	3	4	5
72342	मीनाक्षी देश बन्धु	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19540 15.6.93	ग्राम एवं पो. आ. रामपुरा फुल, बीटीडी।
72343	मीनाक्षी सैनी जय सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19340 19.8.92	जय मेडीकल एवं एक्सरे क्लीनिक, माडल टउन, यमुना नगर।
72344	मीनाक्षी शर्मा कृष्ण चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19527 31.5.93	सी-2-1451, राजपूताना स्ट्रीट, जगाधरी, वाई. नगर।
72345	मीनू कटारिया पवन कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1987	19144 25.6.91	545, अर्बन एस्टेट, अम्बाला सिटी।
72346	मीनू शर्मा विरेंद्र कुमार वत्स	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र, 1993	19674 1.3.94	20, इन्दिरा कालोनी, करनाल।
72347	मीरा मन मोहन	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19173 5.8.91	तहसील रोड, फिरोजपुर, झिरका, गुड़।
72348	मोहन लाल ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19120 29.4.91	मोहल्ला जोशीयन, कुरुक्षेत्र।
72349	मोहन लाल ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19350 25.8.92	नजदीक आर्य समाज चौक, पटियाला।
72350	मोहिन्द्र वत्स अमर नाथ	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र, 1990	19182 20.8.91	ग्राम एवं पो. आ. भागल, के. के. आर.।
72351	मोनोच कुमार एम. जी. शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19184 20.8.91	आसम चाय स्टोर, डी. सी. रोड, अम्बाला सिटी।
72352	मूल शंकर रामभज शर्मा रामभज	बी.ए.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे	19363 16.9.92	म. नं. 1114/11, पंचकूला।
1991				
72353	मुदुल श्रीवास्तव के. के. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र, 1991	19373 29.9.92	140-1, विजय खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
72354	मुकेश कुमार खान चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19199 12.9.91	464/5, सराफा बाजार, कैथल।
72355	मुकेश शर्मा त्रिलोक चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक	19271 9.3.92	698-बी, खण्डसा रोड, गुड़गांव।
1988				

1	2	3	4	5
72356	नम्रता शर्मा देवेन्द्र शर्मा	बी.ए.एम.एस. गु.दे.वि.वि., अमृतसर 1992	19567 6.8.93	राम नगर, करनाल।
72357	नरेन्द्र कुमार सुरेश चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19165 24.7.91	28, न्यू कृष्णा नगर, दिल्ली।
72358	नरेन्द्र कुमार राम गोपाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19316 13.7.92	मैन बाजार, मेहम आर.टी. के.।
72359	नरेन्द्र कुमार केहर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991,	19585 14.9.83	ग्राम मन्देबरी, बाई. नगर।
72360	नरेन्द्र मलिक रणधीर सिंह 1991	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19332 10.8.92	आई.टी.आई. बाई पास, करनाल।
72361	नरेश कुमार सोहन लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19099 2.4.91	होल सेल टी मर्चेन्ट, सुनम, पंजाब।
72362	नरेश कुमार रामेश्वर दत्त	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19561 4.8.93	636/3, आदर्श कालोनी, जीन्द।
72363	नरहरी विष्णु राजेन्द्र प्रसाद	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19133 23.5.91	ब्रह्मन्वास, रोहतक।
72364	नरिन्द्र कौर जगतार सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19125 7.5.91	म. नं. 246/2, कुरुक्षेत्र रोड, पेहोवा, कुरुक्षेत्र।
72365	नरोत्तमा गर्ग महावीर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19529 31.5.93	बसई रोड, चौधरी धर्म कांय, गुडगांव।
72366	नवदीप शर्मा एस. एस. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19542 16.6.93	म. नं. 115/14, करनाल।
72367	नीलम अरोड़ा राजेश कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19123 7.5.91	763/13, अर्बन एस्टेट, करनाल।
72368	नीलम देवी मुलखराज	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र, 1992	19522 31.5.93	धर्मल कालोनी, पानीपत।
72369	नीलम कुमारी जय प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19377 12.8.92	न्यू ग्रेन मार्किट, लडवा, के. के. आर.।

1	2	3	4	5
72370	नीलम कुमारी जोगी राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19573 19.8.93	डब्ल्यू. नं. 5, पक्का बाग, खरखोदा, सोनीपत ।
72371 नगर।	नीलम रानी	बी.ए.एम.एस. रमेश शर्मा 1990	19190 म.द.वि.वि., रोहतक 26.8.91	529, कृष्णा कालोनी, यमुना
72372	नीलम रानी देवी दयाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र, 1991	19539 16.6.93	ग्राम एवं पो.आ. पीपली, कुरुक्षेत्र।
72373	नीलम शर्मा सत्य पाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19146 25.6.91	ग्राम एवं पो. आ. खेरी कान्ती, जिला मोहिन्द्रगढ़ ।
72374	नीलुर चन्दोक योगेश चन्दोक	बी.ए.एम.एस. पंजाबी वि. वि., पटियाला 1990	19311 8.7.92	लाहोरियन चौक, हिसार ।
72375	नीना बंसल नवीन बंसल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19251 14.1.92	रेलवे रोड, कल्पात, जीन्द ।
72376	नीरज कुमार माखन लाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि. कुरुक्षेत्र 1991	19294 1.6.92	मोहल्ला संधियान, थानेसर, के. के. आर।
72377	नीरू जैना राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19296 1.6.92	31-ए/एन. शालीमार बाग, न्यू दिल्ली ।
72378	नीती जे.एन. मक्कानी	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19627 20.12.93	म.नं. 369, मोहल्ला जैल ग्राउण्ड, सिरसा।
72379	नीरजा शर्मा ब्रह्म सरूप	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि. कुरुक्षेत्र 1989	19245 3.1.92	971/5, ज्योति नगर, कुरुक्षेत्र।
72380	निर्मल देवी तेह चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19494 5.5.93	ग्राम एवं पो.आ. नदगढ़ जीन्द।
72381	निर्मला हुडा अशोक कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19221 28.10.91	ग्राम बरोली, सोनीपत।
72382	निशी खुराना नरेन्द्र खुराना	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19202 13.9.91	573/13, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र।
72383	निशी शर्मा त्रिलोक चन्द शर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि. कुरुक्षेत्र 1993	19646 11.1.94	म.नं. सी-100, विश्वविद्यालय कैम्पस कुरुक्षेत्र।

1	2	3	4	5
72384	नीतू सिंह रणबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19519 20.5.93	ग्राम भूत माजरा, वाई नगर।
72385	निवेदिता रस्तोगी मनोज रस्तोगी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19452 11.3.93	प्रोफेसर कालोनी, कुरुक्षेत्र।
72386	ओम प्रकाश छोट्टू राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19344 24.8.92	शर्मा मेडिकल हाल, नजदीक ओल्ड बस स्टैण्ड, गोहाना, एस.पी.टी.
72387	ओम प्रकाश प्रहलाद सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19407 28.12.92	ग्राम नियामतपुर, एम. गढ़।
72388	ओमपाल संगू राम	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19476 19.4.93	बी-170, पृथ्वी नगर, फरकपुर जगाधरी वर्कशाप, वाई नगर।
72389	पंकज मलिक चमन लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19336 12.8.92	292-आर, माडल टाउन, यमुना नगर।
72390	परमजीत बेनीवाल पृथी चन्द बेनीवाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19623 20.12.93	ग्राम गोबिन्दपुरा, जिला सिरसा।
72391	प्रभाष चन्द्र भगवान सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19578 26.8.93	ग्राम एवं पो. आ. निन्दाना, रोहतक।
72392	प्रदीप कटरिया चमन लाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19630 22.12.93	2079/13, यू.ई. करनाल।
72393	प्रदीप कुमार भगवान सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19309 8.7.92	शिवाजी कालोनी, रोहतक।
72394	प्रदीप शर्मा राधे श्याम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19412 7.1.93	मोहल्ला सनैनी, हिसार।
72395	प्रमोद कुमार कश्मीरी लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19291 22.5.92	ग्राम एवं पो. आ. सीवान, कैथल।
72396	प्रमोद कुमार प्रेम चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19357 4.9.92	ग्राम एवं पो. आ.रामगढ़, पंचकूला।
72397	प्रवीन छावड़ा राम चन्द्र	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19283 27.4.92	413, आदर्श त्रर, लक्ष्मी सिनेमा, यमुना नगर।

1	2	3	4	5
72398	प्रवीन कुमार ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19647 11.1.94	1009/6, यू.ई. करनाल।
72399	परविन्दर कौर कमल राज	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19505 12.5.93	282/32-डी, चण्डीगढ़।
72400	पवन कुमार राम निवास	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19433 10.2.93	43, अप्पू नगर, फतेहाबाद।
72401	पवन कुमार नाथू राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19625 20.12.93	डीएलएफ कालोनी, रोहतक।
72402	पवन कुमार खजान सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19658 20.1.94	ग्राम एवं पो.आ. रादौर, वाई. नगर।
72403	पूनम दीप मदन गोपाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19660 24.1.94	9, सैक्टर 27-सी, चण्डीगढ़।
72404	पूनम शर्मा गणेश दत्त	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1988	19524 31.5.93	गणेश अस्पताल, इन्द्री रोड़, लडवा, के के आर।
72405	पूनम सिंगला जोगिन्दर पाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19609 1.12.93	286-आर, माडल टाउन, पानीपत।
72406	प्रतिभा प्रेम चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19483 21.4.93	981/7, मोती नगर, अम्बाला सीटी।
72407	प्रतिभा राठी वेद प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19587 18.9.93	एंची रोड, गनौर, सोनीपत।
72408	प्रतिभा ऋषि जितेन्द्र शर्मा	बी.ए.एम.एस. पंजाबी वि. वि., पटियाला 1990	19195 5.9.94	असन्ध रोड, शिवपुरी, पानीपत।
72409	प्रहलाद कुमार श्रवण कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19431 10.2.93	247/4, गुरूनानक पुरा, थानेसर, के यू के।
72410	पूनम रमेश चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19471 8.4.93	रणधीर नगर, कैथल रोड, करनाल।
72411	पूनम बुधवार जोगिन्दर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19447 10.3.93	नजदीक एफ सी आई गोदाम, सुनैरा रोड, रोहतक।

1	2	3	4	5
72412	पुनीत गोयल ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19535 4.6.93	गुप्ता अस्पताल उकलाना मंडी, एच.।
72413	पुनीता रानी नरेश जिन्दल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19404 15.12.92	ग्राम एवं पोस्ट आफिस रतिया, फतेहाबाद।
72414	पुरन चन्द लीला कृष्ण	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19434 10.2.93	ग्राम एवं पोस्ट आफिस दरियापुर एफ. बाद।
72415	पुष्प लता ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19672 14.2.94	ग्राम एवं पोस्ट आफिस खानपुर, सोनीपत।
72416	रचना नन्दवानी नन्द लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19513 19.05.93	रमेश नगर, करनाल।
72417	राधिका सपरा विकास सपरा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1989	19492 5.5.93	राम नगर, करनाल।
72418	रघुनाथ विश्वनाथ	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19158 8.7.91	ग्राम एवं पोस्ट आफिस बोह, अम्बाला।
72419	राजबाला सतीश संगवान	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19548 7.7.93	हीरा चैक, शिशु सदन चरखुई, दादरी।
72420	राज कपूर सुखी राम	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19572 18.8.93	ग्राम एवं पोस्ट आफिस कलानौर, आर टी के।
72421	राज कुमार उदय सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19256 22.1.92	पिल्लूखेरा, जीन्द।
72422	राज कुमार भगवान दास	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19317 13.7.92	शिव चौक, बन्द गेट, सिरसा।
72423	राज कुमार बुट्ट राम	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19425 10.2.93	महावीर कालोनी, लडवा, कुरुक्षेत्र।
72424	राज कुमार रूप बसन्त	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19460 18.3.93	डोगरन मोहल्ला, हिसार।
72425	राज कुमार पुरन चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19470 8.4.93	ग्राम एवं पो. आ. इस्मालीलाबाद, के के आर।



1	2	3	4	5
72426	राज कुमार हेमराज गर्ग	बी.ए.एम.एस. पंजोब रा.आ. एवं यू.चि.प. संकाय, चण्डीगढ़ 1989	19105 4.4.91	ग्राम एवं पो. आ. तारावाड़ी, करनाल।
72427	राज कुमार तुली सैन दास तुली	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19129 9.5.91	1692/13, यू.ई. करनाल।
72428	राजपाल सिंह राम सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19486 26.4.93	ग्राम लिजवाना खुर्द, जीन्द।
72429	राजपाल बहल हरी चन्द बहल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19656 20.1.94	342, हाऊसिंग बोर्ड, अम्बाला।
72430	राजन वर्मा पी. आर. वर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19419 21.1.93	म. नं. सी-VII-91, गांधी धाम, जगाधरी वाई नगर।
72431	राजबीर सिंह अभय सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19401 14.12.92	मैन बाजार, कृष्णपुरा, पानीपत।
72432	राजबीर सिंह नौबत राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19579 26.8.93	ग्राम नांगल कलीना, मोहिन्द्रगढ़।
72433	राजीव कुमार रामनाथ	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19279 30.3.92	पीछे आई.टी.आई., यमुना नगर।
72434	राजेन्द्र कुमार जय सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19122 6.5.91	नजदीक ओएस डीएवी पब्लिक स्कूल, कैथल।
72435	राजेन्द्र कुमार गुरदित्त मल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19319 13.7.92	ग्राम एवं पो. आ. कलानौर, आर टी के।
72436	राजेन्द्र कुमार बलबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19501 7.5.93	छोट बाजार, महम, आर टी के।
72437	राजेन्द्र सिंह रूप सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19307 8.7.92	ग्राम एवं पो. आ. कलाल माजरी के के आर।
72438	राजेश बाबू मंगे राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19498 6.5.93	ग्राम अजीतपुरा, पो. आ. मनहेरू, भिवानी।
72439	राजेश गुप्ता ईश्वर चन्द गुप्ता	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19424 11.2.93	1353/8, नजदीक पो.आ. राधोर, वाई. नगर।

1	2	3	4	5
72440	राजेश जैन राम कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19455 12.3.93	चान्दना गेट, कैथल।
72441	राजेश खुराना वेद प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19359 10.9.92	174/8, कृष्ण कालोनी, भिवानी।
72442	राजेश कुमार राम कृष्ण	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19318 13.7.92	असिजा अस्पताल, बन्द गेट, सिरसा।
72443	राजेश्वर दत्त नरेन्द्र देव	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19367 17.9.92	वधवा नर्सिंग होम, मंडी दाबवाली, एस आर एस।
72444	राजेश्वर सागर यू. एस. भारद्वाज	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19517 19.5.93	म. नं. 1130/28, फरीदाबाद।
72445	राजिन्द्र कुमार बोध राज	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19198 10.9.91	ग्राम एवं पो. आ. बरवाला, एच. एस. आर.।
72446	राजिन्द्र कुमार चमन लाल	बी.ए.एम.एस. पंजाबी वि.वि., पटियाला 1976	19218 4.10.91	ग्राम एवं पो. आ. पनसारा, वाई. नगर।
72447	राजीव अहुजा साधु राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19177 9.8.94	पुल बाजार-नारनौल, मोहिन्द्रगढ़।
72448	राजीव छाबड़ा मम मोहन सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19469 8.4.93	310, सदर बाजार, वकीलपुरा, करनाल।
72449	राजीव धमीजा दिलबाग राय	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19321 13.7.92	46/2, सलारा मोहल्ला, रोहतक।
72450	राजीव गांधी जगजीत कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19293 29.5.92	270, सरजनी कालोनी, यमुना नगर।
72451	राजीव ग्रोवर देवराज ग्रोवर	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19171 5.8.91	427/5, जकबपुरा, गुड़गांव।
72452	राजीव गुप्ता सन्त प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19225 11.11.91	ग्राम एवं पोस्ट आफिस पठेरी, अम्बाला।
72453	राजीव कुमार अमर नाथ	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19201 13.9.91	बी-11,304, पारा मोहल्ला, रोहतक।

1	2	3	4	5
72454	राजीव कुमार रामजी दास	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19545 17.6.93	927/6, चौक चमेली मार्किट, रोहतक।
72455	राजीव नय्यर चमन लाल	बी.ए.एम.एस. पंजाब रा. आ. एवं यू. चि. प. संकाय चण्डीगढ़ 1991	19290 22.5.93	3231/37, चण्डीगढ़।
72456	राजीव शर्मा डी. एन. शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19096 2.4.91	560, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सिरसा।
72457	रजनीश गर्ग सतपाल गर्ग	बी.ए.एम.एस. परीक्षा निकाय आयु.यू.चि.प., दिल्ली 1986	19174 5.8.91	मार्फत सोमनाथ एण्ड सन्स जनरल मर्चेन्ट्स शहजादपुर, अम्बाला।
72458	रजनीश सिंह गुरबचन सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19465 29.3.93	ग्राम बीरा बाधी, एफ. बाद।
72459	रजनी अमरनाथ	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19600 23.11.93	न्यू रेलवे रोड, गुडगांव।
72460	रजनी गुप्ता आर. के. गुप्ता	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19515 18.5.93	म. नं. 51, डब्ल्यू नं. 11, लडवा, जिला, कुरुक्षेत्र।
72461	रजनी गुप्ता प्रेम चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19619 20.12.93	30, दयाल सिंह, अम्बाला कैन्ट।
72462	राजपाल सिंह सूबे सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19298 15.6.92	ग्राम एवं पो. आ. फतेहगढ़, जींद।
72463	राकेश अग्रवाल हरी कृष्ण अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. हि.प्र.वि.वि., शिमला 1981	19212 1.10.91	ओल्ड डी.सी. रोड, सोनीपत।
72464	राकेश कत्री वेद प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19159 8.7.91	74/8, सराफा बाजार, कैथल।
72465	राकेश कुमार मेघ दत्त	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19172 5.8.91	263, नेहरू कालोनी, रोहतक।
72466	राकेश कुमार ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19239 1.1.92	ग्राम एवं पो. आ. कुल्लन, एफ. बाद।
72467	राकेश कुमार तरसेम लाल	बी.ए.एम.एस. गु.दे.वि.वि., अमृतसर 1990	19241 1.1.92	2212/9, एफ. बाद।

1	2	3	4	5
72468	राकेश कुमार कृष्ण चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19574 19.8.93	काथ मंडी, फतेहाबाद।
72469	राकेश पाण्डेय राम यतन पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19510 18.5.93	म. नं. 31, 132, के. बी. पावर कालोनी, रेवाड़ी, एच. आर. वाई.।
72470	राकेश शर्मा सुरेन्द्र दत्त	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19369 21.9.92	गायत्री मेडिकल स्टोर, मोती चौक, भिवानी।
72471	राम भगत किशोरी लाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1990	19121 6.5.91	अमरगढ़ कालोनी, गली नं. 6, कैथल।
72472	राम कुमार इन्द्रराज सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19591 22.9.93	ग्राम एवं पोस्ट आफिस कुलेरी, एच. एस. आर.।
72473	राम मेहर रामधारी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19648 11.1.94	ग्राम बराहखुर्द, जीन्द।
72474	राम मूर्ति शींगारा मल	बी.ए.एम.एस. पंजाब रा. आ. एवं यू. वि. प. संकाय, चण्डीगढ़ 1989	19103 4.4.91	116/3, पड़ोवा, कुरुक्षेत्र।
72475	राम नरंजन बनारसी दास	आयुर्वेद रत्न हि.सा.स.प्रयाग 1957	19681 8.3.94	258/10, पंचकूला।
72476	राम निवास जय भगवान	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1992	19437 10.2.93	45, गुज्जर धर्मशाला कुरुक्षेत्र।
72477	राम प्रकाश हरी दत्त शास्त्री	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19266 19.2.92	रेलवे रोड, नरवाना, जीन्द।
72478	रमन राम चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19450 11.3.93	67, सुखदेव नगर, पानीपत।
72479	रमन खन्ना नरेश चन्द	बी.ए.एम.एस. गु.दे.वि.वि., अमृतसर 1991	19320 13.7.92	अर्जुन नगर, जगाधरी, वाई. नगर।
72480	रामदेव शर्मा मोहन लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19346 25.8.92	सामने थान सदर, न्यू मंडी, नारनौल एम. गढ़।
72481	रमेश चन्द्र राम सरूप	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19499 6.5.93	ग्राम एवं पो. आ. सुभामा, झज्जर।

1	2	3	4	5
72482	रमेश कुमार छबिला राम	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19663 9.2.94	उचाना मंडी, जींद।
72483	रामेश्वर दास देवी दयाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1989	19179 20.8.91	ग्राम बीर अमिन के के आर।
72484	रमणिक गर्ग नरिन्द्र पाल गर्ग	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1993	19635 22.12.93	415, डिफेंस कालोनी, हिसार।
72485	रणबीर सिंह जगन्नाथ	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19372 24.9.92	नजदीक बस स्टैंड, बिशन सरूप कालोनी, पानीपत।
72486	रणबीर सिंह बख्तावर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	19398 14.12.92	राडौर रोड, कैम्प, यमुना नगर।
72487	रणबीर सिंह केहर सिंह	बी.ए.एम.एस. पंजाबी वि.वि., पटियाला 1987	19566 5.8.93	237, सेवक कालोनी, पटियाला।
72488	रानी देवी रणबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19102 4.4.91	सन्त नगर, जीन्द।
72489	रंजना जगन्नाथ	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19488 27.4.93	242, नजदीक पीली कोठी, जवाहर नगर, दिल्ली।
72490	रंजना कुल बाल कृष्ण	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19537 15.6.93	म. नं. 254-ए, न्यू प्रेम नगर, करनाल।
72491	रंजीत गौतम हरिन्द्र नाथ	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19324 20.7.92	म. नं. 551, मणिमाजरा।
72492	रंजीत सिंह प्रेम सिंहा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1989	19262 7.2.92	मोहल्ला आजादगढ़, रोहतक।
72493	रणवीर सिंह इन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19240 1.1.92	मोहल्ला आजादगढ़, रोहतक।
72494	रश्मि घई एम. एल. घई	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि. वि., चण्डीगढ़ 1992	19592 24.9.93	57, दशमेश कालोनी, राजपुरा, पटियाला।
72495	रश्मि पूनिया सुरेश पाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19378 24.3.92	बरवाला रोड, एच. एल. आर. डी. सी., हिसार।

1	2	3	4	5
72496	रवि दत्त श्रवण कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1991	19371 6.11.92	ग्राम एवं पो. आ. नागल चौधरी, एम. गढ़।
72497	रवि कान्त शर्मा सतपाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19449 10.3.93	29-ए, टैगोर गार्डन, नजदीक बस स्टैण्ड यमुना नगर।
72498	रविन्द्र कुमार नन्द लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19142 18.6.91	ग्राम एवं पो. आ. चंग, भिवानी।
72499	रविन्द्र कुमार बाबू लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19211 26.9.91	ग्राम हसनपुर, जिला मोहिन्द्र गढ़।
72500	रविन्द्र कुमार फकीर चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19426 10.2.93	649/8, कृष्ण कालोनी, इन्द्री रोड, लडवा के. के. आर.।
72501	रविन्द्र मलिक अमर नाथ	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1990	19205 17.9.91	आर्य नगर, झज्जर।
72502	रविन्द्र पाल यादव करतार सिंह	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1991	19402 14.12.92	के. एस. नर्सिंग होम, बादशाहपुर, जी. यू. जी.।
72503	रविन्द्र सहगल नरेन्द्र नाथ	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19420 2.2.93	2884/2, जगाधरी गेट, अम्बाला सिटी।
72504	रावजीत कौर कश्मीर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19534 4.6.93	ग्राम खारकन, तहसील गुहला, कुरुक्षेत्र।
72505	रीना राजेन्द्र प्रसाद	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1992	19605 1.12.93	किसान सीड स्टोर, जाखल मंडी, एफ. बाद।
72506	रेखा चौहान कौशल पाल सिंह	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1992	19571 16.8.93	11-बी 81, ओल्ड कैम्पस, एचएयू. हिसार।
72507	रेखा रानी हरी राम गोयल	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1992	19549 12.7.93	1569/4, पंचकूला।
72508	रेनू भूपेन्द्र दत्त	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1990	19543 17.6.93	ग्राम जयैली, पो. आ. हेली मंडी, गुड़गांव।
72509	रेनू रेहलन प्रवीन रेहलन	बी.ए.एम.एस. पंजाब रा.आ. एवं यू.वि.प. संकाय, चण्डीगढ़ 1991	19267 26.2.92	म नं. बी-76, राजनगर, सैक्टर 23, गाजियाबाद।

1	2	3	4	5
72510	रेनू वन्दना ब्रमदेव शर्मा	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1990	19185 20.8.91	मार्फत जे.आर. भारद्वाज, म. नं. 1155, न्यू हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, करनाल।
72511	ऋषि पाल अग्रवाल पी. के. अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19418 7.1.93	562, हाऊसिंग बोर्ड, अम्बाला।
72512	रीता सयाल मोहिन्द्र पाल	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1991	19325 21.7.92	31, शास्त्री कालोनी, यमुना नगर।
72513	रीतू वाई. के. वधेरा	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1991	19286 7.5.92	142/4, पंचकूला।
72514	रीतू छावड़ा चन्द्र शेखर	बी.ए.एम.एस. गु. दे. वि. वि., रोहतक 1990	19244 1.1.92	ग्राम खरवा, वाई. नगर।
72515	रीतू गुप्ता राजेश्वर नाथ	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19405 22.12.92	ओल्ड अनाज मंडी, अम्बाला सिटी।
72516	रीतू गुप्ता पी.डी. गुप्ता	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1992	19659 20.1.94	ग्राम एवं पो. आ. चंग, भिवानी।
72517	सबरीना प्रेम चोपड़ा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19500 6.5.93	म. नं. 317/16, पंचकूला।
72518	सलिल देशवाल रणधीर देशवाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1989	10508 13.5.93	ग्राम एवं पो. आ. होली, अम्बाला।
72519	सन्दीप कुमार सुरेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1993	19665 9.2.94	रेलवे रोड, गोहाना, सोनीपत।
72520	संगीता मढोक विनय कुमार	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1989	19100 2.4.91	नजदीक नेगी टैन्ट हाउस, जगाधरी वर्कशाप, वाई. नगर।
72521	संगीता पंवार अनिल पंवार	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1990	19209 19.9.91	म. नं. 110/37 फरीदाबाद।
72522	संजय आनन्द राजिन्दर कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1993	19669 9.2.94	क्वार्टर नं. 46, पापर मिल कालोनी, वाई. नगर।
72523	संजय गर्ग रमेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1992	19544 17.6.93	म. नं. 6/8, न्यू धर्मशाला गली, नरवाना जीन्द।

1	2	3	4	5
72524	संजय जाखड़ मोहिन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1992	19593 28.9.93	220/28, नजदीक शीला टक्कीज, सोनीपत रोड रोहतक।
72525	संजय कुमार एस. एस. अत्रे	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1990	19358 10.9.92	लोहार बाजार, भिवानी।
72526	संजय कुमार ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1990	19441 17.2.93	ग्राम एवं पो.आ. बथेरी शीकन, अम्बाला।
72527	संजय कुमार राज कुमार	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1991	19607 1.12.93	नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, जीन्द।
72528	संजय कुमार विद्या सागर	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1991	19677 1.3.94	ग्राम एवं पो. आ. इस्माइलाबाद, के के आर
72529	संजय फोगत दया राम	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1992	19608 1.12.93	झण्जर घाटी चरखी दादरी, भिवानी।
72530	संजय शर्मा विरेंद्र कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19348 25.8.92	218, पाठशाला मार्ग, महेश नगर, अम्बाला कैन्ट।
72531	संजीव धमीजा बी. एस. धमीजा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19383 19.10.92	सीएमओ रेजीडेंस, कुरुक्षेत्र।
72532	संजीव गोयल भगत राम	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1990	19461 18.3.93	ग्राम बाद खालसा, सोनीपत।
72533	संजीव गोयल चन्द्र सैन	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1991	19595 29.10.93	3081/23-डी, चण्डीगढ़।
72534	संजीव गुप्ता टेक चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1993	19666 9.2.94	68/18, पंचकूला।
72535	संजीव कुमार देवराज	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1990	19269 5.3.92	16/201, नई बस्ती मंसा।
72536	संजीव कुमार शिव प्रसाद	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19288 14.5.92	ग्राम बर्रा, पो. आ. कुलदीप नगर, अम्बाला कैन्ट।
72537	संजीव कुमार भारत भूषण	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1988	19354 3.9.92	49/4, थानेसर सिटी।



1	2	3	4	5
72538	संजीव कुमार बाबू राम जस्सल	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1991	19057 16.3.93	भारत नगर, कातका, पीकेएल।
72539	संजीव कुमार राम सरूप	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1992	19523 31.5.93	नजदीक आईस फैक्ट्री भूना, फतेहाबाद।
72540	संजीव मदान रामजी दास	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1989	19136 31.5.91	95/17, बस्तीपुरा, रोहतक।
72541	सन्तोष गुप्ता राम रिच्छपाल	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1990	19637 4.1.94	शकुल स्ट्रीट, सफीदोन, जीन्द।
72542	सन्तोष कुमार श्याम सुन्दर	वैद्याचार्य नि.भा.आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1971	19219 22.10.91	ग्राम एवं पो. आ. डिदवाना, नागौर, राजस्थान।
72543	सन्तोष शर्मा एम. एस. गौतम	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1989	19170 5.8.91	ग्राम एवं पो. आ. सिसर, रास, रोहतक।
72544	सरिता सुदर्शन कुमार	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1989	19141 18.6.91	एलवे रोड, शाहबाद, के.आर।
72545	सरिता नी सवापति जैल्ली राम	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1992	19378 14.10.92	म. नं. 466/11, नजदीक कुन्दन सिनेमा, जीन्द।
72546	सरिता शर्मा कृष्ण शर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19338 17.8.92	4-5/12, होवा, के.के.आर।
72547	सर्वेश्वरी रविन्द्र प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1992	19556 27.7.93	गली डा. प्यारा लाल, नजदीक कृष्ण सोडा फैक्ट्री, भिवानी।
72548	सतपाल जगदीश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19489 28.4.93	ग्राम एवं पो. आ. पवनवा, कैथल।
72549	सतिन्द्र कौर सतिन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1989	19349 25.8.92	म. नं. 318, भगत सिंह स्ट्रीट मंसा।
72550	सतीश गांधी एस. बी. गांधी	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1989	19114 11.4.91	कोठी नं. 2, आदश नगर, भिवानी।
72551	सतीश कुमार बनवारी लाल	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1991	19326 23.7.92	ग्राम एवं पो. आ. मातन हेल, झज्जर।

1	2	3	4	5
72552	सतीश कुमार भगत सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1993	19516 18.5.93	ग्राम बलियाली, भिवानी।
72553	सतीश संगवान दया सिंह	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1991	19351 4.9.92	हीरा चौक, दादरी, बीएचडब्ल्यू।
72554	सतीश वत्स हरपाल दत्त	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19478 19.4.93	डब्ल्यू जैड-632, शिव नगर, नजदीक जैल रोड, दिल्ली।
72555	सतवन्ती रोहताश सिंह	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1989	19482 21.4.93	म. नं. 157-ए, एनपी-12, ग्राम दसधेरा, पो. आ. पूसा, दिल्ली।
72556	सविता अरोड़ा संजीव अरोड़ा	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1991	19422 10.2.93	संजीव अस्पताल, भूना, फतेहाबाद
72557	सीमा लीला कृष्ण	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1992	19590 22.9.93	म. नं. 122, कलां मोहल्ला, सोनीपत।
72558	सीमा भार्गव रत्न लाल भार्गव	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1992	19611 9.12.93	10, बीर कालोनी, भटिण्डा।
72559	सीमा गुप्ता ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1990	19343 24.8.92	9089/5, नया बांस, अम्बाला सिटी।
72560	सीमा गुप्ता चन्द्र प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1991	19533 4.6.93	भगवान महावीर नगर, उकलाना मंडी, एचएसआर।
72561	सीमा मुदगिल राकेश मुदगिल	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1991	19589 22.9.93	म. नं. 712, सेक्टर-17, पंचकूला।
72562	सीमा रानी पवर कुमार	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1991	19464 10.3.93	कैनल कालोनी, तोहाना, एफ.बाद।
72563	सीमा रानी मोहन लाल	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1992	19606 1.12.93	ई-131, मुगल मोहल्ला, सुभाष गेट, करनाल।
72564	शैलेन्द्र धवन मंगत राम	बी.ए.एम.एस. गु.दे.वि.वि., अमृतसर 1990	19255 22.1.92	1753/16, फरीदाबाद।
72565	शैलेन्द्र सिंह बिशन सिंह	बी.ए.एम.एस. म. द. वि. वि., रोहतक 1989	19107 4.4.91	जमना पुल रोड, पलवल, फरीदाबाद।

1	2	3	4	5
72566	शैलेश गुप्ता रमेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. पंजाब रा.आ. एवं यू.चि.प. संकाय, चण्डीगढ़ 1991	19388 19.10.92	गुड़ बाजार, अम्बाला कैन्ट।
72567	शक्ति गुर प्रसाद लखपर राय	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19287 11.5.92	बजाज बाजार, लडवा केकेआर।
72568	शकुन राम गोपाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19355 4.9.92	1399, अर्बन एस्टेट, हिसार।
72569	शकुन्तला चौधरी करतार सिंह	बी.ए.एम.एस. गुजरात आयु.वि. वि., जामनगर 1992	19628 22.12.93	नेहरू कालोनी, रोहतक।
72570	शकुन्तला दहिया धूप सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1992	19472 8.4.93	म. नं. 432/14, करनाल।
72571	शलिमा ग्रोवर पी. के. ग्रोवर	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1993	19651 11.1.94	1269/8, सलारपुर रोड, कुरुक्षेत्र।
72572	शालिनी गर्ग अमित गर्ग	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1993	19667 9.2.94	1/VIII-ए-विद्युत नगर, हिसार।
72573	शमा अरोड़ा नरेश अरोड़ा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19588 14.9.93	869/38-ए, चण्डीगढ़।
72574	शमशेर सिंह स्वराज कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19164 24.7.91	पीपली चौक, अस्सन्ध, केएनएल।
72575	शमशेर सिंह धनी राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19259 22.1.92	ग्राम एवं पो. आ. बान, कुरुक्षेत्र।
72576	शमशेर सिंह माम चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19385 14.11.92	373, न्यू प्रेम नगर, करनाल।
72577	शशि भूषण ए. पी. मदान	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1989	19180 20.8.91	पीछे नीलम थियेटर, ज्योति नगर, कुरुक्षेत्र।
72578	शशि कला रंजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1993	19661 24.1.94	गोहाना, सोनीपत।
72579	शशि कान्त सोम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1992	19503 10.5.93	ग्राम एवं पो. आ. धुम्बर, अम्बाला।

1	2	3	4	5
72580	शशि रानी ज्ञान चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1992	19563 4.8.93	थाना रोड, फतेहाबाद।
72581	शशि सैनी अनिल सैनी	बी.ए.एम.एस. गु.दे.वि.वि., अमृतसर 1991	19678 3.3.94	ग्राम एवं पो. आ. मुस्तफाबाद, वाई. नगर।
72582	शेखर वर्मा के. सी. वर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1990	19112 9.4.91	15/870, जुण्डला गेट, करनाल।
72583	शोभा अहूजा मोहिन्द्र अहूजा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1992	19636 4.1.94	रेलवे रोड, गनौर, सोनीपत।
72584	शोभा बंसल संजीवन कुमार	बी.ए.एम.एस. गु.दे.वि.वि., अमृतसर 1991	19360 10.9.92	62-ए.राम नगर, अम्बाला छावनी।
72585	श्याम लाल रेतू राम	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19345 24.8.92	ग्राम बुदनपुर खालसा, पो. आ. इन्दौर, करनाल।
72586	श्याम लाल रूली राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1992	19584 14.9.93	212, लाजपत नगर, हिसार।
72587	सिद्धार्थ शंकर लेखराज	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19352 3.9.92	48/14, कौनल कालोनी, एफ. बाद।
72588	सिमली पारटल मनिन्द्र जीतत सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1993	19641 11.1.94	2994/2, अम्बाला शहर।
72589	सिम्ली तेहरी जे. एन. तेहरी	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चण्डीगढ़ 1992	19599 29.10.93	म. नं. 3278/46-सी, चण्डीगढ़।
72590	श्री कृष्ण प्रभु दयाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19127 8.5.91	चमारियान, रोहतक।
72591	सीता राम घनश्याम दास	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1992	19541 15.6.93	धर्मशाला रोड, फतेहाबाद।
72592	स्नेह इन्द्रजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19475 9.4.93	बी-IX-881, नजदीक आई.टी. आई. यमुना नगर।
72593	सोम लता मुख्यार सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19395 24.11.92	म. नं. 877/सी-28, भरत कालोनी रोहतक।

1	2	3	4	5
72594	सोमेश कुमार खराती लाल	बी.ए.एम.एस. पंजाबी वि. वि., पटियाला 1988	19200 12.9.91	1579/15, पंचकूला।
72595	सोनिया अग्रवाल आई. एस. अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1993	19668 9.2.94	317/16, पंचकूला।
72596	सुबाष चन्द शम्भू राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19192 26.8.93	मौहल्ला मुगल पुरा, गोहाना, सोनीपत।
72597	सुबाष चन्द राम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19175 6.8.91	रेलवे रोड, कालका, (पीकेएल)।
72598	सुबाष चन्द्र बलवन्त सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1990	19210 24.9.91	2144, श्री नगर कालोनी, जगाधरी।
72599	सुबाष चन्द्र हीरा लाल	आयुर्वेदाचार्य राजस्थान वि. वि., जयपुर 1978	19224 7.11.91	बाजार वकीलन, हिसार।
72600	सुबाष चन्द राम चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19445 5.3.93	म. नं. 72, ठाकुर बस्ती, फतेहाबाद।
72601	सुबाष चन्द हरी राम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1992	19514 18.5.93	राम कालोनी, बरनाला रोड, सिरसा।
72602	सुबाष महला गुरनाम सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1990	19204 17.9.91	ग्राम सुदैल, पो. आ. खेरा, वाई नगर।
72603	सुभरा कुमारी अरविन्द यादव	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19374 8.10.92	दीन दयाल अस्पताल, कुन्द, रेवाड़ी।
72604	सुदर्शन सिंह जीत सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1992	19536 4.6.93	ग्राम एवं पो. आ. खौरी, रेवाड़ी।
72605	सुदेश बाला जसबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1989	19671 11.2.94	ग्राम एवं पो. आ. भद्रा, (बी.एच.डब्ल्यू.)
72606	सुदेश जतियान कृष्ण जतियान	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19474 8.4.93	ग्राम एवं पो. आ. सदौरा, वाई नगर।
72607	सुदेश पाल मलखान सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19250 8.1.92	ग्राम एवं पो. आ. बट्टा, कैथल।

1	2	3	4	5
72608	सुदेश राणा सी. एस. आर्य	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19604 1.12.93	डब्ल्यू नं. 1, महम, (आरटीके)।
72609	सुधीर कुमार राज कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1990	19104 4.4.91	239/32-ए, चण्डीगढ़।
72610	सुजाता अहूजा रविन्द्र अहूजा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19242 1.1.92	पंजाबी मार्किट, शिव पार्क, गुडगांव।
72611	सुजाता दत्त गुरू दत्त	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19227 25.11.91	मोहल्ल हथियार सिंह, कोसली, रेवाड़ी।
72612	सुजाता वत्स सतीश वत्स	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19481 19.4.93	डब्ल्यू जैड-632, शिव नगर, नजदीक जेल रोड, दिल्ली।
72613	सुलेश कुमार राम सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19399 14.12.92	ग्राम जनी, पो. आ. खेरी नारू, करनाल।
72614	सुमन बाला सरदारी लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19409 6.1.93	पुराना बाजार, कोटकपुरा, (पीबी)।
72615	सुमन भार्गव विश्वेन्द्र भार्गव	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19520 26.5.93	धौला कुआँ, नरवाना, जीन्ड।
72616	सुमन लता वासदेव अरोड़ा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19330 5.8.92	मदन अस्पताल, न्यू रेलवे रोड, गुडगांव।
72617	सुमन मदान बीरबल मदान	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19235 4.12.91	सुबाष चौक, चरखी दादरी, (भिवानी)।
72618	सुनन्दा शर्मा जगदीश शर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19463 29.3.93	113, मनोली हाउस, अम्बाला कैन्ट।
72619	सुनैना बिन्दु	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19438 10.2.93	म. नं. 688, इन्द्र नगर, अम्बाला सिटी।
72620	सुनील दत्त धर्मपाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19370 22.9.92	775/19, सैनीपुरा, रोहतक।
72621	सुनील गर्ग ईश्वर दयाल गर्ग	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1989	19140 13.6.91	1/232/11, लक्ष्मी बिल्डिंग, सदर बाजार, दिल्ली कैन्ट।

1	2	3	4	5
72622	सुनील कम्बोज किशोरी लाल कम्बोज	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1993	19653 11.1.94	रामपुर माजरा, वाई नगर।
72623	सुनील गर्ग राम कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19396 8.12.92	सी-249, मीर सदन, नजदीक लाल कुआँ, करनाल।
72624	सुनील कुमार ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19414 7.1.93	गली आशा राम मीणा बाजार, मंडी डबवाली, सिरसा।
72625	सुनीता वेद पाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19233 26.11.91	9/13, नन्दवानी नगर, सोनीपत।
72626	सुनीता बी. पी. सहरावत	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19301 22.6.92	म. नं. 1212, डब्ल्यू नं. 21, गली नं. 9, हफेद रोड, रोहतक।
72627	सुनीता भद्र सैन	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19303 23.6.92	504/9, पानीपत।
72628	सुनीता अरोड़ा निरंजन दास	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19528 31.5.93	थूगला, (के.के.आर.)।
72629	सुनीता चौधरी जे. के. चौधरी	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19375 12.10.92	363, जयदेव नगर, हिसार।
72630	सुनीता देवी ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19276 17.3.92	म. नं. 1/215, स्ट्रीट नं. 6, शंकर गार्डन, बहादुर गढ़, झज्जर।
72631	सुनीता दुहन मनमोहन सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19300 22.6.92	370, डिफेन्स कालोनी, हिसार।
72632	सुनीता गेरा प्रीतम सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1990	19612 24.7.91	373, न्यू प्रेम नगर, करनाल।
72633	सुनीता कौशल रजनीश कौशल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19495 6.5.93	म. नं. 555, मथुरा नगरी, पुलिस लाईन, अम्बाला कैन्ट।
72634	सुनीता कौशिक विजेन्द्र कौशिक	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1990	19521 28.5.93	मोहल्ला चक्रवर्ती थानेसर, (करनाल)।
72635	सुनीता सिंह विनोद कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1984	19580 26.8.93	294, डिफेन्स कालोनी, हिसार।

1	2	3	4	5
72636	सुनीता वालिया के. जी. एस. वालिया	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19313 8.7.92	वालिवा क्लीनिक, सामने स्टेट बैंक, नारायणगढ़, अम्बाला।
72637	सूरत सिंह शेर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19178 9.8.91	ग्राम सिंहम, एम. गढ़।
72638	सुरेन्द्र कुमार बाबू राम	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19527 23.7.92	ग्राम एवं पो. आ. चमरोरी, वाई. नगर।
72639	सुरेन्द्र पाल सन्धू शिव राम सन्धू	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19258 22.1.92	जसवन्त कालोनी, यमुना नगर।
72640	सुरेन्द्र शर्मा टी. के. शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19389 29.10.92	मोदो वाली गली, हालू बाजार, भिवानी।
72641	सुरेश कुमार रामेश्वर दास	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19196 9.9.91	ग्राम एवं पो. आ. खरकारा, रोहतक।
72642	सुरेश कुमार शादी लाल	बी.ए.एम.एस. गु.दे.वि. वि., अमृतसर 1990	19254 15.1.92	म. नं. 1340/29, फरीदाबाद।
72643	सुरेश कुमार श्री कृष्ण	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1992	19569 16.8.93	जायसवाल क्लीनिक, कैमरी रोड, रोहतक।
72644	सुरेश कुमार सत नारायण	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19582 26.8.93	ग्राम एवं पो. ओ. खेरी साथ, रोहतक।
72645	सुरिन्द्र कुमार दल सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19386 29.10.92	बी-49, प्रेम नगर, हिसार।
72646	सुरिन्द्र लाल हेतराम	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1992	19562 4.8.93	जवाहर चौक, फतेहाबाद।
72647	सुरिन्द्र मोहन श्री राम शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19342 25.8.92	ग्राम जलमानी पो. आ. बापौली, (केएनएल)।
72648	सुरिन्द्र पाल कपूर चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1990	19181 20.8.91	किशनपुरा, पानीपत।
72649	सुशील कुमार बंसी लाल	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19384 20.10.92	नारंग अस्पताल, थाना रोड, फतेहाबाद।



1	2	3	4	5
72650	सुशील कुमार पूरन चन्द प्रधान	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19394 24.11.92	प्रधान स्ट्रीट, चरखी दादरी, भिवानी।
72651	सुशील कुमार बलदेव कृष्ण	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1992	19643 11.1.94	नजदीक आर्य समाज रेलवे रोड, नरवाना।
72652	सुशीला जितेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19232 26.11.91	1635, अर्बन एस्टेट-II, हिसार।
72653	सुशीला कुमारी मनफूल सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19362 16.9.92	मोहल्ला दालान संघी, रोहतक।
72654	सुशीला रानी सुरिन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19151 2.7.91	ग्राम कैल, तह. जगाधरी, यमुना नगर।
72655	सुषमा नैन रणधीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1992	19610 1.12.93	365/17, रेलवे रोड, रोहतक।
72656	टी. सी. गोयल ज्ञान चन्द गोयल	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि. वि., दिल्ली 1981	19617 13.12.93	राजा गार्डन, फरीदाबाद।
72657	तरसेम सिंह खैराती लाल	बी.ए.एम.एस. गु.दे.वि.वि., अमृतसर 1985	19130 9.5.91	162-बी, न्यू कालोनी, गड़गांव
72658	तरुणा मल्होत्रा सोमनाथ	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19381 19.10.91	101/27, प्रभात कालोनी, नजदीक माडल टाउन, रोहतक।
72659	उमंग बख्शी एस. एस. बख्शी	बी.ए.एम.एस. पंजाब रा.आ. एवं यू.चि.प. संकाय, चण्डीगढ़ 1991	19393 24.11.92	म.नं. 4627/29-ए, सराफा बाजार, अम्बाला कैन्ट।
72660	उमेश चन्द्र गुप्ता रमेश चन्द्र गुप्ता	बी.ए.एम.एस. म.द.वि.वि., रोहतक 1990	19189 26.8.91	30/410, त्रिलोकपुरी, पो. आ. हिम्मतपुरी दिल्ली।
72661	उमेश मित्तल सुरेश चन्द	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1990	19195 28.8.91	देवी भवन बाजार, जगाधरी, वाई नगर।
72662	उपासना अमृत लाल पुरी	बी.ए.एम.एस. म.द.वि. वि., रोहतक 1991	19328 28.7.92	प्रेम नगर, हिसार।
72663	उर्वशी तलवार राम मूर्ति	बी.ए.एम.एस. पंजाब रा.आ. एवं यू.चि.प. संकाय, चण्डीगढ़ 1991	19484 26.4.93	न्यू कालोनी, पेहोवा, कुरुक्षेत्र।

1	2	3	4	5
72664	उषा गोयल नरेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19530 3.6.93	408, गली लठ सिंह, मंसा, (पीबी)।
72665	उषा जोशी सतीश जोशी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1989	19183 20.8.91	18-ए, न्यू मिलाप नगर, अम्बाला सिटी।
72666	उषा रानी सतदेव	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1990	19234 4.12.91	ग्राम मन्थार वाया राधौर, (वाई. नगर)।
72667	वन्दना बंसल मुकेश बंसल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19423 10.2.93	3817/32-डी, चण्डीगढ़।
72668	वन्दना शर्मा ए. एम. शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1990	19273 11.3.92	216, हाऊसिंग कालोनी, फेस-1, सोनीपत।
72669	वन्दना शर्मा संजय शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1990	19439 17.2.93	मधेरी शीकन, अम्बाला।
72670	वेद प्रकाश शाम लाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1990	19187 26.8.91	12/4, गुरू नानकपुर, कुरुक्षेत्र।
72671	वीना साहनी राजेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19456 16.3.93	6, सिविल लाईन, सामने टेलिफोन एक्सचेंज, अम्बाला सिटी।
72672	वीना शर्मा मनोज शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1989	19564 5.8.93	म नं. 2250, लाथुरपुरा स्ट्रीट, पटियाला।
72673	विभा परूथी जगदीश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1992	19554 26.7.93	पी. टी. कालेज, दिल्ली गेट, रोहतक।
72674	विजय कुमार जैन पी. सी. जैन	आयुर्वेदचार्य नि.भा. आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1979	19397 10.12.92	बी-1349, दयालपुरा, करनाल।
72675	विजय कुमार देवराज	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1989	19117 22.4.91	ब्लाक नं. 7, कैम्प, यमुना नगर।
72676	विजय कुमार ओमप्रकाश	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1991	19302 22.6.92	ग्राम एवं पो.आ. मारवा कलां, वाई. नगर।
72677	विजय कुमार मांगे राम	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1992	19547 30.6.93	ग्राम एवं पो.आ. बवानी खेरा, (भिवानी)।

1	2	3	4	5
72678	विजय लक्ष्मी सोहन लाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1991	19323 17.7.92	101, डिफेंस कालोनी, हिसार।
72679	विजय मित्तल किंदार नाथ	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1991	19453 11.3.93	229, सरोजनी कालोनी, यमुना नगर।
72680	विजय पाल सिंह सन्तराम	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1992	19638 4.1.94	ग्राम रेवाड़ी खेरा, पो.आ. चारा, झज्जर।
72681	विजय शर्मा ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1993	19652 11.1.94	254/9, रामा प्रताप गली, चक्रवर्ती मोहल्ला, कुरुक्षेत्र।
72682	विकास बंसल अवनाश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. पंजाब रा.आ. एवं यू.चि.प. संकाय, चण्डीगढ़ 1990	19247 6.1.92	421/8, पंचकूला।
72683	विक्रम शर्मा नरेन्द्र देव शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1990	19272 9.3.92	म. नं. 698/बी, खण्डसा रोड, गुड़गांव।
72684	विक्रम बिन्दल राम कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19415 7.1.93	धन्वन्तरि नर्सिंग होम, कालका (पीकेएल)।
72685	विनय कुमार सेठी राम प्रकाश सेठी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1992	19493 5.5.93	नजदीक दुर्गा मन्दिर, मंडी डबवाली, सिरसा।
72686	विनीता सहगल राकेश कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1989	19297 15.6.92	4/226, शिवाजी नगर, गुड़गांव।
72687	विनोद मिगलानी हकीम राय मिगलानी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19416 7.1.93	मोहल्ला चक्रवर्ती, थानेसर (केकेआर)।
72688	विनोद सैनी देवेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1990	19119 29.4.91	ग्राम एवं पो.आ. बरारा, अम्बाला। (केकेआर)।
72689	वीर बहादुर सिंह उमेद सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19448 10.3.93	ग्राम एवं पो.आ. कल्यात, कैथल।
72690	विवेन्द्र कुमार जीवन दास	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1991	19312 8.7.92	819/24, सरकुलर रोड, रोहतक।
72691	विवेन्द्र कुमार रघबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19454 11.3.93	ग्राम खेरी जत्तन (केएनएल)।

1	2	3	4	5
72692	विरेन्द्र कुमार विद्या भूषण	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19488 19.4.93	ग्राम एवं पो. आ. रामसरन माजरा (के.के.आर.)।
72693	विरेन्द्र सिंह ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1992	19440 17.2.93	मोहन नगर, कुरुक्षेत्र।
72694	विशन देवी नरेश साधना	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1990	19155 8.7.91	म. नं. 73, डब्ल्यू नं. 9, चक्रवर्ती मोहल्ला, थानेसर (के.के.आर.)।
72695	विष्णु दत्त लाडली प्रसाद	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1990	19139 11.6.91	ग्राम एवं पो. आ. हथिरा (के.के.आर.)।
72696	विश्वकान्त सरवेश्वर नन्द	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1992	19509 17.5.93	म. नं. 4145, सब्जी मंडी, अम्बाला कैन्ट।
72697	विवेक दीक्षित एस. बी. दीक्षित	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19124 7.5.91	प्रिंसीपल, डीएवी कालेज, सुभाष कालोनी, करनाल।
72698	विवेक कुमार यश पाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1991	19304 24.6.92	72-ए, कृष्णा कालोनी, यमुना नगर।
72699	यशपाल सिंह धूम सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1993	19631 22.12.93	नजदीक देवी मन्दिर, घरोण्डा, करनाल।
72700	योगेश देवराज	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1990	19186 20.8.91	बन्दना नर्सिंग होम, चौक लाहोरियान, हिसार।
72701	युधवीर सिंह तोमर खिलारी सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि. वि., रोहतक 1991	19364 16.9.92	तोमर अस्पताल, बस स्टैंड, इतराना (पीएनपी)।
72702	अजय गर्ग राम कुमार गर्ग	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि. वि., चण्डीगढ़ 1997	20545 07.12.99	458, सैक्टर-4, पंचकूला।
72703	अजय कुमार जिले सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1993	20140 09.06.97	धनकर अस्पताल, बैरी (झज्जर)।
72704	अजय शर्मा जी. डी. शर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1996	20300 02.07.98	1 डी/25, मिलाप दवाखाना, एन. आई. टी. (फरीदाबाद)।
72705	अजीत कुमार मामन चन्द	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1993	20486 08.06.99	गांव बगनवाला, तह. तोशाम, (भिवानी)।

1	2	3	4	5
72706	अलका मदन मोहन	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1996	20320 16.07.98	88-बी, माडल टऊन, रोहतक।
72707	अलका मल्होत्रा पवन मल्होत्रा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1997	20497 23.6.99	मार्फत जे. जे. स्कूल, 58, पटेल नगर, हिसार।
72708	आलोक शर्मा यज्ञदत्त शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1997	20513 25.08.99	मार्फत डा. ओ. पी. शर्मा चौरा बाजार, करनाल।
72709	अमनदीप रुपल संजीव शर्मा	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि. वि., चण्डीगढ़ 1993	20541 18.11.99	39, न्यू शारदा नगर, मानव चौक, अम्बाला शहर।
72710	अम्बीका शर्मा सिद्धार्थ	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1996	20391 14.1.99	शर्मा हास्पीटल, रोहतक रोड, तह. दादरी (भिवानी)।
72711	अमी लाल बाले राम	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1996	20398 04.02.99	दर्शन पोली क्लीनिक, मोहना, तह. बल्लबगढ़ (फरीदाबाद)
72712	आनन्द सरूप शर्मा जयपाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. परीक्षा निकाय ए.यू.एस.एम. दिल्ली 1979	20272 12.5.98	ग्राम एवं पो. आ. निसंग (करनाल)।
72713	अनिल दत्त शर्मा भगत राम शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1997	20437 10.03.99	1632/5 ज्योति नगर, कुरुक्षेत्र।
72714	अनिल गोगिया जयदयाल गोगिया	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि. वि., दिल्ली 1997	20451 20.03.99	308/4, राम नगर, गुड़गांव।
72715	अनिल गोयल वेद प्रकाश गोयल	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1997	20436 09.03.99	306, ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, जीन्द।
72716	अनिल कुमार शेर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1995	20329 27.07.98	म. नं. 1546, सेक्टी-9, फरीदाबाद।
72717	अनिल गोयल कश्मीरी लाल	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1997	20439 16.03.99	ग्राम एवं पो. आ. बियना वाघा-इन्दौर (करनाल)।
72718	अनिल यादव शारदा नन्द यादव	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1996	20348 26.08.98	ग्राम एवं पो. आ. मनडौला (रेवाड़ी)।
72719	अंजलि गर्ग गौरी शंकर अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1997	20516 31.08.99	म. नं. 2794/7-ए, ग्रीन पार्क, फरीदाबाद।

1	2	3	4	5
72720	अंजलि शर्मा आर. सी. शर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20219 18.02.98	मकान नं. 313, सैक्टर-15-ए, फरीदाबाद।
72721	अंजना मदान सतपाल मदान	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20408 23.02.99	124, श्री नगर कालोनी, जगाधरी, जिला-यमुना नगर।
72722	अंजु बाला सुशील हंस	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1995	20188 24.11.97	मोती सिनेमा रोड, मोहिन्द्रगढ़।
72723	अंजु बाला नारायण सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1996	20330 27.7.98	मकान नं. 1651/9, हाफेड चौक, रोहतक।
72724	अंजु गर्ग अतुल कुमार गर्ग	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1991	20226 19.2.99	श्री कांशीगिरी धर्मार्थ औषधालय, सनौली रोड, पानीपत।
72725	अंजु गुप्ता लेख राज	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20411 25.02.99	510, सैक्टर-10, पंचकूला।
72726	अंजु मोदी विजय कुमार मोदी	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1997	20536 12.10.99	325/11, जैन स्ट्रीट, येहना, जिला फतेहाबाद।
72727	अंजु सिंह खोखर वीरेंद्र सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1995	20258 21.04.98	बुढ़नाथ डेरा के नजदीक, मैन बाजार, इन्द्री (करनाल)।
72728	अंजुला भारद्वाज शिव कुमार	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1994	20162 17.07.97	मकान नं.-7, इन्डस्ट्रीयल हाऊसिंग कालोनी, हैड पोस्ट आफिस के नजदीक, पानीपत।
72729	अनू कक्कर के. बी. कक्कर	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20222 18.02.98	मकान नं. 1353-एफ, सैक्टर नं. 11, पंचकूला।
72730	अनुपम कुरल बाल कृष्ण	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1995	20125 01.05.97	254-ए, न्यू प्रेम नगर, करनाल।
72731	अंशु बूबलानी रविन्द्र बूबलानी	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1994	20400 4.2.99	2884/2, जगाधारी गेट, अम्बाला शहर।
72732	अंशु गोयल टी.आर. गोयल	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1997	20461 12.4.99	मकान नं. 847/बी-4, इन्द्रपुरी, अम्बाला शहर।
72733	अनुप सिंह दुलीचन्द	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1978	20198 10.2.97	सैनीपुरा, चरखी दादरी, (भिवानी)।

1	2	3	4	5
72734	अनुपमा शर्मा सत्यपाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1996	20389 14.1.99	मकान नं. 952, सैक्टर-9, अम्बाला शहर।
72735	अनुपमा शर्मा आर. डी. शर्मा	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि. वि., चण्डीगढ़ 1994	20511 05.8.99	मकान नं. 3152/1, सैक्टर 44- डी, चण्डीगढ़।
72736	अनुराधा शर्मा धन सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20419 8.03.99	544, महेश नगर, अम्बाला कैन्ट।
72737	आरती गग तरसेम गर्ग	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1997	20527 24.09.99	374/3, कृष्णा कालोनी, तोहना, (फतेहाबाद)।
72738	अरविन्द गौतम शिव कुमार गौतम	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1997	20452 22.03.99	352, सैक्टर 15, सोनीपत।
72739	अरविन्द कुमार हरी राम गौतम	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1995	20149 17.06.97	गौतम क्लीनिक, 387, गुरूनानक- पुरा, करनाल।
72740	अशोक बन्सल हरि चरण	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1995	20265 20.04.98	ग्राम एवं पो. आ.-धौराला, तह.-थानेसर, (कुरुक्षेत्र)।
72741	अशोक कुमार बुलचन्द	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1995	20121 01.05.97	ग्राम एवं पो. आ.-सारेली, (मोहिन्द्रगढ़)।
72742	अशोक शर्मा कृष्ण लाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20220 18.02.98	910/7, हुड़ा, कुरुक्षेत्र।
72743	अशोक शर्मा रमेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1996	20397 14.01.99	मोहल्ला पराव, गवर्नमेंट महिला कालेज के समीप, महेन्द्रगढ़।
72744	अतुल कुमार गर्ग मोती राम	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1989	20227 18.02.98	श्री काशीगिरी धर्मार्थ औषधालय, सनौली रोड, पानीपत।
72745	बबीता माखन लाल पहवा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996.	20243 26.03.98	7, देवी भवन कालोनी, हिसार।
72746	बबीता बत्रा के. एम. बत्रा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1990	20186 24.11.97	मकान नं. 141/18, मोहल्ला- पीरजी, रोहतक।
72747	भारती चौहान डी. आर. चौहान	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1996	20346 26.06.98	मकान नं. 83-बी-III, ठाकुर बस्ती, फतेहाबाद।

1	2	3	4	5
72748	भावना बी. पी. गुप्ता	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20334 30.07.98	662, सैक्टर-8, मानव चौक के नजदीक, अम्बाला शहर।
72749	बिजेन्द्र कुमार राम स्वरूप	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20242 26.03.98	1553/30, विजय नगर, सोनीपत।
72750	बिन्दु गुप्ता योगेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1995	20161 16.07.97	197, प्रेमनगर, अम्बाला शहर।
72751	बिन्दु नन्दवानी श्याम सुन्दर	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1995	20372 30.10.98	138, टाईप-4, पी.टी.पी.एस. कालोनी, पानीपत।
72752	चरणजीत कौर सतनाम सिंह	बी.ए.एम.एस. पंजाबी वि. वि., पटियाला 1994	20264 30.04.98	1380, सैक्टर-8, फरीदाबाद।
72753	दल सिंह लठवाल रामपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1996	20301 02.07.98	ग्राम व पो. आ. चिड़ाना, तह. गोहाना (सोनीपत)।
72754	दलीप प्रकाश तारा चन्द	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1991	20202 31.12.97	न्यू यादव अस्पताल, मुल्तान कालोनी चौक, जीन्द रोड, हाँसी (हिसार)।
72755	दर्शन कुमार हरी चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20240 26.03.98	मार्फत हरीश वाच कम्पनी, थाना रोड, फतेहाबाद।
72756	दर्शन सैनी पीलाराम सैनी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20540 27.10.99	सैनी नर्सिंग होम, बस स्टेण्ड चौक, तोहाना (फतेहाबाद)।
72757	दर्शना नस्वा मनोहर लाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20415 26.2.99	मकान नं. 2ई/53, एन.आई.टी., फरीदाबाद।
72758	दीपक गुप्ता प्रेम चन्द गुप्ता	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि. वि., रोहतक 1995	20124 01.05.97	260, शास्त्री नगर, अम्बाला शहर।
72759	दीपक गुप्ता राम दत्त गुप्ता	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20483 03.06.99	342, ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, भिवानी।
72760	दीपक परुथी सुरजीत लाल परुथी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20454 22.03.99	मकान नं.457-ए, दीवान कालोनी, करनाल।
72761	दीपक शर्मा राम धन	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20296 24.06.98	दीप हैल्थ सेंटर, दिल्ली रोड, समपला (रोहतक)।



1	2	3	4	5
72762	दीपाली दलजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20447 17.03.99	731, सैक्टर-7, पंचकुला।
72763	दीपिका एस. के. आनन्द	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20349 26.08.98	मकान नं. 1646, यू.ई.-II, हिसार।
72764	दीपिका मलिक सूरज पाल पाहवा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1994	20189 24.11.97	एल-26, ए/3, डी.एल.एफ., क्यू ई. गुडगांव।
72765	दीपशिखा बी.सी. पाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20182 11.09.97	20, इन्दिरा कालोनी, विक्रम मार्ग, करनाल।
72766	दीप्ती गोयल संजीव गोयल	बी.ए.एम.एस. जी.डी. वि.वि., अमृतसर 1997	20543 18.11.99	ग्राम व पो. आ. बाकशाल (अम्बाला)।
72767	दीप्ती सिंह सुरेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1995	20393 14.01.99	अग्रवाल धर्मार्थ औषधालय, गीताभवन, चरखी नदी, री, (भिवानी)।
72768	देवेन्द्र संगवान पी. एस. संगवान	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20299 26.06.98	संगवान हास्पिटल, उकाला मण्डी, (हिसार)।
72769	देवेन्द्र सिंह गोपाल राम	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20312 08.07.98	मकान नं. 281, सैक्टर-20, हुडा, सिरसा।
72770	धर्मवीर जे. एन. शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1995	20143 11.06.97	ग्राम व पो.आ.-कोहरी समपला, सरपंच हाऊस, मण्डी रोड, जिला-रोहतक।
72771	धर्मेन्द्र कुमार ऋषि प्रकाश	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20453 22.03.99	क्वाटर नं. 53, टाईम-II, थाना सिविल लाईन्स, दिल्ली।
72772	धीरज शर्मा सुभाष चन्द्र	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20459 12.04.99	मकान नं. 48-ए, पटेल नगर, हिसार।
72773	दिनेश चतुर्वेदी गौतम कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1995	20180 4.9.97	सोरे वाली गली, भिवानी।
72774	दिनेश दत्त ईश्वर दत्त	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20263 23.04.98	मकान नं. 931/7, जैन कालोनी, सोनीपत।
72775	दिनेश गोयल राजेश गोयल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20311 08.07.98	गोयल क्लीनिक, सिटी पुलिस स्टेशन के समीप, चौरा बाजार, करनाल।

1	2	3	4	5
72776	दिनेश कुकरा चन्दु लाल कुकरा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20495 23.6.99	रोहिला टेन्ट हाऊस के नजदीक, वार्ड नं. 2, रोहतक रोड, चरखी- दादरी (भिवानी)।
72777	दिनेश कुमार राम कुमार बन्सल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20537 20.10.99	37/2, देवी भवन कालोनी, हिसार।
72778	दीप्ती जैन प्रमोद कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20223 18.02.98	मकान नं. 1188, न्यू हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, सैक्टर-11-12, पानीपत।
72779	दुर्गेश कुमार नन्द लाल चुग	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20404 09.02.99	236/4, मरला, माडल टाउन, गुड़गांव।
72780	ईशा लठवाल डाल सिंह लठवाल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1994	20339 04.08.98	ग्राम व पो.आ. चिडाना, तह. गोहाना (सोनीपत)।
72781	गगन गर्ग रोमेश चन्द्र गर्ग	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चण्डीगढ़ 1999	20546 07.12.99	292, सैक्टर-4, मन्सादेवी कम्प्लैक्स, पंचकूला।
72782	गीता बाला बोधराज भाटिया	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20225 18.02.98	183, सैक्टर-22, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, फरीदाबाद।
72783	गीता कौशिक प्रदीप कौशिक	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1998	2048 18.06.99	मकान नं. 509/20, शिवाजी कालोनी, रोहतक।
72784	गीता राय नरेश राय	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1992	20519 31.08.99	191-आर., पियारा चौक, शिवाजी मार्किट के सामने, यमुना नगर।
72785	गीतांजलि चुयनी जे. एल. चुयनी	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20282 21.05.98	1891/4, अर्बन इस्टेट, गुड़गांव।
72786	गोबिन्द कृष्णा जगननाथ शर्मा	जी.ए.एम.एस. पंजाब स्टेट फैकल्टी आफ ए.यू.एस.एम., चण्डीगढ़ 1979	20356 02.09.98	मैन बाजार पीन्जौर (पंचकूला)।
72787	गुलाब सिंह चन्दुराम	जी.ए.एम.एस. पंजाब स्टेट फैकल्टी आफ ए.यू.एस.एम., चण्डीगढ़ 1979	20361 29.09.98	ग्राम व पोस्ट आफिस केहरी लाम्बा, तह.-कलायट (कैथल)।
72788	गुरकीट कौर तेजपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. पंजाब स्टेट फैकल्टी आफ ए.यू.एस.एम., चण्डीगढ़ 1990	20354 02.09.98	ग्राम व पोस्ट आफिस अभयपुर, इंडस्ट्रीयल एरिया-II (पंचकूला)।

1	2	3	4	5
72789	हरभजन सिंह कुन्दन सिंह 1986	बी.ए.एम.एस. बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर	20336 30.07.98	ग्राम व पो.आ.-नकोरा,तह.-रानिया (सिरसा)।
72790	हरि मोहन हरि लाल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20471 03.05.99	801/22, झंग कालोनी, रोहतक।
72791	हरि प्रसाद दधिच राधेश्याम दधिच	आयुर्वेद भिषक आल इण्डिया आयुर्वेद विद्यापीठ, दिल्ली 1961	20326 21.07.98	शाप नं.2, सब्जी मण्डी, करनाल।
72792	हरीश चन्द्र हंस राज	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20159 16.07.97	644, डी.सी. कालोनी, बी.टी.एम. के पीछे, भिवानी।
72793	हेमा गोसांई ए.सी. गोसांई	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20386 16.12.98	779, सैक्टर-4, यू.ई., गुडगांव।
72794	हेमा जैन प्रेम चन्द जैन	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20323 21.07.98	10-ए, विवेक विहार, अम्बाला शहर।
72795	हिमानी जग्गा मित्तरदेव जग्गा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20382 16.12.98	642/30, आदर्शनगर, रोहतक।
72796	इश गुप्ता दर्शन लाल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20267 30.04.98	वार्ड नं. 2, मण्डी डबवाली, (सिरसा)।
72797	ईश्वर दयाल पूर्णचन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20237 26.03.98	351/14, यू.ई., करनाल।
72798	जगदेव जुगलाल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20157 08.07.97	541/22, गली नं. 9, शिवाजी पार्क, खांडसा रोड, गुडगांव।
72799	जगदीश चन्द दीवाला चन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20155 31.07.97	661, सैक्टर-13, यू.ई., कुरुक्षेत्र।
72800	जयदीप आर्य ओमप्रकाश	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20469 21.04.99	82,आर्य भवन, प्रेमनगर, करनाल।
72801	जसविन्दर सिंह जंगशेर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20417 26.02.99	म. नं. 1773, न्यू क्रिश्चन कालोनी, जगाधरी (यमुना नगर)।
72802	कमलेश जय सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20217 18.02.98	म. नं. 68, अग्रवाल कम्पलैक्स, बबयाल (अम्बाला)।

1	2	3	4	5
72803	कमलेश देवी राजेन्द्र प्रसाद	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1995	20233 18.02.98	49/4-ए, राजेन्द्र नगर, बाबयाल, (अम्बाला)।
72804	कमलेश कुमार कपिला रामस्वरूप कपिला	जी.ए.एम.एस. पंजाब स्टेट फैकल्टी आफ ए.यू.एस.एम., चण्डीगढ़ 1974	20289 26.05.98	बा स्टैण्ड, खिजराबाद, (यमुना नगर)।
72805	करम चन्द अमर नाथ	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20340 04.08.98	ग्राम व पो. आ. बीहटा, (अम्बाला)।
72806	करम वीर सिंह भल्ला राम	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20364 29.09.98	143, सैक्टर-4, पंचकूला।
72807	कविता अग्रवाल प्रवीण अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20515 31.08.99	99, यू.ई.-II, हिसार।
72808	कविता पांचाल संजय पांचाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1995	20179 01.09.97	644, सैक्टर-15, फरीदाबाद।
72809	केदारनाथ गुप्ता लाला चेताराम जी	भिक्षाचार्य धनवन्तरि आयु. एवं यू.तिब्ब., कालेज, दिल्ली 1955	20137 4.6.97	ग्राम व पो. आ.-बरवाला, (अम्बाला)।
72810	किरण सेवाराम अत्री	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20319 15.7.98	मकान नं. 130, वार्ड नं. 15, गोहाना (सोनीपत)।
72811	किरण झण्डाई हरीश झण्डाई	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20384 16.12.98	1540, प्रताप गेट, कैथल।
72812	किताब सिंह दहिया शिश राम	बी.आई.एम.एस. परीक्षा निकाय ए.यू.एस.एम., दिल्ली 1967	20337 04.08.98	वार्ड नं. 7, दिल्ली रोड, खरखोदा (सोनीपत)।
72813	कृष्ण राजकुमार वर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20112 03.04.97	1427, यू.ई., जीन्द।
72814	कृष्ण चन्द्र खियालीराम सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1984	20310 08.07.98	ग्राम व पो. आ.-फूला (फतेहाबाद)।
72815	कृष्ण कान्त नवल किशोर	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20148 17.06.97	बी-1/101, सदरबाजार, सिरसा।
72816	कृष्ण लाल हरिचन्द मिधा	बी.ए.एम.एस. का.सि.द.सं.वि.वि., दरभंगा 1994	20176 20.08.97	मिधा औषधालय, दयालबाग कालोनी, जिन्द।

1	2	3	4	5
72817	कीर्ति दुआ गिरिश कुमार दुआ	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1993	20259 21.04.98	614-बी, माडल टउन, पानीपत।
72818	कुलदीप शर्मा राजकुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20273 12.05.98	नजदीक रेलवे स्टेशन बराला, (अम्बाला)।
72819	कुलदीप सिंह राणा जय सिंह राणा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20304 02.07.98	मकान नं. 316, घेबरा, दिल्ली।
72820	कुसुम सिंह धुमेन्दा सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20423 8.3.99	26, गणेश विहार, अम्बाला कैन्ट।
72821	लीना रानी मनोहर लाल विरमाणी	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20355 30.7.98	2236, सैक्टर -27-सी, चण्डीगढ़।
72822	मदन सिंह परमार उदय सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20331 28.7.98	ग्राम व पोस्ट आफिस-कालायट (कैथल)।
72823	मधु गुप्ता रमेश कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चण्डीगढ़ 1997	20544 7.12.99	रमेश औषधालय, मैन बाजार, पिन्जौर (पंचकूला)।
72824	महावीर प्रसाद धर्मपाल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20388 29.12.98	ग्राम व पोस्ट आफिस-बीराही कलां (भिवानी)।
72825	महावीर सिंह रत्न सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1985	20295 25.6.98	ग्राम व पोस्ट आफिस-भानबहेवा (जीन्द)।
72826	महेन्द्रपाल शर्मा धर्मपाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20526 24.9.99	मार्फत शम्भू दयाल, मार्टन स्कूल, (सोनीपत)।
72827	महेन्द्र सिंह नत्थू राम	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20239 26.3.98	ग्राम व पोस्ट आफिस-खैलेट (रीवाड़ी)
72828	महेश कुमार चमनलाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20195 02.12.97	ग्राम-मन्दलाना, पोस्ट आफिस- धरसू, तह.-नारनौल (महेन्द्रगढ़)।
72829	ममता रत्न लाल गर्ग	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1994	20210 19.01.98	मार्फत-डा. सम्पत बंसल, पुरानी मण्डी, उकलाना मण्डी (हिसार)
72830	ममता सिंह डी. सी. चुग	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20195 03.08.99	92, रामनगर, कालोनी, बी.टी.एम. रोड, भिवानी।

1	2	3	4	5
72831	मनदीप सिंह बरबू सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.बि.वि., रोहतक 1996	20314 08.07.98	म. नं. 179, वार्ड नं. 13, टोहाना (फतेहाबाद)।
72832	मंगत राय अरोड़ा पीयारे लाल	आयुर्वेद शिषक आल इण्डिया आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1962	20474 06.05.99	गगनेजा हास्पीटल, रोरी बाजार, सुभाष चौक, सिरसा।
72833	मनीष जुनेजा बलदेव जुनेजा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.बि.वि., रोहतक 1995	20313 08.07.98	अतुल क्लीनिक, एस.जे.के. रोड, कालनूर, रोहतक।
72834	मनीष शर्मा सम्पत राम शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.बि.वि., रोहतक 1996	20302 02.07.98	139/1, भीमगढ़ केहरी, गुड़गांव।
72835	मनीषा सुरेश कुमार गोयल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.बि.वि., रोहतक 1994	20190 24.11.97	पटयालयान चौक, मुस्तफाबाद, जिला यमुना नगर।
72836	मनीषा बेसल ए. के. बंसल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.बि.वि., रोहतक 1996	20297 24.06.98	4, पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी, गोहाना रोड, रोहतक।
72837	मंजु इन्दर पाल भाटिया	बी.ए.एम.एस. एम.डी.बि.वि., रोहतक 1996	20328 23.07.98	188/24, शिक्षा भारती विद्यालय के पास, राम नगर, रोहतक।
72838	मनोज कुमार तारासिंह गोयल	बी.ए.एम.एस. का.सि.द.मं.वि.वि., दरभंगा 1994	20174 20.08.97	गोयल हास्पीटल, जहानज गेट, जीन्द।
72839	मनोज कुमार राठी राज सिंह राठी	बी.ए.एम.एस. एम.डी.बि.वि., रोहतक 1996	20254 21.04.98	1780/5, ज्योति नगर, निरंकारी सतसंग भवन के पीछे, कुरुक्षेत्र।
72840	मनोज कुमार टक्कर नन्द लाल टक्कर	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1992	20479 02.06.99	31, फ्रैन्ड्स कालोनी, हिसार।
72841	मनोज यादव धनराज	बी.ए.एम.एस. एम.डी.बि.वि., रोहतक 1996	20387 24.12.98	ग्राम गीन्दोखार, पो.आ. बोदिया, कमलपुर (रीवाड़ी)।
72842	मनवीर सिंह अवतार सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.बि.वि., रोहतक 1997	20489 18.06.99	बी-917, बांसों गेट, करनाल।
72843	मीना सैनी राजीव सैनी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र एम.डी.बि.वि., कुरुक्षेत्र 1995	20147 17.06.97	1357, हरणो लाल चांदरोड, अम्बाला कैन्ट।
72844	मीना शर्मा संदीप शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.बि.वि., रोहतक 1997	20173 20.08.97	मार्फत श्री बी.बी. कालिया, 116/ए, रेलवे कालोनी, हिसार।

1	2	3	4	5
72845	मीनाक्षी आंचल सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20503 16.07.99	ग्राम व पो.आ. भाना (कैथल)।
72846	मीनाक्षी अरोड़ा केवल कृष्ण अरोड़ा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20192 24.11.97	मकान नं. 47-बी, माडल टउन, फतेहाबाद।
72847	मीनाक्षी भाटिया देवकी नन्दन भाटिया	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20321 16.07.98	मकान नं. 57-बी, वार्ड नं. 4/11, देहना (फतेहाबाद)।
72848	मीनाक्षी गुप्ता ओमप्रकाश गुप्ता	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20288 21.05.98	मकान नं. 24, महेश नगर, भगवती मन्दिर के पीछे, अम्बाला कैन्ट।
72849	मीनाक्षी मेहता ज्ञान चन्द मेहता	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1994	20394 14.04.99	मकान नं. 319-20, हाउसिंग बोर्ड, कालोनी, भिवानी।
72850	मीनाक्षी शर्मा प्रेमचन्द शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20357 11.09.98	मकान नं. 269, सैक्टर-13, कुरुक्षेत्र।
72851	मीनू सुरेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20139 09.06.97	बारा पाना, कलानौर (रोहतक)।
72852	मीनू जग्गा सुनील जग्गा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20193 24.11.97	मकान नं. 836/23, डी.एल.एफ. कालोनी, रोहतक।
72853	मीनाल चावला मोहिन्द्र सिंह चावला	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1995	20322 21.07.98	128, सैक्टर-13, यू.ई., करनाल।
72854	मोना आनन्द मनोहर कुमार आनन्द	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20276 12.05.98	मकान नं. 2024/18, गली नं. 5, रामपुरा मोहल्ला, हिसार।
72855	मोनिका जगत सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20131 12.05.97	325, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, जीन्द।
72856	मोनिका आर.एन. मिगलानी	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20144 11.06.97	637, सैक्टर-11, पंचकूला, जीन्द।
72857	मोनिका चरण सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20168 01.08.97	1188/21, प्रेमनगर, रोहतक।
72858	मोनिका गोयल विद्यारत्न गोयल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20493 18.06.99	4550, सब्जी मंडी, अम्बाला कैन्ट।

1	2	3	4	5
72859	मुकेश गोयल राजेश गोयल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20142 11.06.97	गोयल क्लीनिक, चौराहा बाजार, सिटी पुलिस स्टेशन के नजदीक करनाल।
72860	मुकेश कुमारी अग्रवाल हरि कृष्ण	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20381 25.11.98	मैन बाजार, घरौण्डा (करनाल)।
72861	मुकेश कुमार जयपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20481 02.06.99	891/7, न्यू कार्ट रोड, अनिल बिहार, सोनीपत।
72862	मुकेश कुमार प्रहलाद सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20505 16.07.99	मोहल्ला मार्क शहीद, वार्ड नं. 7, नजदीक नालापार, नारनौल (महेन्द्रगढ़)।
72863	मुनीष सचदेवा बी. पी. सचदेवा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20286 21.05.98	1091, सैक्टर-7, फेस-22, कुरुक्षेत्र।
72864	नन्द किशोर रामदेव	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20135 29.05.97	ग्राम व पो.आ. दाहिना (रिवाड़ी)।
72865	नरेन्द्र कौर जोगिन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20160 16.07.97	मकान नं. 2180/2, समीप जगाधरी गेट, अम्बाला शहर।
72866	नरेन्द्र कुमार मांगे राम	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं.वि.वि., दरभंगा 1995	20498 23.06.99	श्री विष्णु आयुर्वेदिक औषधालय, उकलाना मण्डी, (हिसार)।
72867	नरेश कुमार योगिन्द्र नाथ	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1994	20138 09.06.97	69, सैनदास कालोनी, रोहतक।
72868	नरेश कुमार नथुराम	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1994	20178 20.06.97	मस्जिद मोहल्ला, मेन बाजार, बहादुरगढ़ (झज्जर)।
72869	नरेश कुमार राज सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20200 24.02.97	ग्राम कल्लुपुर, पो. आ. नाहरी, तह. खरखोदा, (सोनीपत)।
72870	नरेश कुमार सूर्यकान्त भारद्वाज	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20257 21.04.98	नजदीक बैंक आफ इण्डिया, तिगांव, (फरीदाबाद)।
72871	नीलम बाला रामा नन्द	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1995	20213 18.02.98	गांव रामपुरा, पो. आ. हुडीना, (महेन्द्रगढ़)।
72872	नीलम कोलोनिया कालोनिया	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20431 08.03.99	धिकारा रोड, चरखी दादरी, (भिवानी)।



1	2	3	4	5
72873	नीरज राठी नफे सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20350 26.08.98	भारत हास्पीटल, झज्जर रोड, सांपला (रोहतक)।
72874	नीरज सिंगल अशोक सिंगल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20232 18.02.98	1116/3, चौक दर्जीयान, अम्बाला शहर।
72875	नीरू मनचन्दा दिनेश मनचन्दा	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चण्डीगढ़ 1995	20531 24.09.99	ग्राम व पो.आ. लखनमाजरा, रोहतक।
72876	निधी अग्रवाल जीतेन्द्र अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1992	20279 19.05.98	1474, सैक्टर-15, पंचकुला।
72877	निधी बंसल आर. के. बंसल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20445 17.03.99	28/6, जैकबपुरा, गुड़गांव।
72878	निधी गुप्ता राजीव गुप्ता	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20468 16.04.99	867, सैक्टर-16, पंचकुला।
72879	निशा अग्रवाल क्षितिज अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. पंजाब वि.वि., चण्डीगढ़ 1993	20530 24.09.99	सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के सामने, अग्रवाल हास्पीटल, मैन रोड, सीबानी, (भिवानी)।
72880	निशा जावा पूर्ण सिंह जावा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20379 20.11.98	166, हाउसिंग बोर्ड, भिवानी।
72881	नितिन रोहिल्ला पी.सी. रोहिल्ला	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20410 23.02.99	6, दा माल, करनाल।
72882	ओमप्रकाश साहू नेतराम साहू	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20249 26.03.98	ग्राम व पो.आ. उजीना, तह. नूह, गुड़गांव।
72883	ओमशंकर महेन्द्र प्रकाश शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20278 12.05.98	120/8, सिटी पोस्ट आफिस के नजदीक, कैथल।
72884	पंकज कुमार तनेजा लक्ष्मण दास	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20484 03.06.99	मकान नं. 35/8, एन.सी. पलवल, (फरीदाबाद)।
72885	पंकज पवार धर्मपाल सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20470 30.05.99	मकान नं. 15, टुंडाहेडा, (गुड़गांव) नजदीक, कैथल।
72886	पंकन असीजा आर.पी. असीजा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20327 22.07.98	असीजा हास्पीटल, डोगरान, मोहल्ला-हिसार।

1	2	3	4	5
72887	परमजीत कौर भूपेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. पंजाब स्टेट फैकल्टी ऑफ ए.यू.एस.एम., चण्डीगढ़ 1992	20549 21.12.99	सिद्ध हास्पिटल एवं मेडरिनिटी होम डाक्टर मार्केट, कलावाल, सिरसा।
72888	परमजीत कौर ज्ञान सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1995	20170 20.08.97	अम्बाला रोड, पहवा (कुरुक्षेत्र)।
72889	प्रदीप कुमार हंस राज बसारवाडिया	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20496 23.06.99	गांव-खानपुर, पो.-मान्दहाना, तह. नारनौल (महेन्द्रगढ़)।
72890	प्रदीप कुमार धर्मपाल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20366 29.07.98	गांव व पो.आ.-हरोदा कलां, तह.- दादरी, (भिवानी)।
72891	प्रदीप कुमार कश्मीरी लाल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20383 16.12.98	ग्राम व पो.आ.-शादीपुर, (यमुनानगर)।
72892	परेरना जुनेजा पी.एस. मेहता	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20491 18.06.99	70, ग्रीन पार्क, हिसार।
72893	प्रतीभा अशोक कुमार बत्रा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1994	20365 29.09.98	214-आर-माडल बउन, रिवाड़ी।
72894	प्रमोद कुमार यादव	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20456 12.04.99	मकान नं. 459, वार्ड नं. 15, सोनीपुरा, रोहतक।
72895	प्रमोद कुमार रोहिल्ला श्यामलाल रोहिल्ला	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20407 23.02.99	गली नं. 2, पोस्तीवाड़ा नगर, मेहलावा रोड, सोनीपत।
72896	प्रणीता जून के.एस. जून	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1992	20360 15.09.98	793/35, जनता कॉलोनी, रोहतक।
72897	प्रवीण गोयल ईश्वर चन्द गोयल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20532 05.10.99	मार्फत-शोक कांगला, शिवालिक साईनटिफिक स्टोर, 100 फीट रोड, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)।
72898	प्रवीण कुमारी ओमप्रकाश मेहता	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20172 20.08.97	134, पटेल नगर, हिसार।
72899	पूनम बलबीर सिंह अंटिल	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20475 24.05.99	मकान नं. 26/193, आर्यनगर, सोनीपत।
72900	पूनम आर्य रमेश कुमार आर्य	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20250 01.04.98	आर्य पोलियो लव्वाक्लीनिक, गांधीनगर, कालोनी, हांसी (हिसार)।

1	2	3	4	5
72901	पूनम असीजा राजेश असीजा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1994	20113 09.04.97	असीजा हास्पिटल, बैण्ड गेट, शिवचौक के नजदीक, सिरसा।
72902	पूनम गासो रविन्द्र गासो	बी.ए.एम.एस. पंजाबी वि.वि., पटियाला 1993	20550 21.12.99	510/8, गीता कालोनी, कुरुक्षेत्र।
72903	पूनम शर्मा सुरेन्द्र कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20274 12.05.98	बाबा मेटरनीटी हास्पिटल, नीलोखेड़ी, (करनाल)।
72904	पूनम शर्मा भीम सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20462 12.04.99	मार्फत डा. नागरमल हास्पिटल, मण्डी आदमपुर (हिसार)।
72905	पूनम टूण्डवाल एन. आर. दहिया	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20517 31.08.99	मकान नं. 3020, न्यू हाउसिंग बोर्ड, कालोनी, सैक्टर-13, भिवानी।
72906	प्रीति कानूनगो शिरिश कानूनगो	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20370 23.10.98	396, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, रोहतक।
72907	प्रीति रानी बच्चन सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20424 8.3.99	503/13, अरबन स्टेट, कुरुक्षेत्र।
72908	प्रीति भाटिया नीरज भाटिया	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1994	20480 02.06.99	516, सैक्टर-22, फरीदाबाद।
72909	प्रीति शर्मा ऋषिराम शर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20224 18.02.98	माडल टउन, नरवाना (जीन्द)।
72910	प्रिया दर्शी इन्दर सिंह शास्त्री	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20435 09.03.90	मकान नं. 500/25, लक्ष्मीनगर, रोहतक रोड, जीन्द।
72911	पोमिला छाबड़ा गोपाल छाबड़ा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	318 15.07.98	407, सैक्टर-12, पंचकूला।
72912	पूर्णमा चोपड़ा देवेन्द्र कुमार चोपड़ा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20318 15.7.98	68-सी, अजीत नगर, अम्बाला कैन्ट।
72913	पुष्पा यादव हुक्म चन्द यादव	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1994	20141 11.06.97	यादव हास्पिटल, रालीवास, (रिवाड़ी)।
72914	रचना अत्रीजा राजेन्द्र अत्रीजा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1994	20117 11.04.97	बी-123, माडल टउन, करनाल।

1	2	3	4	5
72915	राज बाला बी. आर. शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1994	20122 01.05.97	2789, सैक्टर-3, फरीदाबाद।
72916	राज बाला महावीर सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1995	20163 24.7.97	मकान नं. 4, साकेत कालोनी, हिसार।
72917	राजीव गिरधर जगदीश लाल गिरधर	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1997	20512 17.08.99	13/150, धर्मपुरा, नजफगढ़ रोड, बहादुरगढ़ (झज्जर)।
72918	राजेश कुमार हर दयाल सरदाना	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20458 12.04.99	मकान नं. 213, गवर्नमेंट हाई स्कूल के समीप, पटेल नगर, हिसार।
72919	राजेश कुमार अनन्त राम	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1995	20204 13.01.98	मकान नं. 111, सैक्टर-4, यू.ई. गुड़गांव।
72920	राजेश कुमार मांगेराम	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20315 15.07.98	गांव एवं पो. आ.-गांधरा (रोहतक)।
72921	राजेश कुमार सचदेवा भगवान दास	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20126 01.05.97	615/9, पानीपत।
72922	राजेश कुमार सैनी दलसिंह सैनी	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20333 30.07.98	83-डी/14, कृपाल नगर, (रोहतक)।
72923	राजेन्द्र प्रसाद लाल सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1990	20215 18.02.98	सेतिया नर्सिंग होम, पटेल नगर, हिसार।
72924	राजीव बिश्नोई श्याम लाल बिश्नोई	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20128 01.05.97	मकान नं. 615, सैक्टर-8, पंचकूला।
72925	राजीव कुमार गुप्ता नौरता राम	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20111 03.04.97	92/5, गांधी नगर, जीन्द शहर।
72926	राजीव कुमार शर्मा महेश चन्द	बी.ए.एम.एस. एम.डी.वि.वि., रोहतक 1996	20127 01.05.97	भगवतस्वरूप क्लीनिक, पालिका बाजार के सामने जीन्द।
72927	रजनीश ईश्वर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20478 24.05.99	मकान नं. 424, हिन्दू छात्र कालेज के पीछे, सोनीपत।
72928	रजनीश सतपाल चीपा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20231 18.02.98	1/2, जी.एम.टी. कालोनी, टेलीफोन एक्सचेंज के समीप, अम्बाला कैन्ट।

1	2	3	4	5
72929	रजनो गुप्ता प्रमोद कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1991	20266 30.04.98	गुप्ता नर्सिंग होम, रामगढ़ (पंचकूला)।
72930	राजू भाटिया जी.बी. भाटिया	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20303 02.07.98	1ए/135, एन.आई.टी., फरीदाबाद।
72931	राकेश कुमार इन्दर सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20244 26.03.98	62/13, हनुमान कालोनी, गोहाना रोड, रोहतक।
72932	राखी सोनी एन.पी. सोनी	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20375 10.11.98	1141/23, डी.एल.एफ. कालोनी, रोहतक।
72933	राम अवतार जलोदिया राम किशन जलोदिया	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1997	20521 09.09.99	आर.एस.डी. नर्सिंग होम, बहल, (भिवानी)।
72934	राम अवतार पराशर जय नारायण पराशर	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20241 26.03.98	गांव-बडखालसा, पो.आ.-राई, (सोनीपत)।
72935	राम अवतार शर्मा सालिगराम शर्मा	आयुर्वेद भिषक नि.भा.आयु.विद्यापीठ, दिल्ली	20150 01.07.97	मैन बाजार, फर्रुख नगर, (गुडगांव)।
72936	राम अवतार सिंह बलवन्त सिंह	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं.वि.वि., दरभंगा 1994	20185 06.10.97	गांव व पो.आ.-बसई, पो.आ. -गढ़ी, बोलनी (रेवाड़ी)।
72937	रमन मल्होत्रा आर.सी. मल्होत्रा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20433 09.03.99	मकान नं. 1026, सैक्टर-9 फरीदाबाद।
72938	रमेश कुमार रतीराम	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20260 21.04.98	गांव एवं पो.आ.-बरणा (कुरुक्षेत्र)।
72939	रमेश कुमार सैनी रघबीरशरण	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20194 02.12.97	गांव व डाकखाना-धारसो, तह. नारनौल, (महेन्द्रगढ़)।
72940	रणजीत कुमार शुक्ला जगदीश लाल शुक्ला	वैद्याचार्य आल इण्डिया आयु. विद्यापीठ, दिल्ली 1982	20343 11.08.98	आर.एस.क्लीनिक, ओल्ड डी.सी. रोड, जीवन नगर, सोनीपत।
72941	रंजु बंसल मनोज गोयल	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20395 14.1.99	मकान नं. 250, सैक्टर-18, पंचकूला।
72942	रशि जैन सुरेश कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20238 26.03.98	मकान नं. 237, गली नं. 4, अग्रसैन कालोनी, सिरसा।

1	2	3	4	5
72943	रश्मि अरोड़ा महेन्द्र कुमार अरोड़ा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1994	20154 03.07.97	966/25, चीनोट कालोनी, रोहतक।
72944	रश्मि शर्मा एस.सी. शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1995	20298 24.06.98	मकान नं. 136, विजय नगर, भिवानी।
72945	रवि गोगिया जयदयाल गोगिया	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1994	20130 12.05.97	308/4, रामनगर, गुड़गांव।
72946	रविकान्त धर्मपाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1997	20529 24.09.99	818, सैक्टर-7, यू.ई.-अम्बाला शहर।
72947	रविन्द्र कौर त्रिलोचन सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20466 12.04.99	मकान नं. 10-बी, कैलाश नगर, माहल टाउन, अम्बाला शहर।
72948	रविन्द्र कुमार रतन लाल जैन	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1994	20158 09.07.97	गांव ब पो.आ.-धारुहेड़ा (रिवाड़ी)
72949	रविन्द्र शर्मा जगदीश शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20256 21.04.98	765/22, झंग कालोनी, रोहतक।
72950	रविन्द्र सिंह बिशन सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1995	20284 21.05.98	मकान नं. 524, आगरा चौक, जी.टी. रोड, फ़तवल, (फरीदाबाद)।
72951	रीना रानी रमेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1995	20187 24.11.97	मकान नं. 261, सिविल लाईन्स, गुड़गांव।
72952	रीना साधना रतन लाल साधना	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20281 20.05.98	मकान नं. 557/3, पानीपात
72953	रेखा जुनेजा प्रमोद जुनेजा	बी.ए.एम.एस. जी.डी. वि.वि., अमृतसर 1995	20151 01.07.97	क्रास रोड, नं. 11, कच्चा बाजार, अम्बाला कैन्ट।
72954	रेखा लूथरा वासुदेव लूथरा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20269 12.05.98	916, इन्दिरा नगर, कालोनी, देहरादून, (उ. प्र.)।
72955	रेखा रानी स्वर्ण सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20305 02.07.98	रेलवे रोड, बहादुरगढ़ (झज्जर)।
72956	रेखा शर्मा रामस्नेही शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1997	20510 29.07.99	37-ब, राजाचौक, अम्बाला कैन्ट।

1	2	3	4	5
72957	रेनू पी.पी. अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20378 20.11.98	ओलम्पिक स्पोर्ट्स, इनसाईड नागौरी गेट, हिसार।
72958	रेनू बाला शशि भूषण मदान	बी.ए.एम.एस. पंजाबी वि.वि., पटियाला 1990	20214 18.02.98	संजीवनी अस्पताल, हंसी रोड चौक करनाल।
72959	रेनू शर्मा रघबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1994	20205 13.1.98	मकान नं. 13/23, मोह. माजिद, मैन बाजार, बहादुरगढ़, (झज्जर)।
72960	रिधि सिंगला अरवनी सिंगला	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1995	20181 11.9.97	8862/5, रेलवे राड, अम्बाला सिटी।
72961	ऋषि ठुकराल डी. एन. ठुकराल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20413 25.02.99	104/13, जगदीश कालानी, झांसी (हिसार)।
72962	रितू बिन्दलिश आर. पी. बिन्दलिश	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20294 15.6.98	200, दिफेंस कालोनी हिसार।
72963	रितू भण्डारी जी. के. भण्डारी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20252 21.4.98	म. नं. 40, कांशी नगर, माडल टाउन, अम्बाला सिटी।
72964	राहित कुमार रूप राम	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1995	20183 6.10.97	सरस्वती कालोनी, सामने मिनी जू, पिपली (कुरुक्षेत्र)।
72965	रोहताश लक्ष्मण दास	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1997	20507 16.7.99	मार्फत सिंह अस्पताल, दोहाना रोड, रत्तिया (फतेहाबाद)।
72966	रूबि शर्मा हेमन्त अग्निहोत्री	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20262 23.4.98	म. नं. 701, सेक्टर 9, यू. ई., अम्बाला सिटी।
72967	रूबि एस. वर्मा सतेन्द्र वर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1997	20492 18.6.99	म. नं. 107, अभयपुर, औद्योगिक क्षेत्र, फेस.-I, पंचकूला।
72968	रूचि शुक्ला लक्ष्मी कान्त शुक्ला	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20416 26.2.99	म. नं. 984, सेक्टर 16, फरीदाबाद।
72969	रूचिका बत्रा एम. एम. बत्रा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20412 25.2.99	म. नं. 1126, सेक्टर 10, पंचकूला।
72970	रूचिका मल्होत्रा कुलदीप मल्होत्रा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20316 15.7.98	कोठी नं. 518, यू.ई. 11, हिसार।

1	2	3	4	5
72971	रुचिता श्रीकृष्ण शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक	20120 11.04.97 1995	ऋषिकुल विद्यापीठ, नजदीक पंचायत भवन, सोनीपत।
72972	रूप लाल लीला राम	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक	20208 19.1.98 1995	ग्राम दुडैला, पो.आ. बाघौला, तह. पलवल, फरीदाबाद।
72973	रूपाली मेहतानी रूपन मेहतानी	बी.ए.एम.एस. गु. दे. वि.वि., अमृतसर	20508 29.7.99 1997	दिल्ली नर्सिंग होम, जी.टी रोड, फतेहाबाद।
72974	रूपिन्द्र कुमार हवा सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र	20230 18.2.98 1996	म. नं. 112, बसन्त विहार, करनाल।
72975	साहिबजीत सिंह जे. एस. अरोड़ा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र	20420 8.3.99 1997	45, बैंक कालोनी, दी माल करनाल।
72976	समीर मदान चन्द्रभान मदान	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र	20171 20.8.97 1995	गली नं. 6, शान्ती नगर, सामने द्वितीय गेट, कुरुक्षेत्र।
72977	संदीप गुप्ता एस. सी. गुप्ता	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र	20243 26.3.98 1996	म. नं. 564 सेक्टर 13, यू. ई. कुरुक्षेत्र।
72978	संदीप मलिक करण सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक	20477 24.5.99 1996	1525/31, कमला नगर, रोहतक।
72979	संदीप तोखी प्रकाश तोखी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक	20206 13.01.98 1995	कोठी नं. 46, सेक्टर 8, पंचकुला।
72980	संदीप चटर्जी एस. चटर्जी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक	20392 14.1.99 1995	11/125, न्यू कैम्पस, एच. ए. यू. हिसार।
72981	संगीता राजीव ममरन्द	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक	20116 11.4.97 1994	927/2, चार्ज नं. 6, कप्यान चौक, रोहतक।
72982	संगीता जिन्दल सुनील जिन्दल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक	20309 2.7.98 1996	626/13, यू. डी., कुरुक्षेत्र।
72983	संगीता कौशिक राकेश शर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक	20145 12.6.97 1994	जीवन अस्पताल, सामने गर्ल्स स्कूल, लखवल, रेवाड़ी।
72984	संगीता खुराना एस. के. खुराना	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक	20132 13.5.97 1995	11बी/34, ओल्ड कैम्पस, एच.ए.यू. हिसार।



1	2	3	4	5
72985	संजय सोमनाथ	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1995	20118 11.4.97	27/9, योग नगर, ठंडी सड़क, हिसार।
72986	संजय राधे शाम	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20524 24.09.99	नजदीक हाफेड रोड, रेलवे रोड, महेन्द्रगढ़।
72987	संजय राजपाल डी. एन. राजपाल	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20341 10.08.98	1011/13, महावीर कालोनी, संगीत सिनेमा के पीछे, पानीपत।
72988	संजय कलोनिया राज सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20236 26.03.98	धीकारा रोड, नजदीक कलोनिया फनीचर हाऊस, चरखी दादरी (भिवानी)।
72989	संजय कुमार जगदीश प्रसाद	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20342 11.08.98	779/4, यू. ई., गुड़गांव।
72990	संजय कुमार अनन्त राम	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20418 26.02.99	ग्राम एवं पो. आ. बियाना, वाया इन्दरी (करनाल)।
72991	संजय कुमार जगदीश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1997	20434 9.3.99	अजय निवास, तिगराना, (भिवानी)।
72992	संजय कुमार राजे राम	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1997	20457 12.4.99	ग्राम एवं पो. आ. तिगराना, (भिवानी)।
72993	संजय कुमार सुन्दर दास	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1997	20467 12.4.99	256/28, गली नं. 6, ज्योति पार्क (गुड़गांव)।
72994	संजय नागपाल शाम लाल नागपाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1995	20115 11.4.97	दीपक क्लीनिक, नया बाजार, नजदीक मोहन सिनेमा, थानेसर (कुरुक्षेत्र)।
72995	संजय सेवाल राम कृष्ण	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1997	20460 12.4.99	120-ए, स्कीम-नं. 19, जीन्द।
72996	संजय यादव मोहर सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1995	20153 27.6.97	ग्राम एवं पो. आ. मन्थाना, तह. नारनौल, (महेन्द्रगढ़)।
72997	संजीव नवनीत राय	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1997	20535 18.10.99	635/13, मुल्तानी चौक, हिसार।
72998	संजीव गुलियानी आर. डी. गुलियानी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1997	20501 16.7.99	3 एच.बी. 1, राम नगर, नजदीक जगाधरी गेट, अम्बाला सिटी।

1	2	3	4	5
72999	संजीव गुप्ता राम रतन गुप्ता	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1995	20191 24.11.97	सी-3-966, मोहल्ला बहल ग़रान जगाधरी गेट, (यमुना नगर)।
73000	संजीव कुमार सुरेश सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20324 21.7.98	363-ए, देव नगर, रोहतक।
73001	संजीव कुमार बृज लाल चावला	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1998	20472 3.5.99	कैथल रोड, करनाल।
73002	संजीव वर्मा विश्व पाल वर्मा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20353 2.9.98	170/9, बाबरा मोहल्ला, खारी कुई, रोहतक।
73003	सन्तवना शर्मा शिव कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20248 26.3.98	ग्राम एवं पो.आ. थम्बर (अम्बाला)।
73004	सपना सेतिया सुरेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20169 1.8.97	सेतिया नर्सिंग होम, पुराना अड्डा, गोहाना (सोनीपत)।
73005	सरिता पुष्कर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20446 17.3.99	261, शिव कालोनी, नजदीक रेलवे क्लब, रेवाड़ी।
73006	सरिता जून जितेन्द्र सिंह जून	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20396 14.1.99	मार्फत श्रीमति सुशीला दहिया, आर्य कन्या सीनियर सेक्रेण्डरी स्कूल, सिरसा।
73007	सरोज सुरेश सिंगरोडा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20308 2.7.98	283, सैक्टर 30, फरीदाबाद।
73008	सरोज बाला सतीश कुमार	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20268 8.5.98	ग्राम बिरथा बेरी, पो.आ. बीर बंगरा (कैथल)।
73009	सरोज मेहरा भूप सिंह मेहरा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20338 4.8.98	1954, सैक्टर 16, फरीदाबाद।
73010	सर्वेश गौतम विष्णु दत्त गौतम	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20255 21.4.98	101, सुभाष नगर, रोहतक।
73011	सतीश कुमार चांद रूप	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1994	20136 29.5.97	1/55, पटेल पार्क, बहादुरगढ़, (झज्जर)।
73012	सतीश कुमार बनवारी लाल	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20277 12.5.98	ग्राम एवं पो.आ.मुन्डा हेरा (झज्जर)।

1	2	3	4	5
73013	सतीश कुमार जगन नाथ मल्होत्रा	बी.ए.एम.एस. क.सि.द.स. वि.वि., दरभंगा 1996	20405 15.2.99	रोरी बाजार सिरसा।
73014	सत्य प्रकाश गुप्ता भगवत सरूप	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20246 26.3.98	गली गोकल चन्द, आर्य वीरवान पाना, भिवानी।
73015	सत्य वीर जिले सिंह	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20164 24.7.97	ग्राम एवं पो.आ. भारन, तह. महम (रोहतक)।
73016	सत्यवीर लालजी राम	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20271 12.5.98	ग्राम टालोत, पो.आ. बशीरपुर, तह. नारनौल (महेन्द्रगढ़)।
73017	सत्यपाल सिंह रतन सिंह चौधरी	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20216 18.2.98	म. नं. 1556/13, यू.ई. कुरुक्षेत्र।
73018	सविता गुप्ता उमा शंकर	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1987	20123 1.5.97	37, अहलुवालिया बिल्डिंग, अम्बाला छावनी।
73019	सविता कादियान एच. आर. कादियान	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20275 12.5.98	मकान नं. 62, आदर्श नगर, नजदीक सेक्टर 14, सोनीपत।
73020	सीमा बक्शी के.डी. बक्शी	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1995	20280 19.5.98	30-ए, दुर्गा नगर, अम्बाला छावनी।
73021	सीमा भाटिया सुभाष चन्द भाटिया	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20307 2.7.98	1ई/75, एन.आई.टी. फरीदाबाद।
73022	सीमा झम्ब आम प्रकाश झम्ब	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20427 8.3.99	576/6, पटेल नगर, नई कालोनी, कुरुक्षेत्र।
73023	सीमा रानी चन्द्रभान	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20399 4.2.99	376, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, भिवानी।
73024	सीमा तनेजा महेश कुमार तनेजा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20221 18.2.98	225, सेक्टर 23, एन.आई.टी. फरीदाबाद।
73025	सेवावती रोहित कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1995	20196 2.2.97	सामने जू, सरस्वती कालोनी, पिपली (कुरुक्षेत्र)।
73026	शालिनी एच.एल. झम्ब	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1996	20291 3.6.98	173, सेक्टर 13, हिसार।

1	2	3	4	5
73027	शालिनी संजय चावला	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1989	20325 21.7.98	9/18, अशोक नगर, कमेटी प्लाट, सोनीपत।
73028	शालिनी छाबड़ा संदीप छाबड़ा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20317 15.7.98	छाबड़ा क्लीनिक, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र।
73029	शालिनी रेहसलन देशराज मनोचा	बी.ए.एम.एस. म.द. वि.वि., रोहतक 1995	20385 16.12.98	गौशाला बाजार, थानेसर (कुरुक्षेत्र)।
73030	शशि बाला रघुबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1995	20351 26.08.98	शिवकालोनी, महेन्द्रगढ़ रोड, नजदीक पोद्दार नारनौल, (महेन्द्रगढ़)।
73031	स्वेता शर्मा अजय शर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20476 24.05.99	1डी/25, एन.आई.टी., फरीदाबाद।
73032	शीतल गांधी हरीश चन्द गांधी	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1995	20119 11.04.97	मकान नं.1333, बी.एस.टी. रोड, गन्नौर (सोनीपत)।
73033	शिपरा बंसल सुधीर बंसल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20534 08.10.99	140, सैक्टर-13, हिसार।
73034	शिव कुमार हरफूल सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20523 09.09.99	887/11, गोविन्द कालोनी, कैथल।
73035	शिवानी विनोद गुप्ता	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20332 28.07.98	म. नं. 582, सैक्टर-10, पंचकुला।
73036	शिवानी गर्ग ए. के. गर्ग	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20406 23.02.99	693, बार स्ट्रीट, शिवानी।
73037	स्नेह सहगल विनोद कुमार सहगल	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1995	20197 12.02.97	438, सैक्टर-22, एच.बी.सी. फरीदाबाद।
73038	सोनल रणवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20499 16.07.99	राजमल हॉस्पिटल, मिशन रोड, सोनीपत।
73039	सोनल आनन्द आई. पी. अरोड़ा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1997	20494 23.06.99	13-एफ, न्यू माडल कालोनी, अम्बाला शहर।
73040	सुभाष चन्द्र राम चन्द्र	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि., दरभंगा 1994	20175 20.08.97	नजदीक एच.एस.ई.बी., जींद।

1	2	3	4	5
73041	सुभाष चौहान देव करण चौहान	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20345 12.08.98	मोहल्ला-फराशखाना, नारनौल, (महेन्द्रगढ़)।
73042	सुभाष ठक्कर रामलाल ठक्कर	जी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1981	20167 01.08.97	768/9, केवलगंज, रोहतक।
73043	सुभाष बोहरा गंगा राम	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1994	20371 30.10.98	22, नई अनाज मण्डी, भिवानी।
73044	सुधा मनोचा उदय भान मनोचा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20293 17.06.98	2404, सैक्टर-7ए, फरीदाबाद।
73045	सुधीर कुमार दलीप सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1995	20235 26.03.97	62, एम.सी. कालोनी, चरखी दादरी, (भिवानी)।
73046	सुख महेन्द्र सिंह प्रभुदयाल	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20207 14.01.98	गांव व पो.आ. हरोदाकलां, भिवानी।
73047	सुमन बाला बृज मोहन सेतिया	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20390 14.1.99	2/4, संचार कुंज, टेलीफोन कालोनी, डिफेंस कालोनी, हिसार।
73048	सुमन देवी कुलविन्दर कुमार	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1995	20133 13.5.97	गांव छुक्कनवास, पो. आ.- मातनहेल, (झज्जर)।
73049	सुमन कुमारी चन्देल ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1997	20520 31.8.99	117-बी, एडजोनिंग कैपिटल सिनेमा, अम्बाला कैन्ट।
73050	सुमनलता धूप सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1994	20129 12.5.97	692/23, डी. एल. एफ. कालोनी, रोहतक।
73051	सुमन ब्रदान जी. डी. मदान	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20306 02.07.98	मकान नं. 1, गवर्नमेंट क्वाटर्स, सैक्टर-7ए, फरीदाबाद।
73052	सुमन रानी सुरेश कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20430 08.03.99	गांव व पो.आ.-रम्भा, (करनाल)।
73053	सुमित्रा अजय कुमार	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1995	20152 27.06.97	धनखार हास्पिटल, नजदीक बेरी बस स्टैंड, झज्जर।
73054	सुनेना शर्मा नरोत्तम मीर	बी.ए.एम.एस. गु. दे. वि. वि., अमृतसर 1986	20270 12.05.98	नजदीक हास्पिटल, माजरी अड्डा के सामने, पुरानी पुलिया, इन्द्री (करनाल)।

1	2	3	4	5
73055	सुनन्दा भारद्वाज डी. के. भारद्वाज	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1996	20283 21.05.98	सी. एच. सी., खरखोदा (सोनीपत)।
73056	सुन्दर सिंह बीर सिंह सिवाच	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1991	20203 31.12.97	69, सिवाच हास्पिटल, भादू मण्डी, फतेहाबाद।
73057	सुनील जंगरा ओम प्रकाश	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1995	20134 29.5.97	मार्फत मैसर्स वेद प्रकाश विजय- कुमार, काठ मण्डी, चरखी दादरी, (भिवानी)।
73058	सुनील कुमार आनन्द सरूप	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1906	20251 16.04.98	मकान नं. 170/34, विश्वकर्मा नगर, रोहतक।
73059	सुनील कुमार ज्ञान चन्द	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1997	20504 16.07.99	155/12, धूसघाटी, करनाल।
73060	सुनीता कथूरिया कश्मीरी लाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20363 20.9.98	2/2, देवीपुरा, फार्मास्यूटीकल्स, गोहाना (सोनीपत)।
73061	सुनीता शर्मा जय भगवान शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1996	20285 21.05.98	11-बी, ईसमालिया (रोहतक)।
73062	सुनीता सिंगला धर्मचन्द जैन	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1994	20522 09.09.99	नजदीक जय बजरंग धर्मकांठ, सोहना रोड, बल्लभगढ़ फरीदाबाद।
73063	सुरेन्द्र कुमार सरदाना चन्दन सिंह	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1997	20485 03.06.99	गांव ईस्माइलपुर, पो. आ.- मुंडाखेड़ा, तह. बादली, (झज्जर)।
73064	सुरेन्द्र शर्मा देवीराम शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1995	20184 06.10.97	सुभाषनगर, नजदीक डी.सी. रेजिडेन्स झज्जर।
73065	सुरेन्द्र कुमार दुग्गल चन्दन सिंह	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1997	20359 15.09.98	701/10, गऊकरण रोड, शौरा- कोठी, रोहतक।
73066	सुरेश मलिक बीर सिंह	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1997	20548 20.12.99	गांव व पो.आ. शामलीकलां, जींद।
73067	सुरेन्द्र कुमार चन्द्र भान शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1996	20367 13.10.97	109, विकास नगर, भिवानी।
73068	सुरेन्द्र सिंह बलवान सिंह	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1993	20347 26.08.99	गांव व पो. आ. बीर धाना, झज्जर।

1	2	3	4	5
73069	सुशील आर्य बी. बी. शास्त्री	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1997	20440 16.03.99	319/34, जनता कालोनी, रोहतक।
73070	सुशील कौशिक केशव दत्त कौशिक	बी.ए.एम.एस. शिवाजी वि. वि., कोल्हापुर 1998	20553 06.10.99	मैन बाजार, बल्लभगढ़, फरीदाबाद।
73071	सुशील कुमार त्रिलोचन कुमार	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1997	20421 08.03.99	109, हाऊसिंग बोर्ड, अम्बाला कैंन्ट।
73072	तनू टक्कर मनोज टक्कर	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1994	20401 09.02.99	31, फ्रैन्ड्स कालोनी, हिसार।
73073	तारा चन्द राम किशन	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1994	20156 3.7.99	गांव व पो. आ. मेहराना, झज्जर।
73074	तरुण भारती कश्मीरी लाल सिन्धवाणी	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1996	20290 03.06.98	65, विकास नगर, अम्बाला शहर।
73075	टिकेश कुमार मामराज	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1995	20114 09.04.97	ओल्ड मण्डी, नारनौल, महेन्द्रगढ़।
73076	तुलसी दास शिवदयाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1997	20422	75/11, चक्रवर्ती मोहल्ला, धानेसर, कुरुक्षेत्र।
73077	उमेश कुमारी सांगवान मान सिंह सांगवान	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1997	20482 02.06.99	19, इंदिरा कालोनी, शहर रेलवे स्टेशन रोड, भिवानी।
73078	उर्मिल रेधु नरेश रेधु	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1997	20506 16.07.99	नवज्योति हास्पीटल, निगधु, तह. नीलोखेड़ी (करनाल)।
73079	उर्वशी भारती विवेन्द्र कुमार भारती	बी.ए.एम.एस. एम. डी. वि. वि., रोहतक 1997	20490 18.06.99	227/14, मोहल्ला दोगरान, हिसार।
73080	उत्तम सिंह चन्दगी राम	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1997	20443 17.03.99	गांव व पो. आ. दुलौथ जाट, महेन्द्रगढ़।
73081	वन्दना अग्रवाल राजेन्द्र पाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1997	20218 18.02.98	1201, सैक्टर-13, यू. ई., कुरुक्षेत्र
73082	वन्दना गौतम अशोक गौतम	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि. वि., कुरुक्षेत्र 1996	20228 18.02.98	910/7, हुडा कुरुक्षेत्र।

1	2	3	4	5
73083	वन्दना कटयाल एस. पी. कटयाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20448 18.03.99	322, सैक्टर-16, पंचकूला।
73084	वन्दना मलिक सतबीर मलिक	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20574 31.08.99	म. नं. 731, वार्ड नं. 4, डा. धर्मवीर सिंह के सामने तह. रोड, गोहाना (सोनीपत)।
73085	वन्दना सिरोही सुरेन्द्र सिंह सिरोही	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1995	20209 19.01.98	मकान नं. 3, आर्यसमाज मन्दिर के समीप, शाहबाद मोहम्मदपुर, नई दिल्ली।
73086	वनीता शर्मा सुरेश कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1997	20487 18.06.99	वार्ड नं. 7, कनीना मण्डी (महेन्द्रगढ़)।
73087	विजय कुमार कृष्ण स्वरूप	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20229 18.02.98	गांव-छलौंदी, पो.आ.-बान, तह.- धानेसर, (कुरुक्षेत्र)।
73088	विजय राय मृत्युंजय राय	बी.ए.एम.एस. एस.एस. वि.वि., वाराणसी 1990	20362 29.09.98	मोनिका हास्पीटल, रानिया गेट, सिरसा।
73089	विजय सिंह महदाराम	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1997	20525 24.09.99	गांव-बारागांव, पो.आ.-बारखेड़ा, तह.-नारनौल, (महेन्द्रगढ़)।
73090	विजयपाल कुन्दु लालचन्द	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20199 24.12.97	55/8, शिवाजी कालोनी, रोहतक।
73091	विजेन्द्र कुमार शर्मा प्रेम चन्द शर्मा	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20425 08.03.99	गांव व पो.आ.-बीरबल (करनाल)।
73092	विक्रम भाटिया ए. एन. भाटिया	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1997	20500 16.07.99	3 एच./60, एन.आई.टी., फरीदाबाद।
73093	विक्रम चौहान दिलजीत राय	बी.ए.एम.एस. जी.डी. वि.वि., अमृतसर 1998	20502 16.07.99	बूथ नं. 78, सैक्टर-7, पंचकूला।
73094	विमी सपरा एम. एल. सपरा	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20380 20.11.98	12, नई आबादी, रिवाड़ी।
73095	विनय कुमार लाम्बा करण सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1997	20374 10.11.98	गांव एवं पो.आ.-दलानवास, (महेन्द्रगढ़)।
73096	विनोद कुमार अंचल बिशम्बर दयाल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1996	20242 26.03.98	आंचल भवन, गली कैप्टन, नथु सिंह, लोहार, बाजार, (भिवानी)।



1	2	3	4	5
73097	विनोद कुमार चौहान बलबीर सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1997	20450 22.03.99	2128-ए, सैक्टर-24सी, चण्डीगढ़।
73098	विनोद तलूजा निहाल चन्द तलूजा	बी.ए.एम.एस. का.सिं.द.सं. वि.वि., दरभंगा 1991	20201 24.12.97	बेगु रोड, जगदम्बा कालोनी, सिरसा।
73099	विपुल गोयल संतोष कुमार गोयल	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20429 08.03.99	मारफत-रामदयाल, प्याऊ मनिहारी, कुण्डली, (सोनीपत)।
73100	विरेंद्र गांधी रामदास गांधी	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1995	20166 01.08.97	नारनौल रोड, नांगल चौधरी, (महेन्द्रगढ़)।
73101	विरेंद्र कौर त्रिलोक सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1995	20232 17.06.98	जी-15, पोलीटैक्निक कालोनी, नीलोखेड़ी (करनाल)।
73102	विरेंद्र कुमार माई राम	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1998	20539 27.10.99	77, विकास नगर, भिवानी।
73103	विश्वाजीत सिंह जगजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1996	20253 21.04.98	मकान नं. 170/34, विश्वकर्मा नगर, रोहतक।
73104	विवेक गुप्ता आनन्द सरूप गुप्ता	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1997	20528 24.09.99	147, खेरा बाजार, विशम्बलियाना स्ट्रीट, जगाधरी, (यमुना नगर)।
73105	यशबीर गहलौत एम.एस. गहलौत	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20441 19.03.99	1193/1, दयानन्द कालोनी, गुडगांव।
73106	योगिन्दर पाल मदान यशपाल मदान	बी.ए.एम.एस. एम.डी. वि.वि., रोहतक 1997	20509 27.07.99	मकान नं. 528/12, कुष्णा कालोनी, गुडगांव।
73107	योगेश यादव सुरज भान	बी.ए.एम.एस. कुरुक्षेत्र वि.वि., कुरुक्षेत्र 1997	20409 23.02.99	गांव-मूसेदपुर, पो.आ.-फरुकनगर, जिला-गुडगांव।
73108	जिले सिंह चौहान पतराम चौहान	भिक्षाचार्य आर.ए.यू. तिब्ब कालेज, जयपुर 1965	20473 03.05.99	वार्ड नं. 1, मैन बाजार, इन्द्री (करनाल)।

## भाग-III—यूनानी

क्र. सं.	नाम एवं पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन सं. एवं पंजीयन तिथि	पता
1	2	3	4	5
8310	मेमूना खान शफीकयूरहमान खान	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1996	20261 21.4.98	मथुरा रोड, सैक्टर-8, फरीदाबाद।
8311	शफीक-उर-रहमान खान अख्तिार तहमान खान	बी.ए.एम.एस. बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1992	20352 23.10.98	मथुरा रोड, सैक्टर-8, फरीदाबाद।


ह./ अपठनीय  
रजिस्ट्रार  
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद  
नई दिल्ली

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE  
NEW DELHI - 110058 THE 15TH NOVEMBER 1994 India

No.20-5/2001-C.R.— Whereas the Central Council of Indian Medicine, has in pursuance of Sub-Section(1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) maintained a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Haryana and who possess any of the medical qualification recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section(2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby directs that the Central Register of Indian Medicine shall be published in the Gazette of India for general information.

Note:— Every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine(Haryana) from April 1991 to March 1994 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

  
P.R. SHARMA  
REGISTRAR

# CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE HARYANA

## PART-I - AYURVED

CR.NO. NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION/ AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGNNO. ADDRESS: & DATE
72153 Abha Paruthi Jagdish Chander	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19555 PT College Delhi Gate, Rohtak. 26/07/93
72154 Ajeet Singh Surajpal Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1989	19289 1108/8, Sadar Bazar, Karnat. 20/05/92
72155 Ajit Parkash Jagan Nath	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19098 V & P.O. Bangarh, Panchkula. 02/04/91
72156 Ajit Singh Dharam Pal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19507 Vill. Lukhi, Rewari. 13/05/93
72157 Akash Goyal Vijay Goyal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19170 W.No.4, Siri Karanpur, Ganga Nagar. 09/08/91
72158 Akshaya Kumar Devki Nand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19613 Near Town Hall, Jind. 09/12/93
72159 Alka Rani Harish Chander	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19432 31, Inder Nagar, Ambala City. 10/02/93
72160 Alka Sharma Sunil Kumar Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19145 1421-22, Siganigarar, Ambala Cantt. 25/06/91
72161 Amar Nidhi Santosh Kumar	BAMS Punjab Univ., Chandigarh 1993	19598 551/8-B, Chandigarh. 29/10/93
72162 Amarjeet Ahuja Karam Narain	Ayurved Ratan H.S.S., Prayag 1967	19148 Roop Nagar, Hansi, Hisar. 27/06/91

72163	Amitabh Sehgal Manmohan Sehgal	BAMS Punjab Univ., Patiala 1990	19106 04/04/91	Bye Pass Road, Thanesar, Kurukshetra.
72164	Anand Parkash Jagdish Parshad	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19377 16/10/92	717/20, Lal Chand Colony, Rohtak.
72165	Anant Ram Daulat Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19577 24/08/93	Hanuman Gali, Jind.
72166	Anil Chutani Yudhishter Lal	BAMS Punjab State Fac. of AUSM., Chandigarh 1988	19615 19/12/93	Gandhi Ashram, Shimla.
72167	Anil Gupta Chander Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19417 07/01/93	Singhal Fastners, Link Road, Old Faridabad.
72168	Anil Kumar Siri Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19926 22/11/91	V & PO. Tigaon, Faridabad.
72169	Anil Kumar Hans Raj	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19526 31/05/96	10, Sector 6, Bahadurgarh, Rohtak.
72170	Anil Sachdeva Mool Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19284 07/05/92	3/52-A, Shivaji Nagar, Gurgaon.
72171	Anita Gupta Ashok Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19404 22/12/92	Mangal Clinic, Anaj Mandi, Pundri, Kaithal.
72172	Anita Gupta Jagdish Raj	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19538 15/06/93	H.No.348/11, Panchkula.
72173	Anita Narula Davender Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19670 10/02/94	Old Power House, Naraingarh.
72174	Anita Vikas Vikas Bhateja	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19331 10/08/92	12, Cross Road, Ambala Cantt.

72175	Anjana Batra N.L. Batra	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19680 08/03/94	C-175, Chawla Colony Ballabgarh (Faridabad)
72176	Anjanli Khurana J.C. Khurana	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19380 10/10/92	3G/IB Ram Nagar, Ambala City.
72177	Anju Bala Parkash Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19113 09/04/91	H.No.362/9, Laxman Colony Thanesar, Kurukshetra.
72178	Anju Bala Pardeep Arora	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19596 24/10/93	16, New Char Chaman Karnal.
72179	Anju Bindra Parmod Bindra	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19264 05/02/92	150-R, Model Town, Rohtak.
72180	Anju Guleria Janam Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19640 06/01/94	44-A, Golden Park, Ambala Cantt.
72181	Anju Paruthi Manish Paruthi	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19650 11/01/94	Municipal Colony, Sonapat.
72182	Anju Sharam Raghubir Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19581 26/08/93	229, Vikas Nagar, Bhiwani.
72183	Anshu Gandhi Chander Mohan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19504 10/05/93	196, Model Town, Ambala City.
72184	Anu Kapoor Rattan Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19188 26/08/91	V & PO. Bilaspur, Y.NGR.
72185	Anup Kumar Kailash Chander	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19310 08/07/92	Opp. Vatenary Hospital Sampla, Rohtak.
72186	Anupama Mahajan K.L. Mahajan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19568 13/08/93	H.No.1340-41, Yamuna Gali, Yamuna Nagar.

72187	Anuradha Dharmendra	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19679 03/03/94	712/16, Panchkula.
72188	Aprana Viad Yash Paul Viad	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19421 10/02/93	203, Vivek Vihar, Ambala City.
72189	Archana Saini Roop Singh Saini	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19458 16/03/93	413/12, Ashoka Garden Colony, Kaithal.
72190	Archana Nayyar Rajiv Nayyar	BAMS G.D.Univ., Amritsar 1990	19135 30/05/91	3231/27-D, Chandigarh.
72191	Arun Kumar Amrit Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19203 17/09/91	Near Old Exchange, Ladwa, Kurukshetra.
72192	Arvind Kumar Dev Dutt	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19552 19/07/93	V & PO. Alahar (Yamuna Nagar)
72193	Arvind Kumar Sharma Shyam Lal Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19143 25/06/91	Railway Road, Kalyat (Kaithal)
72194	Arvind Pathak Kimoti Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19335 12/08/92	230/5, Gandhi Nagar, Jind.
72195	Arvinder Kaur Amarjit Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19446 05/03/93	257/2, Basti Sheikan, Jalandhar City.
72196	Arvinder Singh Surjeet Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19406 24/12/92	133-W, Model Town, Hisar.
72197	Asha Rani Gulshan Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1985	19614 09/12/93	V & PO. Samalkha (Panipat)
72198	Asha Rani Om Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19624 20/12/93	Parkash Clinic, Jakhai Mandi (Faeha Bad)

72199	Asha Vasan Sandeep Vassan	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19649 11/01/94	176, Housing Board Colony, Rohtak.
72200	Ashok Girdhar Bahadur Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19559 04/08/93	Vill. Fahnawa (Kaithal)
72201	Ashok Kumar Hari Dev	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19131 23/05/91	V & P.O. Jhansa (KKR)
72202	Ashok Yadav Ram Kumar Yadav	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19413 07/01/93	H.No.11, Friends Colony, Hisar.
72203	Ashwani Kumar Davinder Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19329 05/08/92	1/164, Ram Krishana Colony, Ram Bagh Road, Ambala Cantt.
72204	Ashwani Kumar Samay Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19132 23/05/91	H.No.H/1670, Shiv Colony, Karnal.
72205	Ashwani Kumar Tarsen Lal	BAMS G.D. Univ., Amritsar 1986	19281 30/03/92	415, Sector-9, Faridabad.
72206	Ashwani Kumar Yogender Pal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19583 07/09/93	462, New Prem Nagar, Karnal.
72207	Ashwatama Prithvi Datt	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19502 07/05/93	Vill. Daba P.O. Madhuban, (KNL)
72208	Bahadur Singh Gurnam Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19462 29/03/93	Vill. Saidpur (Yamuna Nagar)
72209	Balbir Singh Mangtu Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19285 08/05/92	1208/18, Sanaian Mohalla Hisar.
72210	Baldev Parkash Jaswant Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19152 03/07/91	H.No.115/6, Indira Colony, Sadhu Mandi, Kurukshetra.



72211	Baldev Raj Ved Parkash	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19334 12/08/92	V & P.O. Gajlana (Kurukshetra)
72212	Baljit Singh Hukam Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19485 26/04/93	V & P.O. Bhambhewa (Jhajjar)
72213	Bhagirath Sharma Raghbar Dial	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19197 09/09/91	Mohalla Kanugach Bawal (Rewari)
72214	Bharat Bushan Sham Sunder	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19634 22/12/93	H.No.1236, Sector No.7, Faridabad.
72215	Bharti Butti Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19477 19/04/93	V & P.O. Assandh (Karnal)
72216	Bharti Ahlawat Rajinder Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19366 17/09/92	V & P.O. Lijwana Khurd (Jind)
72217	Bhupendra Pal Amar Nath	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19154 03/07/91	V & P.O. Umri (Kurukshetra)
72218	Bhupinder Alias Meeta Verma Vijay Verma	BAMS Punjab Univ., Patiala 1991	19243 01/01/92	Chachrauli (Yamuna Nagar)
72219	Bhupinder Bushan Rattan Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19620 20/12/93	Kot-182, Faiz Bazar, Sonapat.
72220	Bhupinder Singh Nazar Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19655 20/01/94	Jeswan Nagar, Sirsa.
72221	Bhushan Kumar Sham Sunder Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19338 04/08/93	Mohalla Chowk, Mohinder Garh.
72222	Bijender Singh Fateh Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19155 08/07/91	55, Sonapat Road, Rohtak.

72223	Bimal Kumar Ram Nath	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19341 24/08/92	253/8, Rajinder Nagar, Kurukshetra.
72224	Bimla Kumari Dharamvir Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19138 04/06/92	Haryana Medicos, Indri Road, Ladwa (KKR)
72225	Bindu Goel S.K. Goel	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19642 11/01/94	9044/5, Naya Bans, Ambala City.
72226	Brij Bala Vineet Gupta	BAMS Punjab Univ., Patiala 1992	19654 18/01/94	V & PO. Cheeka (Kurukshetra)
72227	Bupesh Kumar Satya Vir Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19150 02/07/91	V & PO. Mokhra (Rohtak)
72228	Chander Mani Hira Nand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1987	19603 01/12/93	21, Indira Colony, Karnal.
72229	Chander Parkash Karan Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19217 10/10/91	V & PO. Titoli (Rohtak)
72230	Chandesh Paul Jagdish Rai	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19315 13/07/92	Ranjit Gali, Yamuna Nagar.
72231	Chandi Parshad Ram Datt	Ayurved Visharad A.I.Ay.Vidyapeeth, Delhi 1942	19612 09/12/93	9/44, Kirti Nagar, Delhi.
72232	Davender Kumar Girdhari Lal	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19473 08/04/93	92/12, Ram Nagar, Karnal.
72233	Davender Kumarn Ram Lubhaya	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19657 20/01/94	Near Old Power House, Naraingarh (Ambala)
72234	Davender Paul Amar Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19479 19/04/93	Shop No.76, Saini Samaj Bhawan, Kurukshetra.

72235	Davender Paul Harbans Lal	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19576 24/08/93	261/15, Bhatia Nagar, Tohana (Fatehabad)
72236	Davender Singh Prem Raj Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19546 30/06/93	22, Nai Anaj Mandi, Bhiwani.
72237	Davinder Singh Karan Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19597 29/10/93	V & PO. Girwar (Jhajjar)
72238	Daya Kumari Gulzari Lal	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19277 23/03/92	305, Barnala Road, Sirsa.
72239	Deepka Mukesh Kumar	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1989	19096 02/04/91	560, Housing Board Colony, Sirsa Road, Hisar.
72240	Dhan Singh Partap Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19236 04/12/91	278/27, Tilak Nagar, Rohtak.
72241	Dharam Pal Baldev Datt	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19586 14/09/93	V & PO. Barauta (KNL)
72242	Dharam Paul Singh Mangat Singh	Ayurvedacharya A.I.Ay.Vidyapeeth, Delhi 1981	19496 06/05/93	324/5-A, Pipali (KUK)
72243	Dharambir Ram Mehar	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19308 08/07/92	Vill. Kheri Daulatpur (Bhiwani)
72244	Dharamvir Singh Bhim Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1988	19282 03/04/92	V & PO. Kassanda (Sonapat)
72245	Dharmender P.C. Rajput	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19231 25/11/91	H.No.712/16, Panchkula.
72246	Dharmender Dilbagh Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19390 05/11/92	160/14, Chunipura, Rohtak.

72247	Dinesh Kumar Dali Chand	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1989	19097 02/04/91	Mohalla Bara Talab, Rewari.
72248	Dinesh Kumar Ranji Dass	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19169 30/07/91	V & P.O. Lakhna Majra (Rohtak)
72249	Dinesh Panwar Zile Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19194 29/08/91	870/301, Siri Nagar Colony, Rohtak.
72250	Dinesh Farkash Dharam Raj	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19575 24/08/93	Lal Sarak, Hansi (Hisar)
72251	Divya Aggarwal Amrit Lal Aggarwal	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19682 17/03/94	Kothi No.8, Opp. ITI Canal Colony, Rohtak.
72252	Gaman Jeet Joginder Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19214 09/10/91	688, Gali No.7, Prem Nagar, Yamuna Nagar.
72253	Ganga Ram Niwas	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19491 04/05/93	79-80, Housing Board Colony, Hisar.
72254	Geeta Goel Krishan Chander	BAMS Punjab Univ., Chandigarh 1993	19601 23/11/93	1229/7, Panchkula.
72255	Geeta Rani Tej Bhan	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19532 04/06/93	11B/48, Shanti Nagar, Hisar.
72256	Geeta Sood Balraj Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1989	19356 04/09/92	H.No.2411/38-C, Chandigarh.
72257	Geetu Verma Kashmiri Lal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19347 25/08/92	255/7, New Colony, Kurukshetra.
72258	Gulshan Kumar Nand Lal	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19435 19/02/93	E.No.20/3, Rattia Road, Fatehabad.

72259	Gulshan Narang Laxmi Dass	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19314 08/07/92	Hamida Garhi Road, Yamuna Nagar.
72260	Gurbachan Singh Maru Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19337 23/12/91	V & Po. Rattaneri (Ambala)
72261	Gurpal Singh Gurdial Singh	Ayurvedacharya A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1982	19497 06/05/93	503, Ranjit Gali, Yamuna Nagar.
72262	Hardeep Singh Amrik Singh	BAMS Univ. of Kurukshetra, Kurukshetra 1993	19673 22/02/94	H.No. 816, Gali No. 5, Prem Nagar, Yamuna Nagar.
72263	Hari Krishan Siri Datt	BAMS Kanpur Univ., Kanpur 1989	19371 22/09/92	Gautam Hospital, Near Bus Stand, Panipat.
72264	Hari Om Zile Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19333 12/08/92	V & Po. Mundlana (Sonapat)
72265	Hari Om Ram Murti Gupta	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19379 14/10/92	3945, Misser Pura Street, Jagaram, Ludhiana.
72266	Harjeet Kaur Gurtej Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19149 28/06/91	2/23, Refinery Town Ship Jawahar Nagar, Baroda (Maharashtra)
72267	Harmander Singh Jaimal Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1989	19115 11/04/91	Near PO., Bilaspur, Yamuna Nagar.
72268	Harpal Singh Hari Kishan	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19387 29/10/92	232/5, Sant Nagar, Jind.
72269	Harsh Lata Ganga Dhar Paul	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19360 04/08/93	1978/10, Rampura Mohalla, Hisar.
72270	Hem Raj Shiv Parshad	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19430 10/02/93	V & Po. Jathlana Yamuna Nagar.

72271	Indira Sharma Jai Bhagwan	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19442 03/03/93	42, Kunjpara Road, Karnal.
72272	Indu Bala Mekhan Lal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19295 01/06/92	Main Bazar Thanesar (KKR)
72273	Indu Bala Jogi Ram	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19565 05/08/93	Infront of Police Station, Kharkaudha (Sonepat)
72274	Jagdish Mahendru Ram Piara	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19427 10/02/93	967, Vishava Karam Colony, Yamuna Nagar.
72275	Jageshwar Kumar Chander Bhan	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19531 04/06/93	111/E, Poultry Area, Nilokheri (KNL)
72276	Jagmohan Dev Datt Sharma	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19168 30/07/91	966, H.No.4, Faridabad.
72277	Jai Pal Singh Kaka Ram	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19382 19/10/92	V & P.O. Rajsaund (Kaithal)
72278	Jaibir Singh Devi Ram	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19339 18/08/92	V & P.O. Sisar Khas (Rohtak)
72279	Jesjit Kaur Parduman Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19645 11/01/94	552/12, Thanesar City (KKR)
72280	Jasvinder Saini Jai Paul Saini	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19429 10/02/93	1231/5, Jyoti Nagar, Kurukshetra.
72281	Jatinder Jain N.P. Jain	BAMS G.D. Univ., Amritsar 1990	19157 08/07/91	H.No.9/14, Panchkula.
72282	Jatinder Preet Kaur P.S. Ahuja	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19675 21/03/94	178/2, Sector, 48/A, Chandigarh

72283	Jianander Kumar Telu Ram	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19525 31/05/93	Jain Hospital, Near Old Bus Stand, Jind.
72284	Jitender Vats Ganga Sarup	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19213 03/10/91	V & P.O. Dobb (Rohtak)
72285	n Kumar l Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19626 20/12/93	Vill. Sukhdas Pur, Yamna Nagar.
72286	resh Lal Lal	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19392 06/11/92	Laj Pat Nagar, Fatehabad.
72287	el Ahuja Parkash	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19451 11/03/93	105-W, Model Town, Hisar.
72288	Kumar an Lal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19260 27/01/92	V & P.O. Naneola (Ambala)
72289	Papneja uran Singh Papneja	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19518 20/05/93	65, Vijay Park, Partap Nagar, Gurgaon.
72290	Kamal Parshad Baldev Krishan	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19511 18/05/93	20-B, Canal Colony, Tohana (Fatehabad)
72291	resh Kumari hi Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19361 10/09/92	H.No.187/2, Rambir Singh Colony, Jind.
72292	lesh Kumari Lala Ram	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19490 04/05/93	Dev Memorial Nursing Home, Indri (Karnal)
72293	Kamlesh Rani Surjit Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19163 24/07/91	134/2, Rambir Colony, Jind.
72294	Kanchan Goel Rajender Parshad	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1989	19265 19/02/92	Birla Mandir Road, Thanesar (KKR)

72295	Kavinder Kumar Sharma Sham Lal	BAMS Punjab Univ., Chandigarh 1992	19676 01/03/94	180/18, Panchkula.
72296	Kavita Verma Rajvir Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19322 14/07/92	14, Professor Colony, Sonepat.
72297	Kewal Krishan Nasib Chand	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19216 10/10/91	Rajstan Medical Store, Rattia, Fatehabad.
72298	Kiran Bala Suraj Bhan	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19570 16/08/93	212, Lajpat Nagar, Hisar.
72299	Kiran Gulati Davender Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19670 09/02/94	Near Old Power House, Naraingarh (Ambala)
72300	Kiran Sindhu Surender Sindhu	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19487 26/04/93	B-VI-1508-ITI, Modern Colony, Yamuna Nagar.
72301	Krishan Kumar Sham Sunder	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19137 04/06/91	V & PO. Nagthala, Hisar.
72302	Krishan Kumar Bhag Chand	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19215 10/10/91	369, Gali No. 9, Jawahar Nagar, Hisar.
72303	Krishan Kumar Nand Lal	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19553 19/07/93	V & PO. Nehla (Hisar)
72304	Krishana Devi Raj Kumar	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19257 22/01/92	Pillukhera Mandi (Jind)
72305	Krishna Kumari Ashwani Kumar	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1987	19280 30/03/92	H.No. 415/9, Faridabad.
72306	Kul Bhushan Rishi Pal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19376 15/10/92	V & PO. Tandwal (Ambala)



72307	Kuldeep Chaman Lal	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19602 23/11/91	Durga Garden, Chhote Lina- Puli No. 2, Jagadhari.
72308	Kuldip Singh Teja Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19466 29/03/93	V & P.O. Dhahi Tek Singh Teh. Narwana (Jind)
72309	Kusum Lata Virender Kumar	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1989	19156 08/07/91	Devta Hospital Mandi, Kalanwali (Sirsa)
72310	Kusum Lata Vasu Dev	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19208 19/09/91	Vikas Nursing Home, Loharu, Bhiwani.
72311	Kusum Lata Suresh Kumar	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19506 13/05/93	1025, Sanjan Mohalla, Baba Maniram Chowk, Hisar.
72312	Laj Gupta Mohan Lal Simola	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19459 18/03/93	491-L, Model Town, Panipat.
72313	Lakhi Ram Furan Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19616 13/12/93	V & P.O. Balapur (Ambala)
72314	Lakshmi Narain Ram Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19633 22/12/93	348/5, Shastri Nagar, Tohana (F. Bad)
72315	Lalita Girdhar Rakesh Girdhar	BAMS Punjab State Fac. of AUSM, Chandigarh 1989	19134 27/05/91	Highar Road, Fatehabad.
72316	Laxmi Arora Thakur Dass	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19161 22/07/91	62/10, Mata Gate, Rohtak.
72317	Laxmi Kant Sharma Ravi Datt Sharma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19411 07/01/93	K-10, Vishnu Colony, Kurukshetra.
72318	Lokeshwar Datt Narender Dev	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19368 17/09/92	Wadhwa Nursing Home, Mandi, Dabwali (Sirsa)

72319	Madan Lal Mangha Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19128 09/05/91	876/13, UE, Karnal.
72320	Madhu Chopra Davinder Chopra	BAMS G.D. Univ., Amritsar 1990	19299 15/06/92	H.No.485/10, Fanchkula.
72321	Madhu Kar Khara H.L. Khara	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1988	19110 08/04/91	499/3, Panipat.
72322	Madhu Satia Din Dayal	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1989	19101 04/04/91	Gandhi Nagar, Jind.
72323	Mahavir Gupta Daulat Ram	BAMS G.D. Univ., Amritsar 1985	19118 25/04/91	Sanjay Colony, Sugar Mill, Sonapat.
72324	Mahavir Kaushik Raj Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19428 10/02/93	1231/5, Jyoti Nagar, Kurukshetra.
72325	Mahender Singh Inder Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1989	19152 03/07/91	1032/5, Dayalpur Basti, Kurukshetra.
72326	Mahesh Kumar M.L. Adhlakha	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19249 07/01/92	Sanjay Memorial Nagar, Faridabad.
72327	Mahesh Sharma Satya Parkash	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19353 03/09/92	Moh. Padian Sadhaura (Y.NR)
72328	Manju Bala Subash Chander	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19551 15/07/93	403, Jai Shanker Apartment, Apartment Vihar, Ulhas Nagar, Bombay.
72329	Manju Devi Joginder Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19261 29/01/92	Gandhi Nagar, Ganuar (SPT)
72330	Manju Garg Sanjeev Garg	BAMS G.D. Univ., Amritsar 1989	19253 15/01/92	V & PO. Bilas Pur (Y.Nagar)

72331	Manju Sharma P.K. Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19191 26/08/91	Canal Colony, Tohana (F.Bad)
72332	Manju Sharma Subash Dhariwal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19664 09/02/94	H.No.417, Patiala Chowk, Narwana (Jind)
72333	Manju Sharma Gopal Krishan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19436 10/02/93	1793, Bughha Badan Street, Patiala.
72334	Manju Sodhi Pritam Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19557 27/07/93	9442/6, Kalal Majri, Ambalacity.
72335	Manju Verma Subash Chander	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19444 05/03/93	Vill. Baijalpur (F.Bad)
72336	Manoj Kumar Jagat Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19410 07/01/93	Room No.13, Gujjar Dharam Shala, Kurukshetra.
72337	Manoj Kumar Om Parkash	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19632 22/12/93	1414/13, Karnal.
72338	Meena Dalal Charan Singh Dalal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19408 29/12/92	Beri Gate, Jhajjar.
72339	Meena Kumari Pawan Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19644 11/01/94	144/12, Near Shiekhchili Makbara, Ambalacity.
72340	Meena Rani Tek Chand	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19116 22/04/91	135, Near Sant Pura Gurdwara, Sangrur.
72341	Meena Rani Harnam Dass	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19467 07/04/93	154, Ram Nagar, Panipat.
72342	Meenakshi Desh Bandhu	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19540 15/06/93	V & P.O. Rampura Phul (BTD)

72343	Meenakshi Gohil Jai Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	1984 19/01/92	Jai Medical & X-ray Clinic Model Town, Yamuna Nagar.
72344	Meenakshi Sharma Kiran Chaud	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	1987 21/05/91	C-2-1451, Rajputana Street, Jagadhari (Y. Nagar)
72345	Meenu Kataria Fawaz Kumar	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1987	1984 25/06/91	945, Urban Estate, Ambala City.
72346	Meenu Sharma Virender Kumar Vats	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	1987 01/03/94	20, Indira Colony, Karnal.
72347	Meera Man Mohan	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	1983 05/03/91	Tehsil Road, Ferozepur, Jhirka (Gur)
72348	Mohan Lal Om Parkash	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	1986 29/04/91	Mohalla Doshian, Kurukshetra.
72349	Mohan Lal Om Parkash	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	1986 25/08/91	Near Arya Samaj Chowk, Patiala.
72350	Mohinder Vats Amar Nath	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	1982 20/03/91	V & P.O. Bhagal (KFR)
72351	Monoch Kumar M.G. Sharma	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	1984 20/08/91	Assam Tea Store, D.C. Road, Ambal Cantt.
72352	Moal Shanker Ram Bhaj Sharma Rambhaj	BAMS Univ. of Poona, Pune 1991	1983 16/09/92	H.No. 1114/11, Panchkula.
72353	Mridul Sirivastva K.K. Sirivastva	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	1983 29/03/92	140-1, Vijai Khand Gaumati Nagar, Lucknow.
72354	Mukesh Kumar Khan Chand	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	1989 12/09/91	464/5, Sarafa Bazar, Raithal.

72355	Mukesh Sharma Trilok Chaudhary	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1978	19071 03/03/92	698-B, Shamshi Road, Gurgaon.
72356	Namrata Sharma Indira Sharma	BAMS G.D.Univ., Agartala 1990	19567 06/08/93	Ham Natar, Faridkot.
72357	Narender Kumar Suresh Chaud	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19165 24/07/91	28, New Krishana Nagar, Delhi
72358	Narender Kumar Ram Gopal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19316 13/07/92	Main Bazar, Meham (FTR)
72359	Narender Kumar Kehar Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19585 14/09/93	Vill. Mandebri (T.Nagar)
72360	Narender Malik Randhir Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19332 10/08/92	ITI Bye Pass, Karnal.
72361	Naresh Kumar Sohan Lal	BAMS M.F.Univ., Rohtak 1989	19099 02/04/91	Whole Sale Tea Merchant Sunam (Punjab)
72362	Naresh Kumar Rameshwar Datt	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19561 04/08/93	636/3, Adarsh Colony, Jind.
72363	Narhari Vishnu Rajender Parshad	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19133 23/05/91	Brahmanwas (Rohtak)
72364	Narinder Kaur Jagtar Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19125 07/05/91	H.No.246/2, Kurukshetra Road, Pehowa, Kurukshetra.
72365	Narotma Garg Mahabir Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19529 31/05/93	Basai Road, Chaudhary Dharam Kanta, Gurgaon.
72366	Navdeep Sharma S.S. Srivastva	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19542 16/07/93	H.No.115/14, Karnal.

72367	Neelam Arora Rajesh Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19123 07/05/91	763/13, Urban Estate, Karnal.
72368	Neelam Devi Mulakh Raj	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19522 31/05/93	Thermal Colony, Panipat.
72369	Neelam Kumari Jai Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19337 12/08/92	New Grain Market, Ludhwa (KKR)
72370	Neelam Kumari Jogi Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19573 19/08/93	W.No.5, Pecca Bagh Kharkhuada (Sonapat)
72371	Neelam Rani Ramesh Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19190 26/08/91	529, Krishna Colony, Yamuna Nagar.
72372	Neelam Rani Devi Dayal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19539 16/06/93	V & P.O. Pipli (Kurukshetra)
72373	Neelam Sharma Satyapal Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19146 25/06/91	V & P.O. Kheri (Kanti) Distt. Mohindergarh.
72374	Neelur Chandok Yogesh Chahdok	BAMS Punjabi Univ., Patiala 1990	19311 08/07/92	Lahorian Chowk, Hissar.
72375	Neena Bansal Navin Bansal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19251 14/01/92	Railway Road, Kalyat (JND)
72376	Neeraj Kumar Makhan Lal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19294 01/06/92	Mohalla Sanghian, Thanesar (KKR)
72377	Neeru Jaina Ram	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19296 01/06/92	31-A/N, Shalimar Bagh, New Delhi.
72378	Neeti J.N. Makani	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19627 20/12/93	H.No.369, Mohalla Jail Ground, Sirsa.

72379	Nirja Sharma Braham Sarup	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1989	19245 03/01/92	971/5, Jyoti Nagar, Kurukshetra.
72380	Nirmal Devi Teh Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19494 05/05/93	V & P.O. Nadgarh (Jind)
72381	Nirmala Hooda Ashok Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19221 28/10/91	Vill. Barauli (Sonapat)
72382	Nishi Khurana Narender Khurana	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19202 13/09/91	573/13, Urban Estate, Kurukshetra.
72383	Nishi Sharma Trilok Chand Sharma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19646 11/01/94	H.No.C-100, University, Campus, Kurukshetra.
72384	Nitu Singh Ranbir Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19519 20/05/93	Vill. Bhoot Majra (Y.Nagar)
72385	Niveditta Rastogi Manoj Rastogi	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19452 11/03/93	Professor Colony, Kurukshetra.
72386	Om Parkash Chhotu Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19344 24/08/92	Sharma Medical Hall, Near Old Bus Stand Gohana (SPT)
72387	Om Parkash Perhlad Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19407 28/12/92	Vill. Niyamatpur (M.Garh)
72388	Om Paul Sangoo Ram	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19476 19/04/93	B-170, Prithvi Nagar, Farakpur Jagadhari Workshop (Y.Nagar)
72389	Pankaj Malik Chaman Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19336 12/08/92	292-R, Model Town, Yamuna Nagar.
72390	Paramjit Beniwal Prithi Chand Beniwal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19623 20/12/93	Vill. Gobindpura, Distt. Sirsa.

72391	Parbhash Chander Bhagwan Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19578 26/08/93	V & PO. Nindana (Rohtak)
72392	Pardeep Kataria Chaman Lal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19630 22/12/93	2079/13, UE Karnal.
72393	Pardeep Kumar Ram Krishan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19309 08/07/92	Shivaji Colony, Rohtak.
72394	Pardeep Sharma Radhey Shyam	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19412 07/01/93	Mohella Sanaiani, Hisar.
72395	Parmod Kumar Kashmiri Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19291 22/05/92	V & PO. Siwan (Kaithal)
72396	Parmod Kumar Prem Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19357 04/09/92	V & PO. Ram Garh (Panchkula)
72397	Parveen Chabra Ram Chander	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19283 27/04/92	413, Adarsh Nagar, Laxmi Cinema, Yamuna Nagar.
72398	Parveen Kumar Om Parkash	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19647 11/01/94	1009/6, UE. Karnal.
72399	Parvinder Kaur Kamal Raj	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19505 12/05/93	282/32-D, Chandigarh.
72400	Pawan Kumar Ram Niwas	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19433 10/02/93	43, Appu Nagar, Fatchabad.
72401	Pawan Kumar Nathu Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19625 20/12/93	DLF Colony, Rohtak.
72402	Pawan Kumar Khazan Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19658 20/01/94	V & PO. Kadaur (Y.Nagar)



72403	Poonam Deep Madan Gopal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19660 24/01/94	9, Sector 27-C, Chandigarh.
72404	Poonam Sharma Ganesh Datt	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1988	19524 31/05/93	Ganesh Hospital Indri Road, Ladwa (KPR)
72405	Poonam Singla Joginder Pal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19609 01/12/93	286-R, Model Town, Panipat.
72406	Pratibha Prem Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19483 21/04/92	981/7, Moti Nagar, Ambala city.
72407	Pratibha Pathhee Ved Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19587 18/09/93	Fanchi Road, Ganaur, (Sonapat)
72408	Pratibha Pishi Jitender Sharma	BAMS Punjabi Univ., Patiala 1990	19195 05/09/91	Assandh Road, Shivpuri, Panipat.
72409	Prehald Kumar Charwan Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19431 10/02/93	247/4, Gurunank Pura, Thanesar (KUK)
72410	Punam Pamash Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19471 08/04/93	Randhir Nagar, Kaithal Road, Karnal.
72411	Punam Eudhwar Joginder Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19447 10/03/93	Near FCI, Godown, Sunaira Road, Rohtak.
72412	Punit Goel Om Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19535 04/06/93	Gupta Hospital Uklana Mandi (H)
72413	Punita Paul Naresh Jindal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19403 15/12/92	V & PO. Rattia (Patehabad)
72414	Puran Chand Lila Krishan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19434 10/02/93	V & PO. Dariyapur (F.Bad)

72415	Bushar Lata Om Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19672 14/02/94	V & P.O. Ehanpur (Sonapat)
72416	Rachna Mandwani Nand Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19513 19/05/93	Ram-sh Nagar, Karnal.
72417	Padhika Sapra Vikas Sapra	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1989	19492 05/05/93	Ram Nagar, Karnal.
72418	Raghu Nath Vishav Nath	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19158 08/07/91	V & P.O. Boh (Ambala)
72419	Raj Bala Safish Sengwan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19548 07/07/93	Hira Chowk, Shishu Sadan Charkhui, Dadri.
72420	Raj Kapur Sukhi Ram	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19572 18/08/93	V & P.O. Kalanaur (RTK)
72421	Raj Kumar Udai Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19256 22/01/92	Pillookhera (Jind)
72422	Raj Kumar Bhagwan Dass	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19317 13/07/92	Shiv Chowk, Band Gate, Sirsa.
72423	Raj Kumar Buta Ram	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19425 10/02/93	Mahavir Colony, Ladwa (Kurukshetra)
72424	Raj Kumar Roop Basant	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19460 18/03/93	Dogra Mohalla, Hisar.
72425	Raj Kumar Puran Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19470 08/04/93	V & P.O. Ismaililabad (KKR)
72426	Raj Kumar Hem Raj Garg	BAMS Punjab State Fac. of AUSM., Chandigarh 1989	19105 04/04/91	V.P.O. Tarawari, Karnal.

72427	Raj Kumar Tuli Sain Dass Tuli	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19129 09/05/91	1692/13, UE. Karnal.
72428	Raj Pal Singh Ram Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19486 26/04/93	Vill. Lijwana Khurd (Jind)
72429	Raj Paul Behl Hari Chand Behl	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19656 20/01/94	342, Housing Board, Ambala.
72430	Rajan Verma P.R. Verma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19419 21/01/93	H.No.C-VII-91, Gandhi Dham, Jagadhari (Y.Nagar)
72431	Rajbir Singh Abhey Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19401 14/12/92	Main Bazar, Krishanpura, Panipat.
72432	Rajbir Singh Naubat Ram	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19579 26/08/93	Vill. Nangal Kalina (Mohindergarh)
72433	Rajeev Kumar Ram Nath	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19279 30/03/92	Behind ITI, Yamuna Nagar.
72434	Rajender Kumar Jai Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19122 06/05/91	Near OS DAV Public School, Kaithal.
72435	Rajender Kumar Gurditta Mal	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19319 13/07/92	V & P.O. Kalanaur (RTK)
72436	Rajender Kumar Balbir Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19501 07/05/93	Chhota Bazar, Meham (RTK)
72437	Rajender Singh Roop Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19307 08/07/92	V & P.O. Kalal Majri (KKR)
72438	Rajesh Babu Mange Ram	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	<del>19498</del> 06/05/93	Vill. Ajitpura P/o Manheru (Bhiwani)

72439	Rajesh Gupta Ishwar Chand Gupta	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19424 11/02/93	1353/8, Near P.O. Radhaur (Y.Nagar)
72440	Rajesh Jain Ram Kumar Jain	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19455 12/03/93	Chaudana Gate, Kaikthal.
72441	Rajesh Khurana Ved Prakash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19359 10/09/92	174/8, Krishna Colony, Bhiwani.
72442	Rajesh Kumar Ram Krishan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19318 13/07/92	Asija Hospital Rand Gate, Sirsa.
72443	Rajeshwar Datt Narender Dev	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19367 17/09/92	Wadhwa Nursing Home, Mandi Dabwali (SRS)
72444	Rajeshwar Sagar U.S. Bhardwaj	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19517 19/05/93	H.No.1130/28, Faridabad.
72445	Rajinder Kumar Bodh Raj	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19198 10/09/91	V & P.O. Barwala (HSR)
72446	Rajinder Kumar Chaman Lal	BAMS Punjabi Univ., Patiala 1976	19218 04/10/91	V & P.O. Fansara (Y.Nagar)
72447	Rajiv Ahuja Sadhu Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19177 09/08/91	Full Bazar Narnaul (Mohindergarh)
72448	Rajiv Chabra Mam Mohan Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19469 08/04/93	310, Sadar Bazar Vakilpura, Karnal.
72449	Rajiv Dhamija Dilbagh Rai	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19321 13/07/92	46/2, Salara Mohalla, Rohtak.
72450	Rajiv Gandhi Jagjit Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19293 29/05/92	270, Sarjani Colony, Yamuna Nagar.

72451	Rajiv Grover Dev Raj Grover	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19171 05/08/91	427/5, Jacobpura, Gurgaon.
72452	Rajiv Gupta Sant Farkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19225 11/11/91	V & PO. Patheri (Ambala)
72453	Rajiv Kumar Amar Nath	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19201 13/09/91	B-II, 304, Para Mohalla, Rohtak.
72454	Rajiv Kumar Ramjee Dass	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19545 17/06/93	927/6, Chowk Chameli Market, Rohtak.
72455	Rajiv Nayyar Chaman Lal	BAMS Punjab State Fac. of AUSM., Chandigarh 1991	19290 22/05/93	3231/37, Chandigarh.
72456	Rajiv Sharma D.N. Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19096 02/04/91	560, Housing Board, Colony, Sirsa.
72457	Rajneesh Garg Satpal Garg	BAMS Exam. Body AUSM, Delhi 1986	19174 05/08/91	M/s Som Nath & Sons General Merchants Shahzadpur (Ambala)
72458	Rajneesh Singh Gurbachan Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19465 29/03/93	Vill. Beera Badhi (F.Bad)
72459	Rajni Amar Nath	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19600 23/11/93	New Railway Road, Gurgaon.
72460	Rajni Gupta R.K. Gupta	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19515 18/05/93	H.No.51, W.No.11, Ladwa, Distt. Kurukshetra.
72461	Rajni Gupta Prem Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19619 20/12/93	30, Dayal Singh, Ambala Cantt.
72462	Rajpal Singh Sube Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	<del>19238</del> 15/06/92	V & PO. Fatehgarh (Jind)

72463	Rakesh Aggarwal Hari Krishan Aggarwal	GAMS H.P., Univ., Shimla 1981	19212 01/10/91	Old DC Road, Sonapat.
72464	Rakesh Katri Ved Parkash	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1991	19159 08/07/91	74/8, Sarafa Bazar, Kaithal.
72465	Rakesh Kumar Megh Datt	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19172 05/08/91	263, Nehru Colony, Rohtak.
72466	Rakesh Kumar Om Parkash	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19239 01/01/92	V & PO. Kullian (F.Bad)
72467	Rakesh Kumar Tarsem Lal	BAMS G.D. Univ., Amritsar 1990	19241 01/01/92	2212/9, F.Bad.
72468	Rakesh Kumar Krishan Chand	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19574 19/08/93	Kath Mandi, Fatehabad.
72469	Rakesh Pandey Ram Yattan Pandey	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1992	19510 18/05/93	H.No.31, 132, K.V. Power, Colony, Rewari (HRY)
72470	Rakesh Sharma Surender Datt	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19369 21/09/92	Gayatri Medical Store, Moti Chowk, Bhiwani.
72471	Ram Bhagat Kishori Lal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19121 06/05/91	Amargarh Colony, Gali No.6, Kaithal.
72472	Ram Kumar Inderaj Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19591 22/09/93	V & PO. Kuleri (HSR)
72473	Ram Mehar Ram Dhari	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19648 11/01/94	Vill. Barakhurd (Jind)
72474	Ram Murti Shingara Mal	BAMS Punjab State Fac. of AUSM., Chandigarh 1989	19103 04/04/91	416/3, Pehowa, Kurukshetra.

72475	Ram Naranjan Banarsi Dass	Ayurved Rattan H.S.S., Prayag 1957	19681 08/03/94	258/10, Panchkula.
72476	Ram Niwas Jai Bhagwan	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19437 10/02/93	45, Gujjar Dharamshala, Kurukshetra.
72477	Ram Parkash Hari Dett Shastri	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19266 19/02/92	Railway Road, Narwana (Jind)
72478	Raman Ram Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19450 11/03/93	67, Sukhdev Nagar, Panipat.
72479	Raman Khanna Naresh Chand	BAMS G.D.Univ., Amritsar. 1991	19320 13/07/92	Arjun Nagar, Jagadhari (Y.Nagar)
72480	Ramdev Sharma Mohan Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19346 25/08/92	Opp. Than Sadar, New Mandi, Narnaul (M.Garh)
72481	Ramesh Chander Ram Saroop	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19499 06/05/93	V & PO. Subhama (Jhajjar)
72482	Ramesh Kumar Chhabila Ram	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19663 09/02/94	Uchana Mandi (Jind)
72483	Rameshwar Dass Devi Dayal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1989	19179 20/08/91	Vill. Bir Amin (KKR)
72484	Ramnik Garg Narinder Pal Garg	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19635 22/12/93	415, Defence Colony, Hisar.
72485	Ranbir Singh Jagan Nath	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19372 24/09/92	Near Bus Stand Bishan Sarup Colony, Panipat.
72486	Ranbir Singh Bakhtawar Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19398 <del>14/12/92</del>	Radaur Road, Camp, Yamuna Nagar.

72487	Ranbir Singh Kehar Singh	BAMS Punjabi Univ., Patiala 1987	19566 05/08/93	237, Sewak Colony, Patiala.
72488	Rani Devi Ragbir Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19102 04/04/91	Sant Nagar, Jind.
72489	Ranjana Chander Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19488 27/04/93	242, Near Pili Kothi, Jawahar Nagar, Delhi.
72490	Ranjana Kurl Bal Krishan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19537 15/06/93	H.No.254-A, New Prem Nagar, Karnal.
72491	Ranjit Gautam Harinder Nath	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19324 20/07/92	H.No.551, Manimajra.
72492	Ranjit Singh Prem Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19262 07/02/92	Mohalla Azadgarh, Rohtak.
72493	Ranvir Singh Inder Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19240 01/01/92	Mohalla Azad Garh, Rohtak.
72494	Rashmee Ghai M.L. Ghai	BAMS Punjab Univ., Chandigarh 1992	19592 24/09/93	57, Dashmesh Colony, Rajpura (Patiala)
72495	Rashmi Poonia Suresh Paul	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19378 24/03/92	Barwala Road, HLRDC, Hisar.
72496	Ravi Datt Sharwan Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19391 06/11/92	V & P.O. Nagal Chaudhary (M.Garh)
72497	Ravi Kanta Sharma Satpal Sharma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19449 10/03/93	29-A, Tagore Garden Near Bus Stand, Yamuna Nagar.
72498	Ravinder Kumar Nand Lal	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19142 18/06/91	V & P.O. Chang (Bhiwani)



72499	Ravinder Kumar Babu Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19211 26/09/91	Vill. Hassanpur, Distt. Mohindergarh.
72500	Ravinder Kumar Fakir Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19426 10/02/93	649/8, Krishna Colony, Indri Road, Ladwa (KKR)
72501	Ravinder Malik Amar Nath	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19205 17/09/91	Arya Nagar, Jhajjar.
72502	Ravinder Pal Yadva Kartar Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19402 14/12/92	K.S. Nursing Home, Badshahpur (GUG)
72503	Ravinder Sehgal Narender Nath	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19420 02/02/93	2884/2, Jagadhari Gate, Ambala City.
72504	Ravjit Kaur Kashmir Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19534 04/06/93	Vill. Kharkan, Teh. Guhla (Kurukshetra)
72505	Reena Rajender Parshad	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19605 01/12/93	Kissan Seed Store, Jakhai Mandi (F.Bad)
72506	Rekha Chauban Kushal Paul Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19571 16/08/93	11-B81, Old Campus, HAU, Hisar.
72507	Rekha Rani Hari Ram Goel	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19549 12/07/93	1569/4, Panchkula.
72508	Renu Bhupender Datt	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19543 17/06/93	Vill. Jaatauli P/o Heli Mandi (Gurgaon)
72509	Renu Rehlan Parveen Rehlan	BAMS Punjab State Fac.of AUSM., Chandigarh 1991	19267 26/02/92	H.No.B-76, Raj Nagar, Sec.23, Gaziabad.
72510	Renu Vandna Bram Dev Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19185 20/08/91	C/o J.R. Bhardwaj H.No.1155, New Housing Board Colony, Karnal.

72511	Rishi Paul Aggarwal P.K. Aggarwal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19418 07/01/93	562, Housing Board, Ambala.
72512	Rita Sayal Mohinder Paul	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19325 21/07/92	31, Shastri Colony, Yamuna Nagar.
72513	Ritu Y.K. Vadhera	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19286 07/05/92	142/4, Panchkula.
72514	Ritu Chabra Chander Sheikhar	BAMS G.D. Univ., Amritsar 1990	19244 01/01/92	Vill. Kharwa (Y.Nagar)
72515	Ritu Gupta Rajeshwar Nath	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19405 22/12/92	Old Anaz Mandi, Ambalacity.
72516	Ritu Gupta P.D. Gupta	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19659 20/01/94	V & P.O. Chang (Bhiwani)
72517	Sabrina Prem Chopra	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19500 06/05/93	H.No.317/16, Panchkula.
72518	Salindra Deshwal Randhir Deshwal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1989	10508 13/05/93	V & P.O. HOLI (Ambala)
72519	Sandeep Kumar Suresh Chander	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19665 09/02/94	Railway Road, Gohana, Sonapat.
72520	Sangeeta Madhok Vinay Kumar	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1989	19100 02/04/91	Near Negi Tent House Jagadhari Workshop (Y.Nagar)
72521	Sangeeta Panwar Anil Panwar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19209 19/09/91	H.No.110/37, Faridabad.
72522	Sanjay Anand Rajinder Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19669 09/02/94	Q.No.46, Papar Milla Colony, Y.Nagar.

72523	Sanjay Garg Ramesh Chander	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19544 17/06/93	H.No.6/8, New Dharam Shala Gali, Narwana (Jind)
72524	Sanjay Jakhar Mohinder Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19593 28/09/93	220/28, Near Sheela Takies, Sonepat Road, Rohtak.
72525	Sanjay Kumar S.S. Attray	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19358 10/09/92	Lohar Bazar, Bhiwani.
72526	Sanjay Kumar Om Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19441 17/02/93	V & P.O. Batheri Shiekan (Ambala)
72527	Sanjay Kumar Raj Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19607 01/12/93	Near City Police Station, Jind.
72528	Sanjay Kumar Vidya Sagar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19677 01/03/94	V & P.O. Ismailabad (KKR)
72529	Sanjay Phogat Daya Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19608 01/12/93	Jhajjar Ghati Charkhi Dadri (Bhiwani)
72530	Sanjay Sharma Virender Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19348 25/08/92	218, Pathashala Marg, Mahesh Nagar, A. Cantt.
72531	Sanjeev Dhamija B.S. Dhamija	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19383 19/10/92	CMO Residence, Kurukshetra.
72532	Sanjeev Goel Bhagat Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19461 18/03/93	Vill. Bad Khalsa (Sonepat)
72533	Sanjeev Goyal Chander Sain	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19595 29/10/93	3081/23-D, Chandigarh:
72534	Sanjeev Gupta Tek Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19666 09/02/94	68/18, Panchkula.

72535	Sanjeev Kumar Dev Raj	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19269 05/03/92	16/201, Nai Basti Mansa.
72536	Sanjeev Kumar Shiv Parshad	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19288 14/05/92	Vill. Barra P/o Kuldip Nagar (A.Cantt)
72537	Sanjeev Kumar Bharat Bushan	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1988	19354 03/09/92	49/4, Thanesar City.
72538	Sanjeev Kumar Babu Ram Jassal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19657 16/03/93	Bharat Nagar, Kalka (PKL)
72539	Sanjeev Kumar Ram Sarup	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19523 31/05/93	Near Ice Factory Bhuna (Fatehabad)
72540	Sanjeev Madan Ramji Dass	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19136 31/05/91	95/17, Bastipura, Rohtak.
72541	Santosh Gupta Ram Richchpal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19637 04/01/94	Shkul Street, Safidon (Jind)
72542	Santosh Kumar Shyam Sunder	Vaidyacharya A.I.Ay.Vidyapeeth, Delhi 1971	19219 22/10/91	V & P.O. Didwana (Nagaur) Rajasthan.
72543	Santosh Sharma M.S. Gautam	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19170 05/08/91	V & P.O. Sisar Khas (Rohtak)
72544	Sarita Sudershan Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19141 18/06/91	Railway Road, Shahbad (KR)
72545	Sarita Nee Sawapati Jailly Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19378 14/10/92	H.No.466/11, Near Kundan Cinema, Jind.
72546	Sarita Sharma Krishan Sharma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19338 17/08/92	445/12, Fehowa (KKR)

72547	Sarveshwari Ravinder Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19556 27/07/93	Gali Dr. Piara-Lal Near Krishan Soda Factory, Bhiwani.
72548	Sat Paul Jagdish Chander	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19489 28/04/93	V & PO. Pabnawa (Kaithal)
72549	Satinder Kaur Satinder Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19349 25/08/92	H.No.318, Bhagat Singh Street, Mansa.
72550	Satish Gandhi S.B. Gandhi	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19114 11/04/91	Kothi No.2, Adarsh Nagar, Bhiwani.
72551	Satish Kumar Banwari Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19326 23/07/92	V & PO. Matan Hel (Jhajjar)
72552	Satish Kumar Bhagat Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19516 18/05/93	Vill. Baliyali (Bhiwani)
72553	Satish Sangwan Daya Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19351 04/09/92	Hira Chowk Dadri (BHW)
72554	Satish Vats Harpal Datt	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19478 19/04/93	WZ-632, Shiv Nagar, Near Jail Road, Delhi.
72555	Satwanti Rohtash Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19482 21/04/93	H.No.157-A NP-12, Vill. Dsaghera P/o Pusa (Delhi)
72556	Savita Arora Sanjiv Arora	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19422 10/02/93	Sanjeev Hospital, Bhuna (Fatehabad)
72557	Seema Leela Krishan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19590 22/09/93	H.No.122, Kalan Mohalla, Sonapat.
72558	Seema Bhargav Rattan Lal Bhargav	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19611 09/12/93	10, Bir Colony, Bhatinda.

72559	Seema Gupta Om Parkash	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19343 24/08/92	9089/5, Naya Bans, Ambala City.
72560	Seema Gupta Chander Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19533 04/06/93	Bhagwan Mahavir Nagar, Uklana Mandi (HSR)
72561	Seema Mudgil Rakesh Mudgil	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19589 22/09/93	H.No.712, Sector-17, Panchkula.
72562	Seema Rani Pawar Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19464 10/03/93	Canal Colony, Tohana (F.Bad)
72563	Seema Rani Mohan Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19606 01/12/93	E-131, Mughal Mohalla Subash Gate, Karnal.
72564	Shailender Dhawan Mangat Ram	BAMS G.D. Univ., Amritsar 1990	19255 22/01/92	1753/16, Faridabad.
72565	Shailender Singh Bishan Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19107 04/04/91	Jamana Pul Road, Palwar, (F.Bad)
72566	Shailesh Gupta Ramesh Chander	BAMS Punjab State Fac.of AUSM., Chandigarh 1991	19388 19/10/92	Gur Bazar, Ambala Cantt.
72567	Shakti Gur Parshad Lakhpar Rai	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19287 11/05/92	Bajaja Bazar, Ladwa (KKR)
72568	Shakun Ram Gopal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19355 04/09/92	1399, Urban Estate, Hisar.
72569	Shakuntla Chaudhary Kartar Singh	BAMS Gujarat Ay. Univ., Jamnagar 1992	19628 22/12/93	Nehru Colony, Rohtak.
72570	Shakuntla Dahiya Dhoop Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19472 08/04/93	H.No.432/14, Karnal.

72571	Shalima Grover P.K. Grover	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19651 11/01/94	1269/8, Salarpur Road, Kurukshetra.
72572	Shalini Garg Amit Garg	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19667 09/02/94	1/VIII-A, Vidut Nagar, Hisar.
72573	Shama Arora Naresh Arora	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19588 14/09/93	869/38-A, Chandigarh.
72574	Shamsher Singh Sawraj Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19164 24/07/91	Pipli Chowk, Assandh (KNL)
72575	Shamsher Singh Dhani Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19259 22/01/92	V & PO. Ban (Kurukshetra)
72576	Shamsher Singh Mam Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19385 14/11/92	373, New Prem Nagar, Karnal.
72577	Shashi Bhushan A.P. Madan	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1989	19180 20/08/91	Behind Neelam Theatre Jyoti Nagar, Kurukshetra.
72578	Shashi Kala Ranjit Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1993	19661 24/01/94	Gohana (Sonapat)
72579	Shashi Kant Som Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19503 10/05/93	V & PO. Thumber (Ambala)
72580	Shashi Rani Gian Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19563 04/08/93	Thana Road, Fatehabad.
72581	Shashi Saini Anil Saini	BAMS G.D.Univ., Amritsar 1991	19678 03/03/94	V & PO. Mustafabad (Y.Nagar)
72582	Shekhar Verma K.C. Verma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19112 09/04/91	15/870, Jundla Gate, Karnal.

72583	Shobha Ahuja Mohinder Ahuja	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19636 04/01/94	Railway Road, Ganuar (Sonepat)
72584	Shobha Bansal Sanjiwan Kumar	BAMS G.D. Univ., Amritsar 1991	19360 10/09/92	62-A, Ram Nagar, A. Cantt.
72585	Shyam Lal Raitu Ram	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19345 24/08/92	Vill. Budanpur Khalsa P/o Indir (Karnal)
72586	Shyam Lal Ruli Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19584 14/09/93	212, Lajpat Nagar, Hisar.
72587	Sidharath Shanker Lekh Raj	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19352 03/09/92	48/14, Canal Colony, F. Bad.
72588	Simli Partal Maninder Jit Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19641 11/01/94	2494/2, Ambala City.
72589	Simmi Tehri J.N. Tehri	BAMS Punjab Univ., Chandigarh 1992	19599 29/10/93	H.No.3278/46-C, Chandigarh.
72590	Siri Krishan Prabhu Dial	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1990	19127 08/05/91	Chamarian (Rohtak)
72591	Sita Ram Ghansham Dass	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19541 15/06/93	Dharamshala Road, Fatehabad.
72592	Sneh Inderjit Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19475 09/04/93	B-IX-881, Near ITI, Yamuna Nagar.
72593	Som Lata Mukhtiar Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19395 24/11/92	H.No.877/C-28, Bharat Colony, Rohtak..
72594	Somesh Kumar Kharati Lal	BAMS Punjab Univ., Patiala 1988	19200 12/09/91	1579/15, Panchkula.



72595	Sonia Aggarwal I.S. Aggarwal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19668 09/02/94	317/16, Fanchkula.
72596	Subash Chand Shambhu Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19192 26/08/91	Mohalla Mughal Pura Gohana (Sonapat)
72597	Subash Chander Ram Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19175 06/08/91	Railway Road, Kalka (PKL)
72598	Subash Chander Balwant Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19210 24/09/91	2144, Sri Nagar Colony, Jagadhari.
72599	Subash Chander Hira Lal	Ayurvedacharya Rajasthan Univ., Jaipur 1978	19224 07/11/91	Bazar Vakilan, Hisar.
72600	Subash Chander Ram Chander	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19445 05/03/93	H.No.72, Thakur Basti, Fatehabad.
72601	Subash Chander Hari Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19514 18/05/93	Ram Colony, Barnala Road, Sirsa.
72602	Subash Mehla Gurnam Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19204 17/09/91	Vill. Sudhail P/o Khara (Y.Nagar)
72603	Subhra Kumari Arvind Yadav	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19374 08/10/92	Deen Dayal Hospital, Kund (Rewari)
72604	Sudershan Singh Jeet Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19536 04/06/93	V & P.O. Khauri (Rewari)
72605	Sudesh Bala Jasbir Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19671 11/02/94	V & P.O. Bhadra (BHW)
72606	Sudesh Jatian Krishan Jatian	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19474 08/04/93	V & P.O. Saduara (Y.Nagar)

72607	Sudesh Pal Malkhan Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19250 08/01/92	V & P.O. Ratta (Kaithal)
72608	Sudesh Rana C.S. Arya	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19604 01/12/93	W.No.1, Meham (RTK)
72609	Sudhir Kumar Raj Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19104 04/04/91	239/32-A, Chandigarh.
72610	Sujata Ahuja Ravinder Ahuja	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19242 01/01/92	Punjabi Market, Shiv Park, Gurgaon.
72611	Sujata Datt Guru Datt	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19227 25/11/91	Mohalla Hathiyar Singh, Kosli (Rew)
72612	Sujata Vats Satish Vats	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19481 19/04/93	WZ-632, Shiv Nagar, Near Jail Road, Delhi.
72613	Sulesh Kumar Ram Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19399 14/12/92	Vill. Jani P/o Kheri Naru (Karnal)
72614	Suman Bala Sardari Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19409 06/01/93	Purana Bazar, Kotakpura (PB)
72615	Suman Bhargav Vishvender Bhargav	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19520 26/05/93	Dhuala Kuan Narwana (JND)
72616	Suman Lata Vasdev Arora	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19330 05/08/92	Madan Hospital New Railway Road, Gurgaon.
72617	Suman Madan Birbal Madan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19235 04/12/91	Subash Chowk, Charkhi Dedri (Bhiwani)
72618	Sunanda Sharma Jagdish Sharma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19463 29/03/93	113, Manuali House, Ambala Cantt.

72619	Sunayana Bindu	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19438 10/02/93	H.No.688, Inder Nagar, Ambalacity.
72620	Sunil Datt Dharam Pal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19370 22/09/92	775/19, Sainipura, Rohtak.
72621	Sunil Garg Ishwar Dayal Garg	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19140 13/06/91	1/232/II, Laxmi Building Sadar Bazar, Delhi Cantt.
72622	Sunil Kamboj Kishori Lal Kamboj	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19653 11/01/94	Rampur Majara (Y.Nagar)
72623	Sunil Kumar Ram Kumar Gupta	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19396 08/12/92	C-249, Mir Sadan Near Lal Kuan, Karnal.
72624	Sunil Kumar Om Parkash	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19414 07/01/93	Gali Asa Ram Meena Bazar, Mandi Dabwali (SIRSA)
72625	Sunita Ved Paul	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19233 26/11/91	9/13, Nandwani Nagar, Sonapat.
72626	Sunita B.P. Saharwat	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19301 22/06/92	H.No.1212, W.No.21, Gali No.9, Hafed Road, Rohtak.
72627	Sunita Bhader Sain	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19303 23/06/92	504/9, Panipat.
72628	Sunita Arora Niranjan Dass	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19528 31/05/93	Dhurala (KKR)
72629	Sunita Chaudhary J.K. Chaudhary	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19375 12/10/92	363, Jaidev Nagar, Hisar.
72630	Sunita Devi Om Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19276 17/03/92	H.No.1/215, St.No.6, Shankar Garden, Bahadur Garh (Jhajjar)

72631	Sunita Duhan Manmohan Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19300 22/06/92	370, Defence Colony, Hisar.
72632	Sunita Gera Pritam Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19162 24/07/91	373, New Prem Nagar, Karnal.
72633	Sunita Kaushal Rajneesh Kaushal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19495 06/05/93	H.No.555, Mathura Nagari, Police Line, A. Cantt.
72634	Sunita Kaushik Vijender Kaushik	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19521 28/05/93	Mohalla Chakarwanti, Thanesar (Karnal)
72635	Sunita Singh Vinod Kumar Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1984	19580 26/08/93	294, Defence Colony, Hisar.
72636	Sunita Wallia K.G.S. Wallia	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19313 08/07/92	Walia Clinic, Opp. State Bank, Narain Garh (Ambala)
72637	Surat Singh Sher Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19178 09/08/91	Vill. Sihama (M.Garh)
72638	Surender Kumar Babu Ram	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19327 23/07/92	V & PO. Chamrori (Y.Nagar)
72639	Surender Pal Sandhu Shiv Ram Sandhu	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19258 22/01/92	Jaswant Colony, Yamuna Nagar.
72640	Surender Sharma T.K. Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19389 29/10/92	Modo Wali Gali, Halu Bazar, Bhiwani.
72641	Suresh Kumar Rameshwar Dass	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19196 09/09/91	V & PO. Kharkara (Rohtak)
72642	Suresh Kumar Shadi Lal	BAMS G.D. Univ., Amritsar 1990	19254 15/01/92	H.No.1340/29, Faridabad.

72643	Suresh Kumar Siri Krishan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19569 16/08/93	Jaiswal Clinic, Kaimari Road, Hisar.
72644	Suresh Kumar Sat Narain	BAMS M.D.Univ., Rohtak. 1990	19582 26/08/93	V & P.O. Kheri Sadh (Rohtak)
72645	Surinder Kumar Dal Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19386 29/10/92	B-49, Prem Nagar, Hisar.
72646	Surinder Lal Het Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19562 04/08/93	Jahawar Chowk, Fatehabad.
72647	Surinder Mohan Siri Ram Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19342 25/08/92	Vill. Jalmana F/o Bapauli (KNL)
72648	Surinder Pal Kapoor Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19181 20/08/91	Kishanpura, Panipat.
72649	Sushil Kumar Bansi Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19384 20/10/92	Narang Hospital, Thana Road, Fatehabad.
72650	Sushil Kumar Puran Chand Pardhan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19394 24/11/92	Pardhan Street, Charkhi Dadri (Bhiwani)
72651	Sushil Kumar Baldev Krishan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19643 11/01/94	Near Arya Samaj Railway Road, Narwana.
72652	Sushila Jitender Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19232 26/11/91	1635, Urban Estate-II, Hisar.
72653	Sushila Kumari Manphool Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19362 16/09/92	Mohalla Dalan Sanghi (Rohtak)
72654	Sushila Rani Surinder Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19151 02/07/91	Vill. Kail, Teh. Jagadhari (Yamuna Nagar)

72655	Sushma Nain Randhir Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19610 01/12/93	365/17, Railway Road, Rohtak.
72656	T.C. Goel Gian Chand Goel	BAMS Delhi Univ., Delhi 1981	19617 13/12/93	Raja Garden, Faridabad.
72657	Tarsem Singh Khariti Lal	BAMS G.D.Univ., Amritsar 1985	19130 09/05/91	162-B, New Colony, Gurgaon.
72658	Taruna Malhotra Som Nath	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19381 19/10/91	101/27, Prabhat Colony, Near Model Town, Rohtak.
72659	Umang Bakhshi S.S. Bakhshi	BAMS Punjab State Fac. of AUSM., Chandigarh 1991	19393 24/11/92	H.No.4627/29-A, Sarafa Bazar, Ambala Cantt.
72660	Umesh Chander Gupta Ramesh Chander Gupta	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19189 26/08/91	30/410, Trilokpuri, PO. Himmatpuri, Delhi.
72661	Umesh Mittal Suresh Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19195 28/08/91	Devi Bhawan Bazar, Jagadhari (Y.Nagar)
72662	Upsana Amrit Lal Puri	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19328 28/07/92	Prem Nagar, Hisar.
72663	Urvashi Talwar Ram Murti	BAMS Punjab State Fac. of AUSM., Chandigarh 1991	19484 26/04/93	New Colony, Pehowa, Kurukshetra.
72664	Usha Goyal Narender Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19530 03/06/93	408, Gali Lath Singh, Manja (PB)
72665	Usha Joshi Satish Joshi	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19183 20/08/91	18-A, New Milap Nagar, Ambala City.
72666	Usha Rani Sat Dev	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19234 07/12/91	Vill. Mandhar Via Radhwar (Y.Nagar)

72667	Vandana Bansal Mukesh Bansal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19423 10/02/93	3817/32-D, Chandigarh.
72668	Vandana Sharma A.M. Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19273 11/03/92	216, Housing Colony, Phase-I, Sonapat.
72669	Vandana Sharma Sanjay Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19439 17/02/93	Matheri Sheikan, Ambala.
72670	Ved Parkash Sham Lal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19187 26/08/91	12/4, Guru Nanakpur, Kurukshetra.
72671	Veena Sahney Rajender Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19456 16/03/93	6, Civil Line, Opp. Telephone Exchange, Ambala City.
72672	Veena Sharma Manoj Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19564 05/08/93	H.No.2250, Lathurpura Street, Patiala.
72673	Vibha Paruthi Jagdish Chander	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19554 26/07/93	P.T.College, Delhi Gate, Rohtak.
72674	Vijay Kumar Jain P.C. Jain	Ayurvedacharya A.I.Ay.Vidyapeeth, Delhi 1979	19397 10/12/92	B-1349, Dayalpura, Karnal.
72675	Vijay Kumar Dev Raj	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19117 22/04/91	Block No.7, Camp, Yamuna Nagar.
72676	Vijay Kumar Om Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19302 22/06/92	V & P.O. Marwa Kalan (Y.Nagar)
72677	Vijay Kumar Mange Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19547 30/06/93	V & P.O. Bawani Khara (Bhiwani)
72678	Vijay Lakmi Sohan Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19323 17/07/93	101, Defence Colony, Hisar.

72679	Vijay Mittal Kidar. Nath	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19453 11/03/93	229, Sarojani Colony, Yamuna Nagar.
72680	Vijay Pal Singh Sant Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19638 04/01/94	Vill. Rewari Khara P/o Chara (Jhajjar)
72681	Vijay Sharma Om Parkash	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19652 11/01/94	254/9, Rama Partap Gali Chakraverty Mohalla, Kurukshetra.
72682	Vikas Bansal Avnash Chander	BAMS Punjab State Fac of AUSM., Chandigarh 1990	19247 06/01/92	421/8, Panchkula.
72683	Vikbha Sharma Narender Dev Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19272 09/03/92	H.No.698/B, Khnadsa Road, Gurgaon.
72684	Vikram Bindal Ram Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19415 07/01/93	Dhanwantri Nursing Home, Kalka (PKL)
72685	Vinay Kumar Sethi Ram Parkash Sethi	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19493 05/05/93	Near Durga Mandir, Mandi Dabwali (Sirsa)
72686	Vinita Sehgal Rakesh Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	19297 15/06/92	4/226, Shivaji Nagar, Gurgaon.
72687	Vinod Miglani Hakim Rai Miglani	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19416 07/01/93	Mohalla Chakarvarti, Thanesar (KKR)
72688	Vinod Saini Davender Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19119 29/04/91	V & PO. Barara (Ambala)
72689	Vir Bahadur Singh Umed Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19448 10/03/93	V & PO. Kalyat (Kaithal)
72690	Virender Kumar Jiwan Dass	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19372 08/07/92	819/24, Circular Road, Rohtak.



72691	Virender Kumar Raghbir Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19454 11/03/93	Vill. Kheri Jaitan (KNL)
72692	Virender Saini Vidya Bushan	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19488 19/04/93	V & PO. Ram Saran Majra (KKR)
72693	Virender Singh Om Parkash	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1992	19440 17/02/93	MChan Nagar, Kurukshetra.
72694	Vishnu Devi Naresh Sedana	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19155 08/07/91	H.No.73, W.No.9, Chakarvarti Mchalla, Thanesar (KKR)
72695	Vishnu Datt Ladli Parshad	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1990	19139 11/06/91	V & PO. Hathira (KKR)
72696	Vishwakant Sarveshwara Nand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	19509 17/05/93	H.No.4145, Sabzi Mandi, Ambala Cantt.
72697	Vivek Dixit S.B. Dixit	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19124 07/05/91	Parincipal, DAV. College, Subash Colony, Karnal.
72698	Vivek Kumar Yash Pal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	19304 24/06/92	72-A, Krishan Colony, Yamuna Nagar.
72699	Yash Pal Singh Dhum Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1993	19631 22/12/93	Near Devi Mandir, Gharaunda (Karnal)
72700	Yogesh Dev Raj	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	19186 20/08/91	Vandana Nursing Home, Chowk Lahorian, Hisar.
72701	Yudhvir Singh Tomar Khilari Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	19364 <del>16</del> 09/92	Tomar Hospital, Bus Stand Israna (PNP)

C.R. NO. NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION/ AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS:
72702 Ajay Garg Ram Kumar Garg	BAMS Funjah Univ., Chandigarh 1997	20545 07/12/99	458, Sector-4, Panchkula.
72703 Ajay Kumar Zile Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1993	20140 09/06/97	Dhankhar Hospital, Beri (Jhajjar)
72704 Ajay Sharma G.D. Sharma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20300 02/07/98	1D/25, Milap Dawakhana, NT Faridabad.
72705 Ajit Kumar Maman Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20486 08/06/99	Vill. Baganwala, Teh. Tosham (Bhiwani)
72706 Alka Madan Mohan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20320 16/07/98	88-B, Model Town, Rohtak.
72707 Alka Malhotra Pawan Malhotra	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20497 23/06/99	C/o J.J. School, 58, Patel Nagar, Hisar.
72708 Alok Sharma Yagya Dutt Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20513 25/08/99	C/o Dr.O.P. Sharma, Chaura Bazar, Karnal.
72709 Aman Deep Rupal Sanjeev Sharma	BAMS Funjah Univ., Chandigarh 1993	20541 18/11/99	39, New Sharda Nagar, Manar Chowk, Ambala City.
72710 Ambika Sharma Sidharath	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20391 14/01/99	Sharma Hospital, Rohtak Road, Ch. Dadri (Bhiwani)
72711 Ami Lal Balle Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20398 04/02/99	Darshan Poly Clinic, Mohna Teh. Ballabgarh (Faridabad)

72712	Anand Sarup Sharma Jai Pal Sharma	BAMS Exam.- Body AUSM, Delhi 1979	20272 12/05/98	V & P.O. Nissani (Faridabad)
72713	Anil Dutt Sharma Rajesh Ram Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20437 10/03/99	1632/5, Jyoti Nagar, Kurukshetra.
72714	Anil Gogia Jai Dayal Gogia	BAMS Delhi Univ., Delhi 1997	20451 20/03/99	308/4, Ram Nagar, Gurgaon.
72715	Anil Goyal Ved Parkash Goyal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20436 09/03/99	306, Old Housing Board Colony, Jind.
72716	Anil Kumar Sher Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1995	20429 27/07/98	H.No.1546, Sector-9, Faridabad.
72717	Anil Kumar Kashmiri Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20439 16/03/99	V & P.O. Biana, Via Indir (Karnal)
72718	Anil Yadav Shardha Nand Yadav	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20348 26/08/98	V & P.O. Mandola (Pewari)
72719	Anjali Garg Gauri Shankar Aggarwal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20516 31/08/99	H.No.2794/7-A, Green Park, Faridabad.
72720	Anjali Sharma R.C. Sharma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20219 18/02/98	H.No.313, Sector-15-A, Faridabad.
72721	Anjana Madan Satpal Madan	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20408 23/02/99	124, Sri Nagar Colony, Jagadhari, Distt. Yamuna Nagar.
72722	Anju Bala Sushil Hans	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20188 24/11/97	Moti Cinema Road, Mohindergharh.
72723	Anju Bala Narain Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20330 27/07/98	H.No.1651/9, Hafed Chowk, Rohtak.

72724	Anju Garg Atul Kumar Garg	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1991	20226 18/02/98	Sri Kanshigiri Dharamarth Aushdhalya, Sanauli Road, Panipat.
72725	Anju Gupta Lekh Raj	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20411 25/02/99	510, Sector-10, Panchkula.
72726	Anju Modi Vijay Kumar Modi	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20536 12/10/99	325/11, Jain Street, Tohana Distt. Fatehabad.
72727	Anju Singh Khuckhar Virender Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20258 21/04/98	Near Budh Nath Dera, Main Bazar, Indri (Karnal)
72728	Anjula Bhardwaj Shiv Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20162 17/07/97	H.No.7, Industrial Housing Colony, Near Head Post Office, Panipat.
72729	Annu Kakkar K.B. Kakkar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20222 18/02/98	H.No.1353-F, Sector, No.11, Panchkula.
72730	Anoopam Kurl Bal Krishna	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20125 01/05/97	254-A, New Prem nagar, Karnal.
72731	Anshu Bublani Pavinder Bulhani	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20400 04/02/99	2884/2, Jagadhari Gate, Ambalacity.
72732	Anshu Goyal T.R. Goyal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20461 12/04/99	H.No.847/B-4, Inder Furi, Ambala City.
72733	Anup Singh Duli Chand	GAMS M.D.Univ., Rohtak 1778	20198 10/02/97	Sainipura, Charkhi Dadri (Bhiwani)
72734	Anupama Sharma Satya Pal Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20389 14/01/99	H.No.952, Sector-9, Ambala City.
72735	Anupama Sharma R.D. Sharma	BAMS Punjab Univ., Chandigarh 1994	20511 05/08/99	H.No.3152/1, Sector-44-D, Chandigarh.

72736	Anuradha Sharma Dhan Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20419 08/03/99	544, Mahesh Nagar, Ambala Cantt.
72737	Arti Garg Tarsem Garg	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20527 24/09/99	374/3, Krishna Colony, Ichana (Fatehabad)
72738	Arvind Gautam Shiv Kumar Gautam	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20452 22/03/99	352, Sector-15, Sonapat.
72739	Arvind Kumar Hari Ram Gautam	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20149 17/06/97	Gautam Clinic, 387, Guru Nanak Fura, Karnal.
72740	Ashok Bansal Hari Charan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20265 20/04/98	V & PO. Dhurula, Teh-Thanesar (Kurukshetra)
72741	Ashok Kumar Bool Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20121 01/05/97	V & PO. Sareli (Mohindergarh)
72742	Ashok Sharma Krishan Lal Sharma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20220 18/02/98	910/7, HUDA, Kurukshetra.
72743	Ashok Sharma Ramesh Chander	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20397 14/01/99	Mohalla Paraw, Near Govt. Women College, Mohindergarh.
72744	Atul Kumar Garg Moti Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	20227 18/02/98	Sri Kanshigiri Dharamarth Aushdhalya, Sanauli Road, Panipat.
72745	Babita Makhan Lal Pahwa	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20243 26/03/98	7, Devi Bhawan Colony, Hisar.
72746	Babita Batra K.M. Batra	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	20186 24/11/97	H.No.141/18, Mohalla Peerji, Rohtak.
72747	Bharti Chaudhan D.R. Chauhan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20346 26/06/98	H.No.83-B-III, Thakur Basti, Fatehabad.

72748	Bhawna B.P. Gupta	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20334 30/07/98	662, Sector-8, Near Manav Chowk, Ambala City.
72749	Bijender Kumar Ram Sawrup	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20242 26/03/98	1553/30, Vijay Nagar, Sonapat.
72750	Bindu Gupta Yogesh Chander	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20161 16/07/97	197, Prem Nagar, Ambala City.
72751	Bindu Nandwani Sham Sunder	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20372 30/10/98	138, Ttype-IV, FTPS Colony, Panipat.
72752	Charanjit Kaur Satnam Singh	BAMS Panjab Univ., Patiala 1994	20264 30/04/98	1380, Sector-8, Faridabad.
72753	Dal Singh Lathwal Rampal Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20301 02/07/98	V & PO. Chidana, Teh. Gohana (Sonapat)
72754	Dalip Parkash Tara Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	20202 31/12/97	New Yadav Hospital, Multan Colony Chowk, Jind Road, Hansi (Hisar)
72755	Darshan Kumar Hari Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20240 26/03/98	C/o Harish Watch Co., Thana Road, Fatehabad.
72756	Darshan Saini Pilla Ram Saini	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20540 27/10/99	Saini Nursing Home, Bus Stand Chowk, Tohana (Fatehabad)
72757	Darshna Naswa Manohar Lal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20415 26/02/99	H.No.2E/53, NIT, Faridabad.
72758	Deepak Gupta Prem Chand Gupta	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20124 21/05/97	260, Shastri Nagar, Ambala City.
72759	Deepak Gupta Ram Dutt Gupta	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20483 03/06/99	342, Old Housing Board Colony, Bhiwani.

72760	Deepak Pruthi Surjit Lal Pruthi	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20454 22/03/99	H.No. 457 A, Desam Colony, Karnal.
72761	Deepak Sharma Ram Dhan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20296 24/06/98	Deep Health Centre, Delhi Road, Sampla (Rohtak)
72762	Deepali Daljit Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20447 17/03/99	731, Sector-7, Panchkula.
72763	Deepika S.K. Anand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20349 26/08/98	H.No. 1646, OE-II, Hisar.
72764	Deepika Malik Suraj Pal Pahwa	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20189 24/11/97	L-26, N/3, DIF., OE., Gurgaon.
72765	Deepshikha B.C. Pal Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20182 11/09/97	20, Indira Colony, Vikram Mand, Karnal.
72766	Deepthi Goel Sanjeev Goel	BAMS G.D.Univ., Amritsar 1997	20543 18/11/99	V & P.O. Balyal (Ambala)
72767	Deepthi Singh Surender Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20393 14/01/99	Aggarwal Dharamarth, Aushdhalya, Geeta Bhawan, Ch. Dabri (Ehivani)
72768	Devendeer Sangwan P.S. Sangwan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20299 26/06/98	Sangwan Hospital, Uklana Mandi (Hisar)
72769	Devender Singh Gopal Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20312 08/07/98	H.No. 281, Sector-20, HUDA, Sirsa.
72770	Dharam Vir J.N. Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20143 11/06/97	V & P.O. Kehri Sampla, Sarpanch House, Mandi Road, Distt. Rohtak.
72771	Dharmender Kumar Rishi Parkash	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20453 22/03/99	Q.No. 53, Type-II, Thana Civil Lines, Delhi.

72772	Dheeraj Sharma Subhash Chander	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20459 12/04/99	H.No.48-A, Patel Nagar, Hisar.
72773	Dinesh Chaturvedi Gautam Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1995	20180 04/09/97	Sore Wali Gali, Bhiwani.
72774	Dinesh Dutt Ishwar Dutt	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20263 23/04/98	H.No.931/7, Jain Colony, Sonapat.
72775	Dinesh Goel Rajesh Goel	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20311 08/07/98	Goel Clinic, Near City Police Station, Chaura Bazar, Karnal.
72776	Dinesh Kukra Chandu Lal Kukra	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20495 23/06/99	Near Rohila Ten House, W.No.2, Rohtak Road, Ch. Dadri (Bhiwani)
72777	Dinesh Kumar Ram Kumar Bansal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20537 20/10/99	37/2, Devi Bhawan Colony, Hisar.
72778	Dipti Jain Parmod Kumar Jain	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20223 18/02/98	H.No.1188, New Housing Board Colony, Sector-11-12, Panipat.
72779	Durgesh Kumar Nand Lal Chugh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20404 09/02/99	236/4, Marla, Model Town, Gurgaon.
72780	Esha Lathwal Dal Singh Lathwal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20339 04/08/98	V & P.O. Chidana, Teh. Gohana (Sonapat)
72781	Gagan Garg Ramesh Chander Garg	BAMS Punjab Univ., Chandigarh 1999	20546 07/12/99	292, Sector-4, Mansa Devi Complex, Panchkula.
72782	Geeta Bala Bodh Raj Bhatia	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20225 18/02/98	183, Sector-22, Housing Board Colony, Faridabad.
72783	Geeta Kaushik Pardip Kaushik	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1998	20488 18/06/99	H.No.509/20, Shivaji Colony, Rohtak.



72784	Geeta Rai Naresh Rai	BAMS Delhi Univ., Delhi 1992	20519 31/08/99	191-R, Fiyara Chowk, Opp. Shivaji Market, Yamuna Nagar.
72785	Geetanjali Chutani J.L. Chutani	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20282 21/05/98	1891/4, Urban Estate, Gurgaon.
72786	Gobind Krishan Jagan Nath Sharma	GAMS Punjab State Fac. of AUSM., Chandigarh 1979	20356 02/09/98	Main Bazar, Pinjore (Panchkula)
72787	Gulab Singh Chandu Ram	GAMS Punjab State Fac. of AUSM., Chandigarh 1979	20361 29/09/98	V & P.O. Kheri Lamba, Teh. Kalayat (Kaithal)
72788	Gurkit Kaur Tej Pal Singh	BAMS Punjab State Fac. of AUSM., Chandigarh 1990	20354 02/09/98	V.P.O. Abhaypur (Indl. Area-II), Panchkula.
72789	Harbajan Singh Kundan Singh	BAMS Univ. of Bihar, Muzaffarpur 1986	20336 30/07/98	V & P.O. Nakora, Teh. Rania (Sirsa)
72790	Hari Mohan Hari Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20471 03/05/99	801/22, Jhansi Colony, Rohtak.
72791	Hari Persad Dadhich Radhey Sham Dadhich	Ayurved Bhishak A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	20326 21/07/98	Shop No.2, Subzi Mandi, Karnal.
72792	Harish Chander Hans Raj	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20159 16/07/97	644, DC. Colony, Behind BTM, Bhiwani.
72793	Hema Gosain A.C. Gosain	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20386 16/12/98	779, Sector-4, UE, Gurgaon.
72794	Hema Jain Prem Chand Jain	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20323 21/07/98	10-A, Vivek Vihar, Ambala City.
72795	Himani Jagga Mitter Dev Jagga	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20382 16/12/98	642/30, Adrash Nagar, Rohtak.

72796	Ish Gupta Darshan Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak. 1996	20267 30/04/98	W.No.2, Mandi Dabwali (Sirsa)
72797	Ishwer Dayal Puranchand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20237 26/03/98	351/14, UE, Karnal.
72798	Jag Dev Jug Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20157 08/07/97	541/22, Gali No.9, Shivaji Park, Khandsa Road, Gurgaon.
72799	Jagdish Chand Diwala Chand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20155 31/07/97	661, Sector-13, UE, Kurukshetra.
72800	Jai Deep Arya Om Parkash	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20469 22/04/99	82, Arya Bhawan, Prem Nagar, Karnal.
72801	Jaswinder Singh Jangsher Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20417 26/02/99	H.No.1773, New Christian Colony, Jagadhari (Yamuna Nagar)
72802	Kamlesh Jai Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20217 18/02/98	H.No.68, Aggarwal Complex, Babyal (Ambala)
72803	Kamlesh Devi Rajinder Parshad	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1995	20233 18/02/98	49/4-A, Rajinder Nagar, Babyal (Ambala)
72804	Kamlesh Kumar Kapila Ram Sawrup Kapila	GAMS Punjab State Fac. of AUSM, Chandigarh 1974.	20289 26/05/98	Bus Stand, Khizrabad (Yamuna Nagar)
72805	Karam Chand Amar Nath	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20340 04/08/98	V & PO. Bihta (Ambala)
72806	Karam Vir Singh Bhalla Ram	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20364 29/09/98	143, Sector-4, Panchkula.
72807	Kavita Aggarwal Parveen Aggarwal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20515 31/08/99	99, UE-II, Hisar.

72808	Kavita Panchal Sanjay Panchal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1995	20179 01/09/97	644, Sector-15, Faridabad.
72809	Kedar Nath Gupta Lala Chet Ram Ji	Bhishgacharya Ay. & Unani Tibb. Coll., Delhi 1955	20137 04/06/97	V & P.O. Barwala (Ambala)
72810	Kiran Sewa Ram Attri	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20319 15/07/98	H.No.130, W.No.15, Gohana (Sonapat)
72811	Kiran Jhandai Harish Jhandai	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20384 16/12/98	1540, Partap Gate, Kaithal.
72812	Kitab Singh Dahiya Shish Ram	BIMS Exam. Body AUSM, Delhi 1967	20337 04/08/98	W.No.7, Delhi Road, Kharkhoda (Sonapat)
72813	Krishan Ram Kumar Verma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20112 03/04/97	1427, UE., Jind.
72814	Krishan Chander Khiyali Ram Sihag	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1984	20310 08/07/98	V & P.O. Phula (Fatehabad)
72815	Krishan Kant Nawal Kishore	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20148 17/06/97	B-1/101, Sadar Bazar, Sirsa.
72816	Krishan Lal Hari Chand Midha	BAMS KSDS. Univ., Darbhanga 1994	20176 20/08/97	Midha Aushdhalya, Dayal Bagh Colony, Jind.
72817	Kriti Dua Girish Kumar Dua	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1993	20259 21/04/98	614-R, Model Town, Panipat.
72818	Kuldip Sharma Raj Kumar Sharma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20273 12/05/98	Near Railway Station, Barara (Ambala)
72819	Kuldip Singh Rana Jai Singh Rana	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20304 02/07/98	H.No.316, Ghewara, Delhi.

72820	Kusum Singh Dharmenda Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20423 08/03/99	26, Ganesh Vihar, Ambala. Cantt.
72821	Leena Rani Manohar Lal Virmani	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20355 30/07/98	2236, Sector-27-C, Chandigarh
72822	Madan Singh Parmar Udey Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20331 28/07/98	V & PO, Kalayat (Kaithal)
72823	Madhu Gupta Ramesh Kumar Gupta	BAMS Punjab Univ., Chandigarh 1997	20544 07/12/99	Ramesh Ausdhalaya, Main Bazar, Pinjore (Panchkula)
72824	Mahavir Parsad Dharam Pal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20388 29/12/98	V & PO, Birhi Kalan (Bhiwani)
72825	Mahavir Singh Rattan Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1985	20295 25/06/98	V & PO, Bhanbhera (Jind)
72826	Mahender Pal Sharma Dharam Pal Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20526 24/09/99	C/o Shambhu Dayal, Modern School, Sonapat.
72827	Mahender Singh Nathu Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20239 26/03/98	V & PO, Khaleta (Rewari)
72828	Mahesh Kumar Chaman Lal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20195 02/12/97	Vill. Mandiana, PO. Dharshu Teh. Narnaul (Mahendergarh)
72829	Mamta Rattan Lal Garg	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20210 19/01/98	C/o Dr. Sampat Bansal, Purani Mandi, Oklana Mandi (Hisar)
72830	Mamta Singh D.C. Chugh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20578 03/08/99	92, Ram Nagar, Colony, BTM Road, Bhiwani.
72831	Mandeep Singh Babu Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20314 08/07/98	H.No.179, W.No.13, Tohana (Fatehabad)

72832	Mangat Rai Arora Fiare Lal	Ayurved Bhishhak A.I.Ay.Vidyapeeth, Delhi 1962	20474 06/05/99	Ganga-Ja Hospital, Roti Bazar, Subhash Chowk, Sirsa.
72833	Manish Juneja Baldev Juneja	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20313 08/07/98	Atul Clinic, S.J.K. Road, Kalanaur (Rohtak)
72834	Manish Sharma Sampat Ram Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20302 02/07/98	139/1, Bhimgarh Kheri, Gurgaon.
72835	Manisha Suresh Kumar Goel	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20190 24/11/97	Patialaian Chowk, Mustafaabad, Distt. Yamuna Nagar.
72836	Manisha Bansal A.K. Bansal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20297 24/06/98	4, PWD Colony, Gohana Road, Rohtak.
72837	Manju Inder Pal Bhatia	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20328 23/07/98	188/24, Near Shiksha Bharti Vidyalya, Ram Nagar, Rohtak.
72838	Manoj Kumar Tara Singh Goel	BAMS KSDS. Univ., Darbhanga 1994	20174 20/08/97	Goyal Hospital, Jhanj Gate, Jind.
72839	Manoj Kumar Rathie Raj Singh Rathie	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20254 21/04/98	1780/5, Jyoti Nagar, Behind Nirankari Satsang Bhawan, Kurukshetra.
72840	Manoj Kumar Takkar Nand Lal Takkar	BAMS Delhi Univ., Delhi 1992	20479 02/06/99	31, Friends Colony, Hisar.
72841	Manoj Yadav Dhan Raj	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20387 24/12/98	Vill. Gindokhar, P.O. Bodia Kamalpur (Rewari)
72842	Manveer Singh Avtar Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20489 18/06/99	B-917, Banso Gate, Karnal.
72843	Meena Saini Rajiv Sani	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1995	20147 17/06/97	1357, Hargo Lal Chand Road, Ambala Cantt.

72844	Meena Sharma Sandeep Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20173 20/08/97	C/o Sh.R.B. Kalia, 116/A, Railway Colony, Hisar.
72845	Meenakshi Anchal Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20503 16/07/99	V & P.O. Bhana (Kaithal)
72846	Meenakshi Arora Kewal Krishan Arora	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20192 24/11/97	H.No.47-B, Model Town, Fatehabad.
72847	Meenakshi Bhatia Devaki Nandan Bhatia	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20321 16/07/98	H.No.57-B, W.No.4/11, Tohana (Fatehabad)
72848	Meenakshi Gupta Om Parkash Gupta	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20288 21/05/98	H.No.24, Mahesh Nagar, Behind Bhagwati Mandir, Ambala Cantt.
72849	Meenakshi Mehta Gian Chand Mehta	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20394 14/04/99	H.No.319-20, Housing Board Colony, Bhiwani.
72850	Meenakshi Sharma Prem Chand Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20357 11/09/98	H.No.269, Sector-13, Kurukshetra.
72851	Meenu Surender Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20139 09/06/97	Bara Pana, Kalanaur (Rohtak)
72852	Meenu Jagga Sunil Jagga	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20193 24/11/97	H.No.836/23, DLF Colony, Rohtak.
72853	Minal Chawla Mohinder Singh Chawla	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1995	20322 21/07/98	128, Sector-13, UE, Karnal.
72854	Mona Anand Manohar Kumar Anand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20276 12/05/98	H.No.2024/18, Gali No.5, Rampura Mohalla, Hisar.
72855	Monica Jagat Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20131 12/05/97	325, Housing Board Colony, Jind.

72856	Monica R.N. Miglani	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20144 11/06/97	637, Sector-11, Panchkula.
72857	Monica Charan Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20168 01/08/97	1188/21, Prem Nagar, Rohtak.
72858	Monica Goel Vidya Rattan Goel	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20493 18/06/99	4550, Subzi Mandi, Ambala Cantt.
72859	Mukesh Goel Rajesh Goel	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20142 11/06/97	Goel Clinic, Chaura Bazar, Near City Police Station, Karnal.
72860	Mukesh Kr. Aggarwal Hari Krishan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20381 25/11/98	Main Bazar, Gharaunda (Karnal)
72861	Mukesh Kumar Jai Pal Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20481 02/06/99	891/7, New Court Road, Anil Vihar, Sonapat.
72862	Mukesh Kumar Perhlad Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20505 16/07/99	Moh. Mark Sheed, W.No.7, Near Nalapaar, Narnaul (Mahendergath)
72863	Munish Sachdeva B.P. Sachdeva	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20286 21/05/98	1091, Sector-7, Phase-II, Kurukshetra.
72864	Nand Kishore Ram Dev	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20135 29/05/97	V & P.O. Dahina (Rewari)
72865	Narender Kaur Joginder Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20160 16/07/97	H.No.2180/2, Near Jagadhari Gate, Ambala City.
72866	Narender Kumar Mange Ram	BAMS KSDS. Univ., Darbhanga 1995	20498 23/06/99	Sri Vishnu Ayurvedic Aushdhalya, Uklana Mandi (Hisar)
72867	Naresh Kumar Yoginder Nath	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20138 09/06/97	69, Sain Dass Colony, Rohtak.

72868	Naresh Kumar Nathu Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20178 20/08/97	Masjid Mohalla, Main Bazar, Bahadurgarh (Jhajjar)
72869	Naresh Kumar Raj Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20200 24/02/97	Vill. Katlupur, PO. Nahri Teh. Kharkhauda (Sonapat)
72870	Naresh Kumar Surya Kant Bhardwaj	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20257 21/04/98	Near Bank of India, Tigaon (Faridabad)
72871	Neelam Bala Rama Nand	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1995	20213 18/02/98	Vill. Rampura, PO. Hudina (Mahendergarh)
72872	Neelam Kolonia Kalonina	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20431 08/03/99	Dhikara Road, Ch. Dadri (Bhiwani)
72873	Neeraj Rath Nafe Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20350 26/08/98	Bharat Hospital, Jhajjar Road, Sampla (Rohtak)
72874	Neeraj Singal Ashok Singal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20232 18/02/98	1116/3, Chowk Darzian, Ambala City.
72875	Neeru Manchanda Dinesh Manchanda	BAMS Punjab Univ., Chandigarh 1995	20531 24/09/99	V & PO. Lakhnamajra (Rohtak)
72876	Nidhi Aggarwal Jitender Aggarwal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	20279 19/05/98	1474, Sector-15, Panchkula.
72877	Nidhi Bansal R.K. Bansal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20445 17/03/99	28/6, Jacobpura, Gurgaon.
72878	Nidhi Gupta Rajiv Gupta	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20468 16/04/99	867, Sector-16, Panchkula.
72879	Nisha Aggarwal Kshitij Aggarwal	BAMS Punjab Univ., Chandigarh 1993	20530 24/09/99	Opp. Sr. Secondary School, Aggarwal Hospital, Main Road, Siwani (Bhiwani)



	Paramjit Kaur Bhupinder Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995			106, Housing Board, Bhiwani.	
72881	Nirvin Rohila P.C. Rohila	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997		20410 23/02/99	6, The Mall, Karnal.	
72882	Om Parkash Sahu Net Ram Sahu	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996		20249 26/03/98	V & PO. Ujhina, Teh. Nuh (Gurgaon)	
72883	Om Shanker Mahender Parkash Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996		20278 12/05/98	120/8, Near City Post Office, Kaithan	
72884	Pankaj Kumar Taneja Lachhman Dass	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997		20484 03/06/99	H.No.35/8, N.C. Palwal (Faridabad)	
72885	Pankaj Pawat Dharam Pal Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997		20470 30/05/99	H.No.15, Dunda Hera (Gurgaon)	
72886	Pankaj Asija P.P. Asija	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996		20327 22/07/98	Asija Hospital, Dogran Mohalla, Hisar.	
72887	Paramjit Kaur Bhupinder Singh	BAMS Punjab State Fac. of AUSM., Chandigarh 1992		20549 21/12/99	Sidhu Hospital & Maternity Home, Doctor Market, Kalanwali, Sirsa.	
72888	Paramjit Kaur Gilan Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1995		20170 20/08/97	Ambala Road, Fehowa (Kurukshetra)	
72889	Pardeep Kumar Hans Paj Basarwadia	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997		20496 23/06/99	Vill. Khanpur, Post Mandhana, Teh. Narnaul (Mahendergarh)	
72890	Pardeep Kumar Dharam Pal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996		20366 29/07/98	V & PO. Haroda Kalan, Teh. Dadri (Bhiwani)	
72891	Pardeep Kumar Kashmiri Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996		20383 16/12/98	V & PO. Shadipur (Yamuna Nagar)	

72892	Faraina Juneja P.S. Mehta	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20491 18/06/99	70, Green Park, Hisar.
72893	Paritabha Ashok Kumar Batra	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20365 29/09/98	214-R, Model Town, Rewari.
72894	Parmed Kumar Yad Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20456 12/04/99	H.No.459, W.No.15, Saini Pura, Rohtak.
72895	Parmed Kumar Rohila Sham Lal Rohila	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20407 23/02/99	Gali No.2, Matviya Nagar, Mehlana Road, Sonapat.
72896	Parneeta Joon K.S. Joon	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1992	20360 15/09/98	793/35, Janta Colony, Rohtak.
72897	Parveen Goyal Ishwer Chand Goyal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20532 05/10/99	C/o Shok Kangla, Shivalik Scientific Store, 100 Feet Road, Ballabgarh (F.Bad)
72898	Parveen Kumari Om Parkash Mehta	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20172 20/08/97	134, Patel Nagar, Hisar.
72899	Poonam Balbir Singh Anil	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20475 24/05/99	H.No.26/193, Arya Nagar, Sonapat.
72900	Poonam Arya Ramesh Kumar Arya	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20250 01/04/98	Arya Polio Lakwa Clinic, Gandhi Nagar Colony, Hansi (Hisar)
72901	Poonam Asija Rajesh Asija	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20113 09/04/97	Asija Hospital, Band Gate, Near Shiv Chowk, Sirsa.
72902	Poonam Gaso Ravinder Gaso	BAMS Punjabi Univ., Patiala 1993	20550 21/12/99	510/8, Geeta Colony, Kurukshetra.
72903	Poonam Sharma Surinder Kumar Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20274 12/05/98	Bawa Maternity Hospital, Nilokheri (Karnal)

72904	Poonam Sharma Bhim Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20462 12/04/99	C/o Dr. Nagarmal Hospital, Mandi Adampur (Hisar).
72905	Poonam Tundwal N.R. Dahiya	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20517 31/08/99	H.No.3020, New Housing Board Colony, Sector-13, Bhiwani.
72906	Pragati Kanungo Shirish Kanungo	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20370 23/10/98	396, Housing Board Colony, Rohtak.
72907	Preeti Rani Bachan Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20424 08/03/99	503/13, Urban Estate, Kurukshetra.
72908	Priti Bhatia Neeraj Bhatia	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20480 02/06/99	516, Sector-22, Faridabad.
72909	Priti Sharma Rishi Ram Sharma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20224 18/02/98	Model Town, Narwana (Jind)
72910	Priya Darshi Inder Singh Shastri	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20435 09/03/99	H.No.500/25, Laxmi Nagar, Rohtak Road, Jind.
72911	Promilla Chhabra Gopal Chhabra	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20318 15/07/98	407, Sector-12, Fanchkula.
72912	Purnima Chopra Devender Kumar Chopra	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20287 21/05/98	68-C, Ajit Nagar, Ambala Cantt.
72913	Pushpa Yadav Hukam Chand Yadav	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20141 11/06/97	Yadav Hospital, Paliawas (Rewari)
72914	Pachna Atreja Pajinder Atreja	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20117 11/04/97	B-123, Model Town, Karnal.
72915	Raj Bala E.R. Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20122 01/05/97	2789, Sector-3, Faridabad.

72916	Raj Bala Mahabir Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20163 24/07/97	H.No.4, Sapat Colony, Hisar.
72917	Rajeev Girdhar Jagdish Lal Girdhar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20512 27/08/99	13/159, Dharampura, Najafgarh Road, Bahadurgarh (Ghajjar)
72918	Rajesh Kumar Har Dayal Sardana	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20458 12/04/99	H.No.213, Near Govt. High School, Patel Nagar, Hisar.
72919	Rajesh Kumar Anant Ram	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1995	20204 13/01/98	H.No.111, Sector-4, UE, Gurgaon.
72920	Rajesh Kumar Mange Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20315 15/07/98	V & P.O. Gandhi (Rohtak)
72921	Rajesh Kumar Sachdeva Bhagwan Dass	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20126 01/05/97	615/9, Panipat.
72922	Rajesh Kumar Saini Dal Singh Saini	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20333 30/07/98	83-D/14, Kirpal Nagar, Rohtak.
72923	Rajinder Parsad Lal Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1990	20215 18/02/98	Setia Nursing Home, Patel Nagar, Hisar.
72924	Rajiv Bishnoi Sham Lal Bishnoi	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20128 01/05/97	H.No.615, Sector-8, Panchkula.
72925	Rajiv Kumar Gupta Naurata Ram	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20111 03/04/97	92/5, Gandhi Nagar, Jind City.
72926	Rajiv Kumar Sharma Mahesh Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20127 01/05/97	Bhagwat Sarup Clinic, Opp. Palika Bazar, Jind.
72927	Rajneesh Ishwer Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20478 24/05/99	H.No.424, Behind Hindu Roys College, Sonapat.

72928	Rajnish Satpal Chiba	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20231 18/02/98	1/2, GMT Colony, Near Telephone Exchange, Ambala Cantt.
72929	Rajno Gupta Parmod Kumar Gupta	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	20266 30/04/98	Gupta Nursing Home, Ramgarh (Panchkula)
72930	Raju Bhatia G.B. Bhatia	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20303 02/07/98	1A/135, NIT, Faridabad.
72931	Rakesh Kumar Inder Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20244 26/03/98	62/13, Hanuman Colony, Gohana Road, Rohtak.
72932	Rakhi Soni N.P. Soni	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20375 10/11/98	1141/23, DLF Colony, Rohtak.
72933	Ram Avtar Jalodia Ram Kishan Jalodia	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20521 09/09/99	R.S.D.Nursing Home, Behal (Bhiwani)
72934	Ram Avtar Prashar Jai Narain Prashar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20241 26/03/98	Vill. Badkhalsa, PO. Rai (Sonapat)
72935	Ram Avtar Sharma Salig Ram Sharma	Ayurved Bhishak A.I.Ay.Vidyapeeth, Delhi 0	20150 01/07/97	Main Bazar, Farrukh Nagar (Gurgaon)
72936	Ram Avtar Singh Balwant Singh	BAMS KSDS. Univ., Darbhanga 1994	20185 06/10/97	V & PO. Basai, PO. Garhi Bolni (Rewari)
72937	Ramten Malhotra R.C. Malhotra	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20433 09/03/99	H.No.1026, Sector-9, Faridabad.
72938	Ramesh Kumar Rattai Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20260 21/04/98	V & PO. Barna (Kurukshetra)
72939	Ramesh Kumar Saini Ragbir Saran	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20194 02/12/97	V & PO. Dharso, Teh. Narnaul (Mahendergarh)

72940	Ranjit Kumar Shukla Jagdish Lal Shukla	Vaidyacharya A.I.Ay.Vidyapeeth, Delhi 1982	20343 11/08/98	R.S.Clinic, Old D.C. Road, Jiwan Nagar, Sonapat.
72941	Ranju Bansal Manoj Goyal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20395 14/01/99	H.No.250, Sec-18, Panchkula.
72942	Rashi Jain Suresh Kumar Jain	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20238 26/03/98	H.No.217, Gali No.4, Aggarsain Colony, Sirsa.
72943	Rashmi Arora Mahender Kumar Arora	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20154 03/07/97	966/25, Chineot Colony, Rohtak.
72944	Rashmi Sharma S.C. Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20298 24/06/98	H.No.136, Vijay Nagar, Bhiwani.
72945	Ravi Gogia Jai Dayal Gogia	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20130 12/05/97	308/4, Ram Nagar, Gurgaon.
72946	Ravi Kant Dharam Pal Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20529 24/09/99	818, Sector-7, UE, Ambala City.
72947	Ravinder Kaur Trilochan Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20466 12/04/99	H.No.10-B, Kailash Nagar, Model Town, Ambala City.
72948	Ravinder Kumar Rattan Lal Jain	BAMS Delhi Univ., Delhi 1984	20158 09/07/97	V & PO. Dharuhera (Rewari)
72949	Ravinder Sharma Jagdish Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20256 21/04/98	765/22, Thang Colony, Rohtak.
72950	Ravinder Singh Bisshan Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20284 21/05/98	H.No.524, Agra Chowk, G.T. Road, Palwal (Faridabad)
72951	Reena Rani Ramesh Chander	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20187 24/11/97	H.No.261, Civil Line Gurgaon.

72952	Reena Sadana Rattar Lal Sadana	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20281 20/05/98	H.No.557/3, Panipat.
72953	Rekha Juneja Parmod Juneja	BAMS G.D.Univ., Amritsar 1995	20151 01/07/97	Cross Road No.11, Kacha Bazar, Ambala Cantt.
72954	Rekha Luthra Vas Dev Luthra	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20269 12/05/98	916, Indira Nagar Colony, Dehradun (U.P)
72955	Rekha Rani Swaran Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20305 02/07/98	Railway Road, Bahadurgarh (Jhajjar)
72956	Rekha Sharma Ram Sanehi Sharam	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20510 29/07/99	37-A, Raja Park, Ambala Cantt.
72957	Renu P.P. Aggarwal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20378 20/11/98	Olympics Sports, Inside Nagori Gate, Hisar.
72958	Renu Bala Shashi Bhushan Madan	BAMS Punjab Univ., Patiala 1990	20214 18/02/98	Sanjivini Hospital, Hansi Road Chowk, Karnal.
72959	Renu Sharma Raghubir Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20205 13/01/98	H.No.13/23, Moh. Mazid, Main Bazar, Bahadurgarh (Jhajjar)
72960	Ridhi Singla Ashwini Singhla	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra -1995	20181 11/09/97	8862/5, Railway Road, Ambala City.
72961	Rishi Thukral D.N. Thukral	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20413 25/02/99	104/13, Jagdish Colony, Hansi (Hisar)
72962	Ritu Bindlish R.P. Bindlish	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20294 15/06/98	200, Defence Colony, Hisar.
72963	Rituy Bhandari G.K. Bhandari	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20252 21/04/98	H.No.40, Kanshi Nagar, Model Town, Ambala City.

72964	Rohit Kumar Roop Ram	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1995	20183 06/10/97	Saraswati Colony, Opp. Mini Zoo, Pipli (Kurukshetra)
72965	Rohtash Laxman Dass	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1997	20507 16/07/99	C/o Singh Hospital, Tohana Road, Rattia (Fatehabad)
72966	Rubi Sharma Hemant Agnihotri	BAMS G.D. Univ., Amritsar 1996	20262 23/04/98	H.No. 701, Sec-9, UE, Ambala City.
72967	Ruby S. Verma Satender Verma	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1997	20492 18/06/99	H.No. 107, Abheyapur, Indl. Area, Phase-1, Panchkula.
72968	Ruchi Shukla Laxmi Kant Shukla	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20416 26/02/99	H.No. 984, Sector-16, Faridabad.
72969	Ruchika Batra M.M. Batra	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20412 25/02/99	H.No. 1126, Sector-10, Panchkula.
72970	Ruchika Malhotra Kuldip Malhotra	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1996	20316 15/07/98	Kothi No. 518, UE-II, Hisar.
72971	Ruchita Sri Krishan Sharma	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1995	20120 11/04/97	Rishikul Vidyapeeth, Near Panchayat Bhawan, Sonapat.
72972	Rup Lal Leela Ram	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1995	20208 19/01/98	Vill. Dudhaila, PO. Baghaura, Teh. Palwal (Faridabad).
72973	Rupali Mehtani Roopan Mehtani	BAMS G.D. Univ., Amritsar 1997	20508 29/07/99	Delhi Nursing Home, G.T. Road, Fatehabad.
72974	Rupinder Kumar Hawa Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20230 18/02/98	H.No. 112, Basant Vihar, Karnal.
72975	Sahibjeet Singh J.S. Arora	BAMS Univ. of Kurukshetra, Kurukshetra 1997	20420 08/03/99	45, Bank Colony, The Mall, Karnal.



72976	Sameer Madan Chander Bhan Madan	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1995	20171 20/08/97	Gali No.6, Shanti Nagar (Opp. IInd Gate) Kurukshetra.
72977	Sandeep Gupta S.C. Gupta	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20243 26/03/98	H.No.564, Sec.No.13, UE, Kurukshetra.
72978	Sandeep Malik Karan Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20477 24/05/99	1525/31, Kamla Nagar, Rohtak.
72979	Sandeep Tokhi Parkash Tokhi	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20206 13/01/98	Kothi No.46, Sector-8, Panchkula.
72980	Sandeepa Chatterjee S. Chatterjee	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20392 14/01/99	XII/125, New Campus, HAU, Hisar.
72981	Sangeeta Rajeev Manchanda	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20116 11/04/97	927/2, Ward No.6, Chowk Kapyan, Rohtak.
72982	Sangeeta Jindal Sunil Jindal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20309 02/07/98	626/13, UE, Kurukshetra.
72983	Sangeeta Kaushik Rakesh Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20145 12/06/97	Jeevan Hospital, Opp. Girls School, Bawal (Rewari)
72984	Sangeeta Khurana S.K. Khurana	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20132 13/05/97	11-B/34, Old Campus, HAU, Hisar.
72985	Sanjay Som Nath	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20118 11/04/97	27/9, Yog Nagar, Thandi Sadak, Hisar.
72986	Sanjay Radhey Sham	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20524 24/09/99	Near Hafed Road, Railway Road, Mahendergarh.
72987	Sanjay Rajpal D.N. Rajpal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20341 10/08/98	1011/13, Mahavir Colony, Behind Sangeet Cinema, Panipat.

72988	Sanjay Kalonia Raj Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20236 26/03/98	Dhikara Road, Near Kalonia Furniture House, Ch. Dadri (Bhiwani)
72989	Sanjay Kumar Jagdish Palsad	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20342 11/08/98	779/4, UE., Gurgaon.
72990	Sanjay Kumar Anant Ram	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20418 26/02/99	V & PO. Biana, Via Indri (Karnal)
72991	Sanjay Kumar Jagdish Chander	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20434 1999	Ajay Niwas, Tigrana (Bhiwani)
72992	Sanjay Kumar Raje Ram	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1997	20457 12/04/99	V & PO. Tigrana (Bhiwani)
72993	Sanjay Kumar Sunder Dass	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1997	20467 12/04/99	256/28, Gali No.6, Jecti Park, Gurgaon.
72994	Sanjay Nagpal Sham Lal Nagpal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20115 11/04/97	Deepak Clinic, New Bazar, Near Mohan Cinema, Thenesar (Kurukshetra)
72995	Sanjay Sewal Ram Krishan	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1997	20460 12/04/99	120-A, Scheme No.19, Jind.
72996	Sanjay Yadav Mohar Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20153 27/06/97	V & PO. Mandhana, Teh. Narnaul (Mahendergarh)
72997	Sanjeev Navneet Rai	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20535 18/10/99	635/13, Multani Chowk, Hisar.
72998	Sanjeev Guliani R.D. Guliani	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20501 16/07/99	3HB-1, Ram Nagar, Near Jagadhari Gate, Ambala City.
72999	Sanjeev Gupta Ram Rattan Gupta	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20191 24/11/97	C-3-966, Mohalla Behal Garan, Jagadhari (Yamuna Nagar.)

73000	Sanjeev Kumar Suresh Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20324 21/07/98	363-A, Dev Colony, Rohtak.
73001	Sanjiv Kumar Brij Lal Chawla	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1998	20472 03/05/99	Kaithal Road, Karnal.
73002	Sanjiv Verma Vishva Pal Verma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20353 02/09/98	170/9, Babra Mohalla, Khari Kui, Rohtak.
73003	Santvana Sharma Shiv Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20248 26/03/98	V & PO. Thamber (Ambala)
73004	Sapna Setia Suresh Chander	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20169 01/08/97	Setia Nursing Home, Purana Adda, Gohana (Sonapat)
73005	Sarita Pushkar Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20446 17/03/99	261, Shiv Colony, Near Railway Club, Rewari.
73006	Sarita Joon Jitender Singh Joon	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20396 14/01/99	C/o Mrs. Sushila Dahiya, Arya Girls Sr.Secondary School, Sirsa.
73007	Saroj Suresh Singroha	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20308 02/07/98	283. Sector-30, Faridabad.
73008	Saroj Bala Satish Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20268 08/05/98	Vill. Birtha Beri, PO.Bir Bangra (Kaithal)
73009	Saroj Mehra Bhoop Singh Mehra	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20338 04/08/98	1954, Sec-16, Faridabad.
73010	Sarvesh Gautam Vishnu Dutt Gautam	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20255 21/04/98	101, Subhash Nagar, Rohtak.
73011	Satish Kumar Chand Rup	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20136 29/05/97	1/55, Patel Park, Bahadurgarh (Jhajjar)

73012	Satish Kumar Banwari Lal	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20277 12/05/98	V & PO. Munda Hera (Jhajjar)
73013	Satish Kumar Jagan Nath Malhotra	BAMS KSDS., Univ., Darbhanga 1996	20405 15/02/99	Rori Bazar, Sirsa.
73014	Satya Parkash Gupta Bhagwat Sarup	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20246 26/03/98	Gali Gokal Chand, Arya, Bifvan Pana, Bhiwani.
73015	Satya Vir Zile Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20164 24/07/97	V & PO. Bharan, Teh. Meham (Rohtak)
73016	Satyabir Lal Ji Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20271 12/05/98	Vill. Talot, PO. Bashirpur, Teh. Narnaul (Mahendergarh)
73017	Satyapal Singh Rattan Singh Chaudhary	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20216 18/02/98	H.No.1556/13, UE., Kurukshetra.
73018	Savita Gupta Uma Shankar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1987	20123 01/05/97	37, Ahluwalia Building, Ambala Cantt.
73019	Savita Kadian H.R. Kadian	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20275 12/05/98	H.No.62, Adrash Nagar, Near Sector-14, Sonapat.
73020	Seema Bakshi K.D. Bakshi	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20280 19/05/98	30-A, Durga Nagar, Ambala Cantt.
73021	Seema Bhatia Subhash Chander Bhatia	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20307 02/07/98	1E/75, NIT, Faridabad.
73022	Seema Jhamb Om Parkash Jhamb	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20427 08/03/99	576/6, Patel Nagar, New Colony, Kurukshetra.
73023	Seema Rani Chander Bhan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20399 04/02/99	376, Housing Board Colony, Bhiwani.

73024	Seema Taneja Mahesh Kumar Taneja	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20221 18/02/98	225, Sector-23, NIT, Faridabad.
73025	Sewa Wati Rohit Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1995	20196 02/02/97	Opp. Zoo, Saraswati Colony, Pipli (Kurukshetra)
73026	Shalini H.L. Jhamb	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20291 03/06/98	173, Sector-13, Hisar.
73027	Shalini Sanjay Chawla	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1989	20325 21/07/98	9/18, Ashok Nagar, Committee Plot, Sonapat.
73028	Shalini Chhabra Sandeep Chhabra	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20317 15/07/98	Chhabra Clinic, Mohan Nagar, Kurukshetra.
73029	Shalini Relhan Desh Raj Manocha	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20385 16/12/98	Gaushala Bazar, Thanesar (Kurukshetra)
73030	Shashi Bala Raghubir Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20351 26/08/98	Shiv Colony, Mahendergarh Road, Near Podar Hospital, Narnaul (Mahendergarh)
73031	Shaveta Sharma Ajay Sharma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20476 24/05/99	1D/25, NIT, Faridabad.
73032	Sheetal Gandhi Harish Chand Gandhi	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20119 11/04/97	H.No.1333, BST, Road, Ganaur (Sonapat)
73033	Shipra Bansal Sudhir Bansal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20534 08/10/99	140, Sector-13, Hisar.
73034	Shiv Kumar Harphool Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20523 09/09/99	887/11, Gobind Colony, Kaithal.
73035	Shivani Vinod Gupta	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20332 28/07/98	H.No.582, Sec-10, Panchkula.

73036	Shivani Garg A.K. Garg	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20406 23/02/99	493, Bar Street, Bhiwani.
73037	Sneh Sehgal Vinod Kr. Sehgal	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1995	20197 12/02/97	438, Sec-22, HBC, Faridabad.
73038	Sonal Ranjir Singh	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20499 16/07/99	Rajmal Hospital, Mission Road, Sonapat.
73039	Sonal Anand I.P. Arora	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1997	20494 23/06/99	13-F, New Model Colony, Ambala City.
73040	Subhash Chander Ram Chander	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 1994	20175 20/08/97	Near HSEB., Jind.
73041	Subhash Chauhan Dev Karan Chauhan	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20345 12/08/98	Moh. Farash Khana, Narnaul (Mahendergarh)
73042	Subhash Takkar Ram Lal Takkar	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1981	20167 01/08/97	768/9, Kewalganj, Rohtak.
73043	Sudesh Bohra Ganga Ram	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1994	20371 20/10/98	22, Nai Anaj Mandi, Bhiwani.
73044	Sudha Manocha Udey Bhan Manocha	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1996	20293 17/06/98	2404, Sector-7-A, Faridabad.
73045	Sudhir Kumar Dalip Singh	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1995	20235 26/03/98	62, M.C. Colony, Ch. Dadri (Bhiwani)
73046	Sukh Mahender Singh Parbhu Dayal	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1996	20207 14/01/98	V & PO. Haroda Kalan (Bhiwani)
73047	Suman Bala Brij Mohan Setia	BAMS M.D. Univ., Rohtak 1996	20390 14/01/99	2/IV, Sanchar Kunj, Telephone Colony, Defence Colony, Hisar.

73048	Suman Devi Kalwinder Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20133 13/05/97	Vill. Chhuchhakwas, P.O. Matanhail (Jhajjar)
73049	Suman Kumari Chandel Om Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20520 31/08/99	117-B, Adjoining Capital Cinema, Ambala Cantt.
73050	Suman Lata Dhooop Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20129 12/05/97	692/23, DLF Colony, Rohtak.
73051	Suman Madan G.D. Madan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20306 02/07/98	H.No.1, Govt. Quarters, Sector-7-A, Faridabad.
73052	Suman Rani Suresh Kumar Gupta	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20430 08/03/99	V & P.O. Rambha (Karnal)
73053	Sumitra Ajay Kumar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20152 27/06/97	Dhankhar Hospital, Near Bus Stand Beri (Jhajjar)
73054	Sunaiana Sharma Narotam Meer	BAMS G.D.Univ., Amritsar 1986	20270 12/05/98	Near Hospital, Opp. Majri Adda, Purani Pulia, Indri (Karnal)
73055	Sunanda Bhardwai D.K. Bhardwaj	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20283 21/05/98	CHC., Kharkhoda (Sonapat)
73056	Sunder Singh Bir Singh Siwatch	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1991	20203 31/12/97	69, Siwach Hospital, Bhattu Mandi (Fatehabad)
73057	Sunil Jangra Om Parkash	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20134 29/05/97	C/o M/s Ved Parkash Vijay Kumar, Kath Mandi, Ch. Dadri (Bhiwani)
73058	Sunil Kumar Anand Sarup	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20251 16/04/98	H.No.170/34, Vishav Karma Nagar, Rohtak.
73059	Sunil Kumar Gian Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20504 16/07/99	155/XII, Ghoose Ghati, Karnal.

73060	Sunita Kathuria Kashmiri Lal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20363 20/09/98	2/2, Devi Pura, Tara Pharmaceuticals, Gohana (Sonapat)
73061	Sunita Sharma Jai Bhagwan Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20285 21/05/98	11-B, Ismaila (Rohtak)
73062	Sunita Singla Dharam Chand Jain	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20522 09/09/99	Near Jai Bajrang Dharam Kanta, Sohna Road, Ballabgarh (Faridabad)
73063	Surender Kumar Sardana Chandan Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20485 03/06/99	Vill. Ismailpur, PO. Munda Khara Teh. Badli (Jhajjar)
73064	Surender Sharma Devi Ram Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20184 06/10/97	Subhash Nagar, Near D.C. Residence, Jhajjar.
73065	Suresh Kumar Dugel Chandan Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20359 15/09/98	701/10, Gaukaran Road, Shora Kothi, Rohtak.
73066	Suresh Malik Bir Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20548 20/12/99	V & PO. Shamlo Kalan (Jind)
73067	Surinder Kumar Chander Bhan Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20367 13/10/98	109, Vikas Nagar, Bhiwani.
73068	Surinder Singh Balwan Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1993	20347 26/08/98	V & PO. Birdhana (Jhajjar)
73069	Sushil Arya V.V. Shastri	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20440 16/03/99	319/34, Janta Colony, Rohtak.
73070	Sushil Kaushik Keshav Dutt Kaushik	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur 1998	20533 06/10/99	Main Bazar, Ballabgarh (Faridabad)
73071	Sushil Kumar Tarlochan Kumar	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20421 08/03/99	109, Housing Board, Ambala Cantt.



73072	Tanu Takkar Manoj Takkar	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1994	20401 09/02/99	31, Friends Colony, Hisar.
73073	Tara Chand Ram Kishan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1993	20156 03/07/97	V & P.O. Mehrana (Jhajjar)
73074	Tarun Bharti Kashmiri Lal Sindhwani	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20290 03/06/98	65, Vikas Nagar, Ambala City.
73075	Tikesh Kumar Mam Raj	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20114 09/04/97	Old Mandi, Narnaul (Mahendergarh)
73076	Tulsi Dass Shiv Dayal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20422	75/11, Chakravorty Mohalla Thanesar (Kurukshetra)
73077	Umesh Kumari Sangwan Man Singh Sangwan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20482 02/06/99	19, Indira Colony, City Railway Station Road, Bhiwani.
73078	Urmil Redhu Naresh Redhu	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20506 16/07/99	Navjoti Hospital, Nigdhu Teh. Nilokheri (Karnal)
73079	Urvasi Bharti Virender Kumar Bharti	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20490 18/06/99	227/14, Moh. Dogran, Hisar
73080	Uttam Singh A Chandgi Ram	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20443 17/03/99	V & P.O. Duloth Jat (Mahendergarh)
73081	Vandana Aggarwal Rajinder Pal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20218 18/02/98	1201, Sec-13, UE, Kurukshetra.
73082	Vandana Gautam Ashok Gautam	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20228 18/02/98	910/7, HUDA, Kurukshetra.
73083	Vandana Katyal S.P. Katyal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20446 18/03/99	322, Sector-16, Panchkula.

73084	Vardana Malik Sathir Malik	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20574 31/08/99	H.No.631, W.No.4, Opp. Dr. Dharamvir Singh, Tehsil Road, Gohana (Sonapat)
73085	Vandana Sirohi Surender Singh Sirohi	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20209 19/01/98	H.No.3, Near Arya Samaj Mandir, Shahabad Mohdpur, N.Delhi.
73086	Vanita Sharma Suresh Kumar Sharma	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20487 18/06/99	W.No.7, Kahina Mandi (Mahendergarh)
73087	Vijay Kumar Krishan Sawruf	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20229 18/02/98	Vill. Chhalondi, P.O. Ban, Teh. Thanesar (Kurukshetra)
73088	Vijay Roy Meritunjay Roy	BAMS S.S.Univ., Varansi 1990	20362 29/09/98	Monika Hospital, Rania Gate, Sirsa.
73089	Vijay Singh Mahadaram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20525 24/09/99	Vill. Baragaon, P.O. Barkada, Teh. Narnaul (Mahendergarh)
73090	Vijaypal Kundu Lal Chand	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20199 24/12/97	55/8, Shiveji Colony, Rohtak.
73091	Vijender Kumar Sharma Prem Chand Sharma	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20425 08/03/99	V & P.O. Birbal (Karnal)
73092	Vikram Bhatia A.N. Bhatia	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20500 16/07/99	3H/60, NIT, Faridabad.
73093	Vikram Chauhan Diljit Rai	BAMS G.D.Univ., Amritsar 1998	20502 16/07/99	Booth No.78, Sector-7, Panchkula.
73094	Vimmi Sapra M.L. Sapra	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20380 20/11/98	120, Nai Abadi, Rewari.
73095	Vinay Kumar Lamba Karan Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20374 10/11/98	V & P.O. Dalanwas (Mahendergarh)

3096	Vinod Kumar Anchal Bishamber Dayal	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1996	20242 26/03/98	Anchal Bhawan, Gali Capt. Nathu Singh, Lohar Bazar, Bhiwani.
73097	Vinod Kumar Chauhan Balbir Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20450 22/03/99	2128-A, Sector-24-C, Chandigarh.
73098	Vinod Taluja Nihal Chand Taluja	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 1991	20201 24/12/97	Begu Road, Jagdambe Colony Sirsa.
73099	Vipul Goel Santosh Kumar Goel	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20429 08/03/99	C/o Ram Dayal, Pieyo Mahiyari Kundli (Sonapat)
73100	Virender Gandhi Ram Dass Gandhi	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20166 01/08/97	Narnaul Road, Nangal Chaudhary (Mahendergarh)
73101	Virender kaur Trilok Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1995	20292 17/06/98	G-15, New Polytechnic Colony, Nilokheri (Karnal)
73102	Virender Kumar Mai Ram	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1998	20539 27/10/99	77, Vikas Nagar, Bhiwani.
73103	Vishavjit Singh Jagjit Singh	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1996	20253 21/04/98	H.No.170/34, Vishavkarma Nagar, Rohtak.
73104	Vivek Gupta Anand Sarup Gupta	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20528 24/09/99	147, Khara Bazar, Bishambliyan Street, Jagadhari (Yamuna Nagar)
73105	Yashbir Gahlawat M.S. Gahlawat	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20441 19/03/99	1193/1, Daya Nand Colony, Gurgaon.
73106	Yogender Pal Madan Yash Pal Madan	BAMS M.D.Univ., Rohtak 1997	20509 27/07/99	H.No.528/12, Krishna Colony, Gurgaon.
73107	Yogesh Yadav Suraj Bhan	BAMS Kurukshetra Univ., Kurukshetra 1997	20409 23/02/99	Vill. Musedpur, PO. Farrukh Nagar, Distt. Gurgaon.

73108 Zile Singh Chauhan  
Fat Ram Chauhan

Bhishgacharya  
R.A.U. Tib. Coll., Jaipur  
1965

20473  
03/05/99

W.No.1., Main Bazar, Indri  
(Karnal)



Registrar

Central Council of Indian Medicine

New Delhi

## PART-I IF-UNANI

CR. NO NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION/ AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. ADDRESS: & DATE
6310 Memoona Khan Shafi Quarrehman Khan	BUMS Delhi Univ., Delhi 1996	20261 21/04/98 Mathura Road, Sector-8, Faridabad.
6311 Shafiq-Ur-Rehman Khan Atiqur Tehman Khan	BUMS Univ. of Bihar, Muzaffarpur 1992	20352 23/10/98 Mathura Road, Sector-8, Faridabad.



Registrar

Central Council of Indian Medicine

New Delhi

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004